



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61]  
No. 61]

नई दिल्ली, गुरुवार, मार्च 1, 1984/फाल्गुन 11, 1905  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1984/PHALGUNA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

अधिसूचनाएं

सं० 7/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा० का० नि० 89(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क  
नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की  
अधिसूचना सं० 81/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1983 का  
निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में उपाखण्ड अनुसूची स, कम सं० 11, 37, 41 और  
72 और उनमें संबंधित प्रविष्टियों का योग किया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st March, 1984

NOTIFICATIONS

No 7/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 89(E) —In exercise of the powers conferred by sub-  
rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Cen-  
tral Government hereby makes the following further amend-  
ment in the notification of the Government of India in the  
Ministry of Finance (Department of Revenue) No 81/83-  
Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, Sl. Nos.  
11, 37, 41 and 72 and the entries relating thereto shall be  
omitted.

सं० 8/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा० का० नि० 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और वैकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग) की, इसमें उपाखण्ड मारणी के स्वम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना उक्त मारणी के स्वम्भ (3) की तत्स्थानी  
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रूप में संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

## सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन																																	
(1)	(2)	(3)																																	
1.	274/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1976	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—																																	
		<table> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> <tr> <td>"1.</td><td>अप्रसंस्कृत फैब्रिक</td><td>कुछ नहीं</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>(क) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊर्जा सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।</td><td>कुछ नहीं</td></tr> <tr> <td></td><td>(ii) अन्य</td><td>मूल्य का पांच प्रतिशत</td></tr> <tr> <td></td><td>(ख) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और संयुक्त मिल द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊन सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।</td><td>मूल्य का दस प्रतिशत</td></tr> <tr> <td></td><td>(ii) अन्य</td><td>मूल्य का आठ प्रतिशत</td></tr> <tr> <td></td><td>(ग) अन्य प्रसंस्कृत फैब्रिक</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊर्जा सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।</td><td>मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत</td></tr> <tr> <td></td><td>(ii) अन्य</td><td>मूल्य का दस प्रतिशत</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	"1.	अप्रसंस्कृत फैब्रिक	कुछ नहीं	2.	(क) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :			(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊर्जा सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।	कुछ नहीं		(ii) अन्य	मूल्य का पांच प्रतिशत		(ख) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और संयुक्त मिल द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :			(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊन सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।	मूल्य का दस प्रतिशत		(ii) अन्य	मूल्य का आठ प्रतिशत		(ग) अन्य प्रसंस्कृत फैब्रिक			(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊर्जा सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।	मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत		(ii) अन्य	मूल्य का दस प्रतिशत
(1)	(2)	(3)																																	
"1.	अप्रसंस्कृत फैब्रिक	कुछ नहीं																																	
2.	(क) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :																																		
	(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊर्जा सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।	कुछ नहीं																																	
	(ii) अन्य	मूल्य का पांच प्रतिशत																																	
	(ख) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और संयुक्त मिल द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :																																		
	(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊन सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।	मूल्य का दस प्रतिशत																																	
	(ii) अन्य	मूल्य का आठ प्रतिशत																																	
	(ग) अन्य प्रसंस्कृत फैब्रिक																																		
	(i) पुनराप्त ऊर्जा के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त ऊर्जा सूत से बुने हुए) बनाए गए हैं ।	मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत																																	
	(ii) अन्य	मूल्य का दस प्रतिशत																																	
2.	275/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना में— (क) सारणी में, क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— "2. सेलुलोसी कता सूत और क्रास रील, अटिचियों में कपास का सूत, चाहे एक तार के सूत का हो या अनेक तारों के सूत का जो किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा।																																	

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

सहकारी सोसाइटी या सरकार द्वारा  
हथकरघा के विकास के लिए स्थापित  
या अनुमोदित किसी संगठन द्वारा क्रय  
किया गया है और जिसके लिए संदाय,  
यथास्थिति, ऐसी सहकारी सोसायटी या  
संगठन द्वारा अपने बैंक खाते पर लिखे  
गए बैंक द्वारा किया जाता है।

- |   |  |
|---|--|
| (क) 25 से अनधिक काउन्ट का;                    | कुछ नहीं।  |
| (ख) 25 से अधिक किन्तु 35 से अनधिक काउन्ट का ; | 5 पैसे, घन 25 से अधिक प्रत्येक काउन्ट के लिए 2 पैसे।   |
| (ग) 35 से अधिक किन्तु 45 से अनधिक काउन्ट का   | 25 पैसे, घन 35 से अधिक प्रत्येक काउन्ट के लिए 4 पैसे।  |
| (घ) 45 से अधिक किन्तु 55 से अनधिक काउन्ट का;  | 65 पैसे, घन 45 से अधिक प्रत्येक काउन्ट के लिए 7 पैसे।  |
| (ङ) 55 से अधिक काउन्ट के                      | 135 पैसे, घन 55 से अधिक प्रत्येक काउन्ट के लिए 3 पैसे। |

(ख) सारणी से नीचे के परन्तुक में, खण्ड  
(i) का लोप किया जाएगा।

3. 44/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 10, 11 और 13 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

4. 49/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 में—  
(i) मद (ख) के सामने, स्तम्भ (3) में “24.00” अंकों के स्थान पर “14.00” अंक रखे जाएंगे ;  
(ii) परन्तुक का लोप किया जाएगा।

5. 53/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

उक्त अधिसूचना में, “छह रुपए प्रति किलोग्राम” शब्दों के स्थान पर “चार रुपए प्रति किलोग्राम” शब्द रखे जाएंगे।

## No. 8/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue

and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended, or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment																																	
(1)	(2)	(3)																																	
1.	274/76-Central Excises, dated the 13th November, 1976.	In the Table annexed to the said notification, for Sl. Nos. 1 and 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr><tr><td>"1. Unprocessed fabrics.</td><td></td><td>Nil</td></tr><tr><td>2. (a) Fabrics woven by a factory (other than a Composite mill) and processed by an independent processor :—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).</td><td></td><td>Nil</td></tr><tr><td>(ii) Others.</td><td></td><td>Five per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(b) Fabrics woven by a factory, (other than a composite mill) and processed by a composite mill—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).</td><td></td><td>Two per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(ii) Others.</td><td></td><td>Eight per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(c) Other processed fabrics—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).</td><td></td><td>Four and a half per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(ii) Others.</td><td></td><td>Ten per cent. ad valorem."</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	"1. Unprocessed fabrics.		Nil	2. (a) Fabrics woven by a factory (other than a Composite mill) and processed by an independent processor :—			(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		Nil	(ii) Others.		Five per cent. ad valorem.	(b) Fabrics woven by a factory, (other than a composite mill) and processed by a composite mill—			(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		Two per cent. ad valorem.	(ii) Others.		Eight per cent. ad valorem.	(c) Other processed fabrics—			(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		Four and a half per cent. ad valorem.	(ii) Others.		Ten per cent. ad valorem."
(1)	(2)	(3)																																	
"1. Unprocessed fabrics.		Nil																																	
2. (a) Fabrics woven by a factory (other than a Composite mill) and processed by an independent processor :—																																			
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		Nil																																	
(ii) Others.		Five per cent. ad valorem.																																	
(b) Fabrics woven by a factory, (other than a composite mill) and processed by a composite mill—																																			
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		Two per cent. ad valorem.																																	
(ii) Others.		Eight per cent. ad valorem.																																	
(c) Other processed fabrics—																																			
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		Four and a half per cent. ad valorem.																																	
(ii) Others.		Ten per cent. ad valorem."																																	
2.	275/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982.	In the said notification— (a) in the Table, for S. No. 2 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :— "2. Cellulosic spun yarn and cotton yarn in cross reel hanks, whether single or multiple fold, purchased by a registered handloom co-operative society or any organisation set up or approved by the Government for the development of handlooms and payment for which is made by cheque drawn by such co-operative society or organisation, as the case may be, on its own Bank Account— <table><tr><td>(a) of counts not exceeding 25;</td><td>Nil</td></tr><tr><td>(b) of counts exceeding 25 but not exceeding 35;</td><td>5 paise, plus 2 paise per count exceeding 25;</td></tr><tr><td>(c) of counts exceeding 35 but not exceeding 45;</td><td>25 paise, plus 4 paise per count exceeding 35;</td></tr><tr><td>(d) of counts exceeding 45 but not exceeding 55;</td><td>65 paise, plus 7 paise per count exceeding 45;</td></tr><tr><td>(e) of counts exceeding 55.</td><td>135 paise, plus 3 paise per count exceeding 55."</td></tr></table> (b) In the proviso below the Table, clause (i) shall be omitted.	(a) of counts not exceeding 25;	Nil	(b) of counts exceeding 25 but not exceeding 35;	5 paise, plus 2 paise per count exceeding 25;	(c) of counts exceeding 35 but not exceeding 45;	25 paise, plus 4 paise per count exceeding 35;	(d) of counts exceeding 45 but not exceeding 55;	65 paise, plus 7 paise per count exceeding 45;	(e) of counts exceeding 55.	135 paise, plus 3 paise per count exceeding 55."																							
(a) of counts not exceeding 25;	Nil																																		
(b) of counts exceeding 25 but not exceeding 35;	5 paise, plus 2 paise per count exceeding 25;																																		
(c) of counts exceeding 35 but not exceeding 45;	25 paise, plus 4 paise per count exceeding 35;																																		
(d) of counts exceeding 45 but not exceeding 55;	65 paise, plus 7 paise per count exceeding 45;																																		
(e) of counts exceeding 55.	135 paise, plus 3 paise per count exceeding 55."																																		
3.	34/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.	In the Table annexed to the said notification, S. Nos. 10, 11 and 13 and the entries relating thereto shall be omitted.																																	
4.	49/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.	In the Table annexed to the said notification, in S. No. 2 :— (i) against item (b), in column (3), for the figures "24.00" the figures "14.00" shall be substituted; (ii) the proviso shall be omitted.																																	
5.	53/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.	In the said notification, for the words "six rupees per kilogram", the words "four rupees per kilogram" shall be substituted.																																	

## सं० 9/84—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं०का०नि० 91(अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की, इस से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रूप में संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

## सारणी

क्रम० सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1	275/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1976	उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में, मद क और ख और उनके सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —
		(1) (2)

## प्रसंस्कृत फौजिक—

(क) यदि (संयुक्त मिल से मिल) कार-  
खाने द्वारा बुने गए हैं

और किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए  
गए हैं :

(i) पुनराप्त ऊर्ण के कम्बल, वे कम्बल जो  
देशी ऊन और मेल्टन कपड़े  
(पुनराप्त ऊर्ण सूत से बने हुए) से  
बनाए गए हैं।

कुछ नहीं

(ii) अन्य मूल्य का ढाई प्रतिशत

(ख) यदि (संयुक्त मिल से मिल) कार-  
खाने द्वारा बुने गए हैं और संयुक्त  
मिल द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं।

(i) पुनराप्त ऊर्ण के कम्बल, वे कम्बल जो  
देशी ऊन और मेल्टन कपड़े (पुनराप्त  
ऊर्ण सूत से बने हुए) से बनाए गए हैं। मूल्य का साठे चार  
प्रतिशत।

(ii) अन्य मूल्य का चार प्रतिशत

1	2	3						
2. 79/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, मद (v) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“(v) बीस रुपए से अधिक किन्तु पच्चीस रुपए से अनधिक है</td> <td>मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>(vi) पच्चीस रुपए से अधिक है</td> <td>मूल्य का दस प्रतिशत”</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	“(v) बीस रुपए से अधिक किन्तु पच्चीस रुपए से अनधिक है	मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत	(vi) पच्चीस रुपए से अधिक है	मूल्य का दस प्रतिशत”
(1)	(2)							
“(v) बीस रुपए से अधिक किन्तु पच्चीस रुपए से अनधिक है	मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत							
(vi) पच्चीस रुपए से अधिक है	मूल्य का दस प्रतिशत”							
3. 80/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, मद (vii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“(vii) बीस रुपए से अधिक किन्तु पच्चीस रुपए से अनधिक है।</td> <td>मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।</td> </tr> <tr> <td>(viii) पच्चीस रुपए से अधिक है।</td> <td>मूल्य का दस प्रतिशत”</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	“(vii) बीस रुपए से अधिक किन्तु पच्चीस रुपए से अनधिक है।	मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।	(viii) पच्चीस रुपए से अधिक है।	मूल्य का दस प्रतिशत”
(1)	(2)							
“(vii) बीस रुपए से अधिक किन्तु पच्चीस रुपए से अनधिक है।	मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।							
(viii) पच्चीस रुपए से अधिक है।	मूल्य का दस प्रतिशत”							
4. 251/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 में, मद (i) और (ii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“(i) पांच रुपए से अधिक किन्तु छह रुपए से अनधिक है।</td> <td>मूल्य का तीन प्रतिशत”</td> </tr> </tbody> </table>	(2)	(3)	“(i) पांच रुपए से अधिक किन्तु छह रुपए से अनधिक है।	मूल्य का तीन प्रतिशत”		
(2)	(3)							
“(i) पांच रुपए से अधिक किन्तु छह रुपए से अनधिक है।	मूल्य का तीन प्रतिशत”							
5. 252/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 में, मद (i) और (ii) और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“(i) पांच रुपए से अधिक किन्तु सात रुपए से अनधिक है।</td> <td>मूल्य का तीन प्रतिशत”</td> </tr> </tbody> </table>	(2)	(3)	“(i) पांच रुपए से अधिक किन्तु सात रुपए से अनधिक है।	मूल्य का तीन प्रतिशत”		
(2)	(3)							
“(i) पांच रुपए से अधिक किन्तु सात रुपए से अनधिक है।	मूल्य का तीन प्रतिशत”							

[फा० सं० 334/1/83-टी० आर० यू०]  
गौतम रे, अवर सचिव

[फा० सं० 334/1/83-टी० आर० यू०]

गौतम रे, अवर सचिव

## No. 9/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that each

of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or, as the case may be, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment																
(1)	(2)	(3)																
1.	275/76-Central Excises, dated the 13th November, 1976	In the Table annexed to the said notifications, for items A and B and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td colspan="2">“Processed fabrics—</td></tr><tr><td>(A) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor :</td><td>Nil</td></tr><tr><td>(i) shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).</td><td></td></tr><tr><td>(ii) Others</td><td>Two and a half per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(B) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by a composite mill :</td><td></td></tr><tr><td>(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).</td><td>Four and a half per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(ii) Others.</td><td>Four per cent. ad valorem.”</td></tr></table>	(1)	(2)	“Processed fabrics—		(A) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor :	Nil	(i) shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).		(ii) Others	Two and a half per cent. ad valorem.	(B) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by a composite mill :		(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).	Four and a half per cent. ad valorem.	(ii) Others.	Four per cent. ad valorem.”
(1)	(2)																	
“Processed fabrics—																		
(A) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor :	Nil																	
(i) shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).																		
(ii) Others	Two and a half per cent. ad valorem.																	
(B) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by a composite mill :																		
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).	Four and a half per cent. ad valorem.																	
(ii) Others.	Four per cent. ad valorem.”																	
2.	79/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In the Table annexed to the said notification, for item (v) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>“(v) exceeds rupees twenty but does not exceed rupees twenty-five.</td><td>Seven and a half per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(vi) exceeds rupees twenty-five.</td><td>Ten per cent. ad valorem.”</td></tr></table>	(1)	(2)	“(v) exceeds rupees twenty but does not exceed rupees twenty-five.	Seven and a half per cent. ad valorem.	(vi) exceeds rupees twenty-five.	Ten per cent. ad valorem.”										
(1)	(2)																	
“(v) exceeds rupees twenty but does not exceed rupees twenty-five.	Seven and a half per cent. ad valorem.																	
(vi) exceeds rupees twenty-five.	Ten per cent. ad valorem.”																	
3.	80/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In the Table annexed to the said notification, for item (vii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>“(vii) exceeds rupees twenty but does not exceed rupees twenty-five.</td><td>Seven and a half per cent. ad valorem.</td></tr><tr><td>(viii) exceeds rupees twenty-five.</td><td>Ten per cent. ad valorem”</td></tr></table>	(1)	(2)	“(vii) exceeds rupees twenty but does not exceed rupees twenty-five.	Seven and a half per cent. ad valorem.	(viii) exceeds rupees twenty-five.	Ten per cent. ad valorem”										
(1)	(2)																	
“(vii) exceeds rupees twenty but does not exceed rupees twenty-five.	Seven and a half per cent. ad valorem.																	
(viii) exceeds rupees twenty-five.	Ten per cent. ad valorem”																	
4.	251/82-Central Excises, dated the 8th November, 1982.	In the Table annexed to the said notification, in S. No. 2, for items (i) and (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :— <table><tr><th>(2)</th><th>(3)</th></tr><tr><td>“(i) exceeds five rupees but does not exceed six rupees.</td><td>Three per cent. ad valorem.”</td></tr></table>	(2)	(3)	“(i) exceeds five rupees but does not exceed six rupees.	Three per cent. ad valorem.”												
(2)	(3)																	
“(i) exceeds five rupees but does not exceed six rupees.	Three per cent. ad valorem.”																	
5.	252/82-Central Excises, dated the 8th November, 1982.	In the Table annexed to the said notification, in S No. 2, for items (i) and (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :— <table><tr><th>(2)</th><th>(3)</th></tr><tr><td>“(i) exceeds five rupees but does not exceed seven rupees.</td><td>Three per cent. ad valorem.”</td></tr></table>	(2)	(3)	“(i) exceeds five rupees but does not exceed seven rupees.	Three per cent. ad valorem.”												
(2)	(3)																	
“(i) exceeds five rupees but does not exceed seven rupees.	Three per cent. ad valorem.”																	

[F. No. 334/1/83-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1981

सं० 10/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 92(अ) —केंद्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाली खांडसारी को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

New Delhi, the 1st March, 1984

No 10/84-CENTRAL EXCISES

G S R 92(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts khandasari sugar, falling under sub-item (2) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957)

सं० 11/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 93(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92-ख के अनुमरण में, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 162/80-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 अक्टूबर, 1980 को विरुद्धित करती है।

No 11/84 CENTRAL EXCISES

G S R 93(E)—In pursuance of rule 92B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 162/80-Central Excises dated the 21st October, 1980

सं० 12/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 94(अ) —केंद्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 92-ख के अनुमरण में भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 163/80-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 अक्टूबर 1980 को विरुद्धित करती है।

No 12/84-CENTRAL EXCISES

G S R 94(E)—In pursuance of rule 92B of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957 (58 of 1957) the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 163/80-Central Excises, dated the 21st October, 1980

सं० 13/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 95(अ) —केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 57) की धारा 3 की

उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 9 व उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 152/68-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 27 जुलाई 1968 को विरुद्धित करती है।

No 13/84 CENTRAL EXCISES

G S R. 95(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 152/68-Central Excises, dated the 27th July, 1968

सं० 14/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 96(अ) —केंद्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 211/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 1983 को निम्नाखिलित और संशोधन करती है अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैरा क परन्तुक के स्थान पर निम्न लिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात् —

“परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्घाटनीय शुल्क की रकम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्घाटनीय शुल्क के बीच 1 75 1 00 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।”

No 14/84-CENTRAL EXCISES

G S R 96(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 211/83 Central Excises, date the 4th August 1983 namely —

In the said notification, for the proviso to the opening paragraph the following proviso shall be substituted namely ly —

“Provided that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 1 75 1 00 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957 (58 of 1957) respectively.”

सं० 15/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 97(अ) —केंद्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की, इसमें उपाय बदलावों के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रकृति में विनिर्दिष्ट रूप में यथास्थिति संशोधित या और संशोधित की जाएगी।



सारणी		
क्र० सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधित
(1)	(2)	(3)
1.	34/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979	उक्त अधिसूचना में— (1) "के अन्तर्गत आने वाले खाने के तम्बाकू को" शब्दों के स्थान पर "के अन्तर्गत आने वाले खाने के तम्बाकू को, जिसके अन्तर्गत खारा मसाला, किमाम, डोक्टा, जर्दा, सुक्खा और सुर्ती नाम से सामान्यतया ज्ञात निर्मितियां हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाने का तम्बाकू कहा गया है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;
2.	35/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979	उक्त अधिसूचना में— (1) "विनिर्दिष्ट वर्णन के खाने के तम्बाकू को", शब्दों के स्थान पर "विनिर्दिष्ट वर्णन के खाने के तम्बाकू को, जिसके अन्तर्गत खारा मसाला, किमाम, डोक्टा, जर्दा, सुक्खा और सुर्ती नाम से सामान्यतया ज्ञात निर्मितियां हैं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाने का तम्बाकू कहा गया है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे। (2) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :— "परन्तु यह कि इस प्रकार उद्गृहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का मान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।"

## No. 15/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 (read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

1507 GI/83—2

Table		
S. Notification No. and date No.	Amendment	
(1)	(2)	(3)
1. 34/79, Central Excises dated the 1st March, 1979		In the said notification (i) for the words "chewing tobacco falling" the words "chewing tobacco including preparations commonly known as khara masala, kimam, dokta, zarda, sukha and surti falling" shall be substituted; (ii) for the brackets, figures and words "(1 of 1944), from the whole of the duty of excise", the brackets, figures and words "(1 of 1944) (hereinafter referred to as chewing tobacco), from the whole of the duty of excise" shall be substituted.
2. 35/79 Central Excises, dated the 1st March, 1979		In the said notification — (i) for the words "chewing tobacco of the description" the words "chewing tobacco including preparations commonly known as khara masala, kimam, dokta, zarda, sukha and surti of the description" shall be substituted; (ii) for the brackets, figure and words "(1 of 1944) from so much of the duty of excise", the brackets, figures and words "(1, 1944) (hereinafter referred to as chewing tobacco), from so much of the duty of excise" shall be substituted. (iii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :— "Provided that the amount of duty so levied shall apportioned in the ratio of 75:25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excises (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively".

सं० 16/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा० का० ति० १९ (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 का निम्न-निर्दिष्ट संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाख्य मारणी के स्तम्भ (2) में, क्र० सं० 1 के सामने,—

- (i) “बीड़ी, नसवार, खाने का तम्बाकू और हुक्का तम्बाकू” प्रविष्टि के स्थान पर, “बीड़ी, नसवार, खाने का तम्बाकू” जिसके अन्तर्गत “खारा मसाला”, “किमाम”, “डाक्टा”, “जर्दी” और “सूर्ती” तथा “हुक्का तम्बाकू” नाम से ज्ञात निमित्तियां हैं, प्रविष्टि रखी जाएगी,
- (ii) “रजत”, “मैदा”, “मिश्रित या सम्मिश्रित स्नेहक तेल और घी”, “सैयार वस्त्र” और “मोजेक टाइल” प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

#### No. 16/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely :—

In the Table annexed to the said notification in column (2) against Sl. No. 1,—

- (i) for the entry “Biris, Snuff, Chewing Tobacco and Hookah Tobacco”, the entry “Biris, Snuff, Chewing Tobacco including preparations commonly known as ‘Khara Masala’, ‘Kimam’, ‘Dokta’, ‘Zarda’, ‘Sukha’ and ‘Surti’, and ‘Hookah Tobacco’ shall be substituted;
- (ii) the entries “Silver, Maida, Blended or Compounded lubricating oils and greases”, “Ready-to-wear garments” and “Mosaic tiles” shall be omitted.

सं० 17/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 99(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 58 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 223/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद 34 और उसके सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

[फा० सं० 334/1/83-टी आर यू]

के० एम० वेकटगिरि, अवर सचिव

#### No. 17/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely :—

In the said notification, Item 34 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/83-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

सं० 18/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 100 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14क के अंतर्गत आने वाले और भारत में नायलान पॉलिमर अपशिष्ट की पुनः प्रक्रिया द्वारा ऐसे अपशिष्ट से उत्पादित कैप्रोलेक्टम को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “नायलान पॉलिमर अपशिष्ट” से कैप्रोलेक्टम से नायलान सूत के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है ।

[फा० सं० 334/1/83-टी आर यू]

गौतम रे, अवर सचिव

New Delhi, 1st March, 1984

#### No. 18/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts caprolactum, falling under Item No. 14AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and produced out of nylon ploymer waste by the process of recycling of such waste in India, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

Explanation :—For the purposes of this notification, “nylon polymer waste” means the waste arising during the manufacture of nylon yarn from caprolactum.

[F. No. 334/1/83-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

सं० 19/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 101 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 का उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले लाठी साबुन को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, इस शर्त के अधीन रहते हुए, छूट देती है कि ऐसे साबुन का खादी और ग्रामीण आयोग द्वारा या ऐसे साबुन के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए खादी और ग्रामीण आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संगठन के स्वामित्व में के किसी कारखाने द्वारा उत्पादन किया जाता है ।

New Delhi, the 1st March, 1984

#### No. 19/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts laundry soap, falling under sub-item (1) of Item No. 15 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act, subject to the condition that such soaps are produced by a factory owned by the Khadi and Village Industries Commission or any organisation approved by the Khadi and Village Industries Commission for the purpose of manufacture of such soaps.

## सं० 20/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 102(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 16 की ऐसी उपमदों के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अंतर्गत आने वाले टायरों को (जिनके अंतर्गत ट्यूब और प्लैप नहीं हैं), उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

		सारणी	
क्रम सं०	उपमद सं०	वर्णन	शुल्क की दर प्रति टायर रुपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I(1)(क)(i)	स्कूटरों के लिए निम्नलिखित आकार के टायर, अर्थात्:— 3.50-8 और 3.50-10	25.00
2.	I(1)(क)(i)	मोटर-साइकिल/मोपेड/आटो-साइकिल के लिए निम्न- लिखित सेक्शन चौड़ाई आकार के टायर, अर्थात्:— (i) 3.00 इंच से कम (ii) 3.00 इंच और उससे अधिक	20.00 30.00
3.	I(1)(ख)(i)	आटो रिक्शा के लिए निम्नलिखित आकार के टायर, अर्थात्:— 4.00-8 और 4.50-10	75.00
4.	I(1)(ख)(i)	सैलून कारों के लिए निम्नलिखित रिम आकार के टायर, अर्थात्:— (i) 12 इंच और उससे कम (ii) 13 इंच (iii) 14 इंच— (क) रेडियल टायर (ख) अन्य (iv) 15 इंच— (क) रेडियल टायर (ख) अन्य (v) 16 और 17 इंच— (क) रेडियल टायर (ख) अन्य	130.00 140.00 190.00 160.00 230.00 190.00 250.00 220.00
5.	I(1)(ख)(i)	उपरोक्त क्रम सं० 3 और 4 से भिन्न मोटरयानों के लिए निम्नलिखित आकार के टायर, अर्थात्:— क.(i) 9.00-13, 7.00-17, 6.00-20, 6.50- 20, 7.00-20 और 7.50-20— (क) रेयन टायर (ख) नायलन टायर (ii) 8.25-20 और 8.25-15- (क) रेयन टायर (ख) नायलन टायर (iii) 9.00-20—	630.00 650.00 680.00 710.00

(1)	(2)	(3)	(4)
		(क) रेयन टायर	760.00
		(ख) नायलन टायर	950.00
	(iv)	10.50-16, 10.00-20, 11.00-20 और 10.00-22—	
		(क) रेयन टायर	850.00
		(ख) नायलन टायर	1130.00
	(v)	12.00-20- 14.00-20, 10.00-24, 11.00-24 और 12.00-24—	
		(क) रेयन टायर	1150.00
		(ख) नायलन टायर	1350.00
	ख.(i)	6.70-15 और 7.00-15—	
		(क) रेयन टायर	300.00
		(ख) नायलन टायर	360.00
	(ii)	6.00-16—	
		(क) रेयन टायर	210.00
		(ख) नायलन टायर	240.00
	(iii)	6.50-16 और 7.00-16—	
		(क) रेयन टायर	320.00
		(ख) नायलन टायर	360.00
	(iv)	7.50-16—	
		(क) रेयन टायर	460.00
		(ख) नायलन टायर	500.00
	(v)	9.00-16	580.00
6. I(2)(क)		ट्रेक्टर के अगले टायर	100.00
7. I(2)(क)		ट्रेक्टर के लिए निम्नलिखित रिम आकार के पिछले टायर, अर्थात् :—	
	(i)	28 इंच और उससे कम—	
		(क) रेयन टायर	330.00
		(ख) नायलन टायर	380.00
	(ii)	28 इंच से अधिक	400.00
8. I(3)(क)(i)		ट्रेक्टरों के लिए निम्नलिखित आकार के टायर, अर्थात् :—	
	(i)	7.50-16	180.00
	(ii)	9.00-16	360.00

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, सैलून कारों के लिए रिम आकार के टायरों, अर्थात् 15 इंच के अंतर्गत  
वेन के लिए 6.40-15 आकार के टायर हैं।

#### No. 20/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tyres (excluding tubes and flaps) of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items,

specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 16 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S. Sub-item No.	Description	Rate of duty in rupees per tyre
(1)	(2)	(3)
1. I(1)(a)(i)	Tyres for scooters of sizes, namely :— 3.50-8 and 3.50-10	25.00
2. I(1)(a)(i)	Tyres for Motor-cycles/Mopeds/Auto-cycles of section width sizes, namely :— (i) Below 3.00 inches (ii) 3.00 inches and above	20.00 30.00
3. I(1)(b)(i)	Tyres for auto-rickshaws of sizes namely :— 4.00 - 8 and 4.50—10	75.00
4. I(1)(b)(i)	Tyres for Saloon Cars of Rim sizes, namely :— (i) 12 inches and below (ii) 13 inches (iii) 14 inches— (a) Radial tyres (b) Others (iv) 15 inches— (a) Radial tyres (b) Others (v) 16 and 17 inches— (a) Radial tyres (b) Others	130.00 140.00 190.00 170.00 230.00 190.00 250.00 270.00
5. I(1)(b)(i)	Tyres for motor vehicles other than Sl. Nos. 3 and 4 above, of sizes, namely : A. (i) 9.00-13, 7.00-17, 6.00-20, 6.50-20, 7.00-20 and 7.50-20— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (ii) 8.25-20 and 8.25-15— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (iii) 9.00-20— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (iv) 10.50-16, 10.00-20, 11.00-20 and 10.00-20— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (v) 12.00-20, 14.00-20, 10.00-24, 11.00-24 and 12.00-24— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres B. (i) 6.70-15 and 7.00-15— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres ii) 6.00-16— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (iii) 6.50-16 and 7.00-16— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (iv) 7.50-16— (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (v) 9.00-16	640.00 650.00 680.00 710.00 760.00 950.00 850.00 1130.00 1150.00 1350.00 300.00 360.00 210.00 240.00 320.00 360.00 460.00 500.00 580.00
6. I(2)(a)	Front tractor tyres	100.00

(1)	(2)	(3)	(4)
7. I(2)(a)	Rear tractor tyres of Rim sizes, namely : (i) 28 inches and below (a) Rayon tyres (b) Nylon tyres (ii) Above 28 inches		330.00 380.00 400.00
8. I(3)(a)(i)	Tyres for Trailers of sizes, namely :— (i) 7.50-16 (ii) 9.00-16		180.00 360.00

Explanation.—For the purpose of this notification, tyres for saloon cars of rim size, namely, 15 inches will include tyres for vans of size 6.40-15

सं० 21/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 103 (ख) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 65/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पृष्ठ पेज में, “उन पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना मूल्य के चालीस प्रतिशत से अधिक है” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उन पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत उक्त मान पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर के छिपानट सही हो बदा तीन प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

#### No. 21/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 65/81-Central Excises, dated the 25th March, 1981, namely :—

In the said notification, in the first paragraph, for the words “from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of forty per cent ad valorem, the words, brackets and figures ‘from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate of sixty-six and two-thirds per cent. of the rate of duty leviable on the said goods under the said First Schedule, read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the said Rules and in force for the time being’ shall be substituted.

सं० 22/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 104 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 229/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अक्टूबर, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 9 के सामने स्तंभ (2) में, “III” शब्दों के स्थान पर “IV” अक्षर रखे जाएंगे।

## NO. 22/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 229/82-Central Excises, dated the 15th October, 1982, namely :—

In the said notification, in column (2) against S.N. 9, for letters "III", letters "IV" shall be substituted.

सं० 23/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 105 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1941 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 268/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण 4 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 4—स्पष्टीकरण 3 में "संश्लेष शुल्क की रकम" —

(i) ऐसे टायरों की दशा में जहां उत्पाद-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन मूल्य के प्रतिनिर्देश से प्रभावी है, वह रकम होगी जो इस अधिसूचना के अथवा, यथास्थिति, पूर्वोक्त अधिसूचना सं० 198/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सं० 142/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सं० 107/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित टायरों के निर्धारणीय मूल्य को, इस अधिसूचना के अथवा, यथास्थिति, पूर्वोक्त अधिसूचना सं० 198/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सं० 142/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सं० 107/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के जारी न किए जाने की दशा में टायरों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की दर को लागू करके संगणित की जाती; और

(ii) ऐसे टायरों की दशा में जहां उत्पाद-शुल्क की दर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन मूल्य के प्रतिनिर्देश से प्रभावी है, वह रकम होगी जो इस अधिसूचना के जारी न किए जाने की दशा में, ऐसी दर को लागू करके संगणित की जाती है।"

[का० सं० 334/1/83-टी०आर०यू०]

क० एम० वैकटगिरि, अवसर सचिव

## NO. 23/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 105(E). —In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.268/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982, namely:—

In the said notification, for Explanation IV, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation IV.—The "amount of duty payable" in Explanation II—

(i) in the case of tyres where duty of excise is chargeable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) with reference to value, shall be the amount calculated by applying the rate of excise duty leviable on tyres, but for this notification or the aforesaid notification No. 198/76-Central Excises or No. 142/78-Central Excises or No.107/81-Central Excises, as the case may be, to the assessable value of the tyres as approved by the proper officer for the purposes of this notification or the aforesaid notification No. 198/76-Central Excises, or No. 142/78-Central Excises, or No. 107/81-Central Excises, as the case may be, respectively; and

(ii) in the case of tyres where the rate of excise duty is chargeable under the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), not with reference to value, shall be the amount calculated by applying such rate, but for this notification."

[F. No. 334/1/83-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

सं० 21/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 106 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपायद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मब सं० 17 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले कागज और कागज बोर्ड को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्त्व्यानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है:—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1. गुब्बण और लेखन कागज		मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार पाच रुपए प्रति मीटरी टन।
3. सभी प्रकार के कागज जो मा-मान्य तथा क्राफ्ट कागज के नाम से ज्ञात है (जिसके अंतर्गत क्राफ्ट लाइनर या नापीदार करने के माध्यम के रूप में ज्ञात कागज और कागज बोर्ड है) जिसका पदार्थ 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।		मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार तीन सौ पचासी रुपए प्रति मीटरी टन।

1	2
3 निम्नलिखित किस्म के कागज बोर्ड, अर्थात्, लुगदी बोर्ड, ट्रूले बोर्ड और ट्रिप्ले बोर्ड।	मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार आठ सौ तम रुपए प्रति मीटरी टन।
4 नमूने सं० 1 से 3 में विनिर्दिष्ट से पिछे कागज और कागज बोर्ड।	मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार चार सौ तम रुपए प्रति मीटरी टन।

New Delhi, the 1st March, 1984

## No. 24/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper and paper boards of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate

specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE		
S. No	Description	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Printing and writing paper	Ten per cent. <i>ad valorem plus</i> one thousand and five rupees per metric tonne.
2.	All sorts of paper commonly known as krafts paper (including paper and paper boards of the type known as kraft liner or corrugating medium) of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre.	2. Ten per cent. <i>ad valorem plus</i> one thousand three hundred and eighty-five rupees per metric tonne.
3.	Paper board of the following varieties, namely, pulp board, duplex board and triplac board.	Ten per cent. <i>ad valorem plus</i> one thousand eight hundred and ten rupees per metric tonne.
4.	Paper and paper boards, other than those specified in S. Nos. 1 to 3.	Ten per cent. <i>ad valorem plus</i> one thousand four hundred and thirty rupees per metric tonne.

## सं० 25/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा० का० नि० 107 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 46/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1983 को अधिकांत करने हुए इससे उपाखण्ड सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद संख्या 17 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाली ऐसी लुगदी से विनिर्मित कागज और कागज बोर्ड को जिसमें (बास, मुलायम लकड़ी, कठोर लकड़ी, रीठ या चिपड़ो से मिल) सामग्री में बनाई गई लुगदी, भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, और जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् निकासी की जाती है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्घाटनीय उक्त उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, उक्त स्तंभ (4) में दी तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देनी है —

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर	शर्तें
1	2	3	4
1 (i)	मुद्रण और लेखन कागज	450 रु० प्रति मीटरी टन	परन्तु यह तब जब कि किसी विनिर्मिता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से अथवा एक या अधिक विनिर्मिताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से समो किस्म के कागज और कागज बोर्डों की निकासी की, यदि कोई हो, कुल मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 3000 मीटरी टन से अधिक नहीं है।
(ii)	सभी प्रकार के कागज जो सामान्यतया क्राफ्ट कागज के नाम से ज्ञात हैं (जिसके अंतर्गत क्राफ्ट लाईनर या नाली-दार करने के माध्यम के रूप में ज्ञात कागज और कागज बोर्ड हैं जिसका पदार्थ 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।	450 रु० प्रति मीटरी टन	
(iii)	अन्य	560 रु० प्रति मीटरी टन	

(1)	(2)	(3)
2 (i) मुद्रण और लेखन कागज	730 रु० प्रति मीटरी टन	परन्तु यह तब जब कि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से सभी किसम के कागज और कागज बोर्ड की निकासी की कुल मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 3000 मीटरी टन से अधिक है किन्तु 7500 मीटरी टन से अधिक नहीं है।
(ii) सभी प्रकार के कागज जो सामान्यतया क्राफ्ट कागज के नाम से जाना है (जिसके अंतर्गत क्राफ्ट लाईनर या नालीदार करने के माध्यम के रूप में जाना कागज और कागज बोर्ड हैं) जिसका पदार्थ 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।	710 रु० प्रति मीटरी टन	
(iii) अन्य	900 रु० प्रति मीटरी टन	
3 (i) मुद्रण और लेखन कागज	900 रु० प्रति मीटरी टन	
(ii) सभी प्रकार के कागज जो सामान्यतया क्राफ्ट कागज के नाम से जाना है (जिसके अंतर्गत क्राफ्ट लाईनर या नालीदार करने के माध्यम के रूप में जाना कागज और कागज बोर्ड हैं) जिसका पदार्थ 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।	900 रु० प्रति मीटरी टन	परन्तु यह तब जब कि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से सभी किसम के कागज और कागज बोर्ड की निकासी की कुल मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 7500 मीटरी टन से अधिक है किन्तु 16500 मीटरी टन से अधिक नहीं है।
(iii) अन्य	1120 रु० प्रति मीटरी टन	

परन्तु यह तब जबकि ऐसे कारखानों में बांस या काष्ठ लुगदी बनाने के लिए उसमें कोई मंत्र मंत्र तड़ा है

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्बिष्ट छूट सिगरेटी कागज, स्लेमिन कागज, ग्रेस रोधी कागज, विलेपित कागज (जिसके अंतर्गत मोमी कागज है) और 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक पदार्थ वाले कागज को लागू नहीं होगी।

2 इस अधिसूचना की कोई बात, कागज या कागज बोर्ड के ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 89/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 या सं 83/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1983 के अंतर्गत छूट का लाभ उठाता है।

### No. 25/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 46/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, the Central Government hereby exempts paper and paper boards of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the

Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured out of pulp containing not less than 50 per cent. by weight of pulp made from materials [other than bamboo, hardwoods, softwoods, reeds or rags] and cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rates specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) thereof :—

TABLE

Sl. No.	Description	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (i)	Printing and writing paper.	Rs. 450 per metric tonne.	Provided that the total quantity of clearances, if any, of all varieties of paper and paper boards in the preceding financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or from a factory by or on behalf of one or more manufacturers did not exceed 1000 metric tonnes.
(ii)	All sorts of paper commonly known as kraft paper (including paper and paper boards of the type known as kraft liners or corrugating medium) of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre.	Rs. 450 per metric tonne.	
(iii)	Others.	Rs. 560 per metric tonne.	



1	2	3	4
2. (i) Printing and writing paper	Rs. 730 per metric tonne.	}	Provided that the total quantity of clearances of all varieties of paper and paper boards in the preceding financial year by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or from a factory by or on behalf of one or more manufacturers, exceeded 3,000 metric tonnes but did not exceed 7,500 metric tonnes.
(ii) All sorts of paper commonly known as kraft paper (including paper and paper boards of the type known as kraft liners or corrugating medium) of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre.	Rs. 730 per metric tonne.		
(iii) Others.	Rs. 900 per metric tonne.		
3. (i) Printing and writing paper.	Rs. 900 per metric tonne.	}	Provided that the total quantity of clearances of all varieties of paper and paper boards in the preceding financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or from a factory by or on behalf of one or more manufacturers, exceeded 7,500 metric tonnes but did not exceed 16,500 metric tonnes;
(ii) All sorts of paper commonly known as kraft paper (including paper and paper boards of the type known as kraft liners or corrugating medium) of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre.	Rs. 900 per metric tonne.		
(iii) Others.	Rs. 1120 per metric tonne.		

Provided that the factory does not have a plant attached thereto for making bamboo or wood pulp :

Provided further that the exemption contained in this notification shall not apply to cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer of paper or paper boards who avails of the exemption under the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 89/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 or No. 83/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.

के अधीन उस पर उद्घाटनीय उपरि उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जिनका उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर सगणित रकम से अधिक है।

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)

1 सभी प्रकार के कागज जो सा- मुख्य का सात प्रतिशत धन नौ मास्यता क्राफ्ट कागज के नाम से ज्ञात है (जिसके अंतर्गत क्राफ्ट लाइनर या नालीदार करने के माध्यम के रूप में ज्ञात कागज और कागज बोर्ड हैं) जिसका पदार्थ 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।

2 मुद्रण और लेखन कागज मुख्य का सात प्रतिशत धन छह सौ पैतानीय रुपए प्रति मीटर टन।

3 अन्य मुख्य का सात प्रतिशत धन नौ सौ पञ्चमीय रुपए प्रति मीटर टन।

परन्तु इस अधिसूचना से अंतर्विष्ट छूट मिगरेटी कागज, सेमरीन, कागज, रोमी रोधी कागज, विलेसिप कागज (जिसके अंतर्गत सोमी कागज है) और 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक पदार्थ वाले कागज को लागू नहीं होगी।

सं० 26/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

No. 26/84-CENTRAL EXCISES

सा० का० नि० 108 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 47/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 को अधिकांश करते हुए, इसमें उपाखंड सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले ऐसी लुगदी से विनिर्मित कागज और कागज बोर्ड को, जिनमें (बांस, मुलायम लकड़ी, कठोर लकड़ी, रीढ़ या बिथड़ों से मिल) सामग्री से बनाई गई लुगदी, भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम 1507 GI/83—3

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/83-Central Excises, dated 1st March, 1983, the Central Government hereby exempts paper and paper boards of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufac-

tured out of pulp containing not less than 50 per cent, by weight of pulp made from materials [other than bamboo, hardwoods, softwoods, reeds or rags], from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in column (3) thereof.

TABLE

S.No.	Description	Rate
1	2	3
1	All sorts of paper commonly known as kraft paper (including paper and paper & boards of the type known as kraft liner or corrugating medium) of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre.	Seven per cent. <i>ad valorem</i> plus nine hundred rupees per metric tonne.
2	Printing and writing paper	Seven per cent. <i>ad valorem</i> plus six hundred and forty-five rupees per metric tonne.
3	Others.	Seven per cent. <i>ad valorem</i> plus nine hundred and twenty-five rupees per metric tonne.

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre.

## सं० 27/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 109 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 III (ii) के अंतर्गत आने वाले सैलुलोसी कटे सूत को, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना आठ रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है ;

परन्तु यह तब जब कि ऐसे सैलुलोसी कटे सूत में सैलुलोसी मूल के पॉलिएस्टर और कृत्रिम फाइबर में भिन्न कोई फाइबर नहीं है ।

## No. 27/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulosic spun yarn, falling under Item No. 18 III(ii) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing more than 40 per cent. by weight of polyester fibre, from so much of the duty of excise

leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of eight rupees per kilogram:

Provided that the said cellulosic spun yarn does not contain any fibre other than polyester and man made fibres of cellulosic origin.

## सं० 28/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 110 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 76/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 को अधिशात करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 ड के अंतर्गत आने वाले असेलुलोसी कटे सूत को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना चार रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना में अतिरिक्त छूट उक्त असेलुलोसी कटे सूत को लागू नहीं होगी, यदि उसमें :—

(i) पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, या

(ii) पॉलिएस्टर और कपास से भिन्न फाइबर है ।

## No. 28/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 76/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, the Central Government hereby exempts non-cellulosic spun yarn, falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of four rupees per kilogram :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said non-cellulosic spun yarn, if it contains—

(i) 70 per cent or more by weight of polyester fibre, or

(ii) fibres other than polyester and cotton.

सं० 29/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 111 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 ड के अंतर्गत आने वाले असेलूलोसी कते सूत को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय उत्तम उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना आठ रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना में अतिरिक्त छूट उक्त असेलूलोसी कते सूत को लागू नहीं होगी, यदि उसमें —

- (i) पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उसमें अधिक है, या
- (ii) मैक्रोसी मूल के पॉलिएस्टर, रेमी और कृत्रिम फाइबर से मिले फाइबर हैं।

### No. 29/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts noncellulosic spun yarn, falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate of specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of eight rupees per kilogram :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said non-cellulosic spun yarn, if it contains —

- (i) 70 per cent or more by weight of polyester fibre, or
- (ii) fibres other than polyester, ramie and man-made fibres of cellulosic origin.

सं० 30/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 112 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 ए की उपमद II के अंतर्गत आने वाले रेमी सूत को, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय उत्तम उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना आठ रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु यह सब तब तक कि ऐसे रेमी सूत में रेमी और पॉलिएस्टर से मिले कोई फाइबर नहीं है।

### No. 30/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central

Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts ramie yarn, falling under sub-item II of Item No. 18F of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing more than 40 per cent. by weight of polyester fibre, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, as the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of eight rupees per kilogram :

Provided that such ramie yarn does not contain any fibres other than ramie and polyester.

सं० 31/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 113 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I के अंतर्गत आने वाले सूती फैब्रिको का जिसमें सूत का औसत काउंट 51 से कम है और जिसका मूल्य प्रति तर्ग मीटर मान रूप से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण 1—'काउंट' से धुसर सूत का काउंट अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2—सूती फैब्रिको मसूत के औसत काउंट का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् —

- (क) बाईरो या छोरा में प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा,
- (ख) अनेक तारों वाले सूत के लिए, आधारी एक तार के सूत का काउंट लिया जाएगा, और रीड यथास्थिति, में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या या प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या का सूत में प्लाइवों की संख्या में गुणा किया जाएगा, जहाँ भिन्न-भिन्न काउंटों के एक तार के आधारी सूत हैं वहाँ ऐसे एक तार के आधारी सूत का काउंट, जिसमें अधिकतम काउंट हैं, प्रत्येक आधारी एक तार के सूत के काउंट के रूप में गिना जाएगा,
- (ग) सूती और अन्य सूत से विनिर्मित फैब्रिको की दशा में अन्य सूत को उपरोक्त प्रयोजन के लिए कपास का सूत समझा जाएगा,
- (घ) जहाँ ताने या बाने में या दोनों में भिन्न काउंटों के सूत हैं वहाँ उम सूत के काउंट को, जिसमें अधिकतम काउंट है यथास्थिति, ताने या बाने का काउंट समझा जाएगा,
- (ङ) (गोल छेद वाली मच्छरवानी की जानी में भिन्न) सूत का औसत काउंट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् —  
(ताने का काउंट × रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं०) + (बाने का काउंट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं०)

(रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं० + प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

फल को, जहाँ आवश्यक हो, पांच या उससे अधिक भागों को एक के रूप में मानते हुए और भागों से कम भाग को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा।

(ब) गोल छेद वाली मच्छरदाना की जाली की दशा में, सूत का भीतर काउन्ट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा.  
अर्थात् :—

(ताने का काउन्ट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं०)  
+ (बाने का काउन्ट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं० × 1.4)

(प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं०) + (प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की सं० × 1.4)

फल को, जहाँ आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा।

### No. 31/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics in which the average count of yarn is less than 51s, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and whose value per square metre does not exceed five rupees, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

Explanation I.—“Count” means the count of grey yarn.

Explanation II.—For the purpose of determining the average count of yarn in the cotton fabrics, the following rules shall apply, namely :—

- (a) yarns used in the borders or selvages shall be ignored;
- (b) for multiple-fold yarn, the count of the basic single yarn shall be taken and the number of ends per 25.4 mm. in the reed or the number of picks per 25.4 mm, as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn; where there are basic single yarns of different counts, the count of the basic single yarn which has the highest count shall be taken to be the count of each basic single yarn;
- (c) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarn, the other yarn shall, for the aforesaid purposes, be deemed to be cotton yarn;
- (d) where there are yarns of different counts in warp or weft or both, the count of the yarn which has the highest count shall be taken to be the count of warp or weft, as the case may be;
- (e) the average count of such yarn (other than in the case of round mesh mosquito net-

ting) shall be obtained by applying the following formula, namely :—

(Count of warp × No. of ends per 25.4 mm. in the reed) + (Count of weft × No. of picks per 25.4 mm.)

(No. of ends per 25.4 mm. in the reed + No. of picks per 25.4 mm.).

The result being rounded off, wherever necessary, by treating any fraction which is one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one half; and

- (f) in the case of round mesh mosquito netting, the average count of yarn shall be obtained by applying the following formula, namely :—

(Count of warp × No. of ends per 25.4 mm.) + (Count of weft × No. of picks per 25.4 mm. × 1.4).

(No. of ends per 25.4 mm.) + (No. of picks per 25.4 mm. × 1.4).

The result being rounded off, wherever necessary, by treating any fraction which is one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one half.

### सं० 32/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० कां० नि० 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक को, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के एक प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है :—

परन्तु—

- (i) किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी संसायदा की या हथकरघा के विकास के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन के स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा शक्ति की सहायता से प्रसंस्कृत हथकरघा फैब्रिक की दशा में ऐसे फैब्रिक को, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी ;
- (ii) किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा फैब्रिक और शक्ति करघा फैब्रिक की दशा में ऐसे फैब्रिक को, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी ;
- (iii) (क) ऐसे सूती फैब्रिक, जिनमें असेलुलोसी मूल का फाइबर या सूत या दोनों का भार एक बटा छह से अधिक है, की दशा में; और  
(ख) ऐसे कोट के कपड़े, सूट के कपड़े, टस्सर, कार्डरॉय, गब्रडीन, वेड-फोर्ड, साटन, डेनिम, लेपेट, बूटेदार फैब्रिक

गोल छेद वाली मच्छरदानों की जाली, सेस, बुना हुआ फैब्रिक, टेपेस्ट्री, पतिलांग फैब्रिक जिनके अन्तर्गत जैकर्टे परदे का कपड़ा है, गड्ढोपेट गहनों का फैब्रिक, टेरी तौलिय जिनके अन्तर्गत टर्किया तौलिय हैं, टेरी तौलिय के कपड़े जिनके अन्तर्गत टर्किया तौलिय के कपड़े हैं, कम्बल, कैनवर, डक, फिल्टर कपड़े, ट्रेसिंग कपड़े और बुक्रम कपड़े हैं, की दशा में ;

जिनका विनिर्माण शक्ति करवों (कनाई या प्रसंस्करण संयंत्रों सहित) किया गया है, ऐसे फैब्रिक को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी;

- (iv) ऐसे फैब्रिक को, जो सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर परिभाषित "नियंत्रित धाँसी", "नियंत्रित साड़ी", "नियंत्रित लट्ठा", "नियंत्रित कमीज" का कपड़ा या "नियंत्रित ड्रिल" के वर्णन के अनुरूप है और जिनके लिए अधिकतम कारखाना द्वार कीमते वस्त्र आयुक्त द्वारा उक्त आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हैं, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट दी जाएगी कि ऐसे फैब्रिक का ऐसे कारखाने द्वारा जिसमें उनका विनिर्माण या प्रसंस्करण किया जाता है, किसी औद्योगिक समुत्थान को प्रदाय नहीं किया जाता है, और यदि ऐसे फैब्रिकों का इस प्रकार प्रदाय किया जाता है तो क्रय करने वाला औद्योगिक समुत्थान यह प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए फैब्रिक का उपयोग अनन्यतः पहनने के प्रयोजनों के लिए न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे सूती फैब्रिक को लागू नहीं होगी जिसमें सूत का काउन्ट 51 या उससे अधिक है या जिसका प्रति वर्ग मीटर मूल्य पाँच रुपये से अधिक है।

स्पष्टीकरण 1— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "काउन्ट" से घुमर सूत का काउन्ट अभिप्रेत है ;
- (ख) "हथकरघा फैब्रिक" से ऐसी सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं, जो कपास के सूत से (जो हाथ से कटे कपास के सूत से भिन्न है) तैयार किए गए हैं और शारीरिक श्रम से चलने वाले करवों पर बुने गए हैं ;
- (ग) "स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शक्ति की सहायता से वस्त्र के प्रसंस्करण में अवस्था रूप से लगा हुआ है और जिसका सूत की कपाई या सूती फैब्रिक की बुनवाई में लगे हुए किसी कारखाने में कोई एकाग्रत हित नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—सूती फैब्रिक में सूत के औसत काउन्ट का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :—

- (क) बाँडरों या छोरों में प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा ;
- (ख) अनेक तारों वाले सूत के लिए, आधार एक तार के सूत का काउन्ट लिया जाएगा, और रोड यथास्थिति, में प्रति 25.4 मिलीमीटर में मिरों की संख्या या प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या को सूत में प्लाइयों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा; जहाँ भिन्न-भिन्न काउन्टों के एक तार के आधार सूत हैं वहाँ ऐसे एक तार के आधार सूत का काउन्ट, जिसमें अधिकतम काउन्ट हैं, प्रत्येक आधार एक तार के सूत के काउन्ट रूप में गिना जाएगा ;
- (ग) कपास और अन्य सूत से विनिर्मित फैब्रिक की दशा में अन्य सूत को उपरोक्त प्रयोजनों के लिए कपास का सूत समझा जाएगा ;

(घ) जहाँ ताने या बाने में या दोनों में भिन्न काउन्टों के सूत हैं वहाँ उम सूत के काउन्ट को, जिसमें अधिकतम काउन्ट है, यथास्थिति, ताने या बाने का काउन्ट समझा जाएगा ;

(ङ) ऐसे सूत का (गोल छेद वाली मच्छरदानों की जाली की दशा में से भिन्न) औसत काउन्ट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् :—

(ताने का काउन्ट × रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में मिरों की सं०) + (बाने का काउन्ट प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में मिरों की सं० + (प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

प्राप्त फल के, जहाँ आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा ; और

(च) गोल छेद वाली मच्छरदानों की जाली की दशा में सूत का औसत काउन्ट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् :—

(ताने का काउन्ट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में मिरों का सं०) + (बाने का काउन्ट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों का सं० × 1.4)

(प्रति 25.4 मिलीमीटर में मिरों का सं०) + (प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों का सं० × 1.4)

प्राप्त फल के, जहाँ आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा।

## No. 32/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 114(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of one per cent ad valorem :

Provided that—

(i) in the case of handloom fabrics processed with the aid of power by a factory owned by a registered handloom cooperative society or any organisation set up or approved by the Government for the purpose of development of handlooms, such fabrics shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act;

(ii) in the case of handloom fabrics and powerloom fabrics processed by an independent processor, such fabrics shall be exempted from the whole

of the duty of excise leviable thereon under the said Act;

(iii) in the case of—

- (a) cotton fabrics containing more than one-sixth by weight of fibre or yarn or both of non-cellulosic origin; and
- (b) coating, suiting, tussors, corduroy, gaberdine, bedford, satin, denim, lappet, butta fabrics, round mesh mosquito netting lace, knitted fabrics, tapestry, furnishing fabric including jacquard curtain cloth, gadlapei mattress fabric, terry towel including turkish towel, terry towelling cloth, including turkish towelling cloth, blanket, canvas, duck, filter cloth, tracing cloth and bukrem cloth;

manufactured on powerlooms (without spinning or processing plants), such fabrics shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act;

(iv) fabrics which answer to the description of "Controlled Dhoti", "Controlled Saree", "Controlled long cloth" "Controlled Shirting" or "Controlled Drill" as defined from time to time by the Textile Commissioner under the Cotton Textile (Control) Order, 1948 and for which maximum ex-factory prices have been specified by the Textile Commissioner under the said Order, shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act, subject to the condition that such fabrics are not supplied by the factory in which they are manufactured or processed to an industrial concern, and if such fabrics are so supplied, the purchasing industrial concern certifies that the fabrics so purchased by it shall be used exclusively for wearable purposes and not for any other purposes.

2. Nothing contained in this notification shall apply to cotton fabrics in which the average count of yarn in 51s or more or whose value per square metre exceeds five rupees.

Explanation I.—For the purposes of this notification,—

- (a) 'Count' means the count of grey yarn ;
- (b) 'handloom fabrics' means cotton fabrics made from cotton yarn (other than hand spun cotton yarn) and woven on looms worked by manual labour ;
- (c) 'independent processor' means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cloth with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of the yarn or weaving of cotton fabrics.

Explanation II.—For the purposes of determining the average count to yarn in the cotton fabrics, the following rules shall apply, namely :—

- (a) yarn used in the borders or selvages shall be ignored;
- (b) for multiple fold yarn, the count of the basic single yarn shall be taken and the number of ends per 25.4 mm. in the reed or the number of picks per 25.4 mm., as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn; where there are basic single yarns of different counts, the count of the basic single yarn which has the highest count shall be taken to be the count of each basic single yarn;
- (c) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarn, the other yarn shall, for the afore-said purposes, be deemed to be cotton yarn;
- (d) where there are yarns of different counts in warp or weft or both, the count of the yarn which has the highest count shall be taken to be the count of warp or weft, as the case may be;
- (e) the average count of such yarn (other than in the case of round mesh-mosquito netting) shall be obtained by applying the following formula, namely :—

$$\frac{(\text{Count of warp} \times \text{No. of ends per 25.4 mm. in the reed}) + (\text{Count of weft} \times \text{No. of picks per 25.4 mm.})}{(\text{No. of ends per 25.4 mm. in the reed} + \text{No. of picks per 25.4 mm.})}$$

the result being rounded off, wherever necessary, by treating any fraction which is one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one half; and

- (f) in the case of round mesh-mosquito netting, the average count of yarn shall be obtained by applying the following formula, namely :—

$$\frac{(\text{Count of warp} \times \text{No. of ends per 25.4 mm.}) + (\text{Count of weft} \times \text{No. of picks per 25.4 mm.} \times 1.4)}{(\text{No. of ends per 25.4 mm.}) + (\text{No. of picks per 25.4 mm.} \times 1.4)}$$

the result being rounded off, wherever necessary, by treating any fraction which is one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one half.

अधिसूचना

सं० 33/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I के

अंतर्गत आने वाले सूती फैब्रिक को, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है :

परन्तु इन अधिसूचना में अंतर्निष्ठ छूट उक्त सूती फैब्रिक को लागू नहीं होगी, यदि उसमें—

- (i) पॉलिएस्टर फिलामेंट सूत है, या
- (ii) कपास और पॉलिएस्टर से मिश्र फाइबर है।

### No. 33/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and containing more than 40 per cent, by weight of polyester fibre, from whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said cotton fabrics, if it contains:—

- (i) polyester filament yarn, or
- (ii) fibres other than cotton and polyester.

### सं० 34/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०नि० 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 54/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) का पहली अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I के अंतर्गत आने वाले सूती फैब्रिक को, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक है, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधिन उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्निष्ठ छूट उक्त सूती फैब्रिक को लागू नहीं होगी, यदि उसमें—

- (i) पॉलिएस्टर फिलामेंट सूत है, या
- (ii) कपास और पॉलिएस्टर से मिश्र फाइबर है।

### No. 34/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Ex-

cise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing more than 40 per cent by weight of polyester fibre, from so much of the duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of two per cent ad valorem:

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said cotton fabrics, if it contains—

- (i) polyester filament yarn, or
- (ii) fibres other than cotton and polyester.

### सं० 35/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०नि० 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) (ख) के अंतर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम है, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधिन उस पर उद्घाटनीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्निष्ठ छूट उक्त कृत्रिम फैब्रिक को लागू नहीं होगी, यदि उसमें—

- (i) पॉलिएस्टर फिलामेंट सूत है, या
- (ii) कपास और पॉलिएस्टर से मिश्र फाइबर है।

[सां०सं० 334/1/83-डीआरयू]

नीतम रे, अवर सचिव

### No. 35/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section

3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts man made fabrics, falling under sub-item (1)(b) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing less than 70 per cent by weight of polyester fibre, from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of two per cent ad valorem :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said man-made fabrics, if it contains---

(i) polyester filament yarn, or

(ii) fibres other than cotton and polyester.

[F. No. 334/1/83-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

सं० 36/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 118 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपायद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के ओर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद्य सं० 23-क की ऐसी उप मदों के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अंतर्गत आने वाले मान को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्घाटनीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से, जिनका उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम में अधिक है, उसके स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहने हुए, छूट देती है।

#### सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	वर्णन	दर	शर्त
1	2	3	1	5
1.	(1)	चिपिट कांच, अनआभित और अनस्तरित	मूल्य का दस प्रतिशत घन दो रुपए तीस पैसे प्रति मिली-मीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर।	--
2.	(1)	चिपिट कांच, आभित किन्तु अनस्तरित	मूल्य का दस प्रतिशत घन दो रुपए पचपन पैसे प्रति मिलीमीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर।	--
3.	(1)	चिपिट कांच, अनआभित किन्तु स्तरित	मूल्य का दस प्रतिशत घन तीन रुपए बासीस पैसे प्रति मिली-मीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर।	--
4.	(1)	चिपिट कांच, आभित और स्तरित	मूल्य का दस प्रतिशत घन तीन रुपए अस्सी पैसे प्रति मिलीमीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर।	--
5.	(2)	प्रयोगशाला का कांच का सामान	कुछ नहीं	--
6.	(3)	काच के शीत जो विद्युत प्रकाश बल्ब और फ्लोरोसेंट प्रकाश द्युब के विनिर्माण में प्रयोग के लिए डिजाईन किए गए	कुछ नहीं	--
7.	(3)	सैम्पो और लालटेनो के लिए कांच के शीत और काच के ग्लास	मूल्य का दस प्रतिशत	--
8.	(3)	सैम्पो और लालटेनो के लिए चिमनी	मूल्य का पांच प्रतिशत	--
9.	(4)	काच की चूड़ियाँ और काच के मनके	कुछ नहीं	--
10.	(4)	अपरिष्कृत कांच की अंत संरचनाएं	कुछ नहीं	--

यदि---

(i) ऐसे अपरिष्कृत काच की अंत संरचनाएं उक्त पहली अनुसूची की मद्य सं० 55 की उपमद (2) के अंतर्गत आने वाले निर्वात प्लास्क और अन्य निर्वात पात्रों के लिए कांच की अंत संरचनाओं के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है; और

(ii) उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र ऐसे अपरिष्कृत काच की अंत संरचनाओं के ऐसे प्रयोग की बाधत,



1	2	3	4	5
				केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
11	(4) कांच के राइ और कांच के ट्यूब जो विद्युत प्रकाश बल्ब के विनिर्माण में प्रयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।	कुछ नहीं		यदि— (i) ऐसे कांच के राइ और कांच के ट्यूबों का विद्युत प्रकाश बल्बों के विनिर्माण में किसी ऐसी औद्योगिक एकक द्वारा प्रयोग किया जाता है जहाँ ऐसी एकक में संस्थापित संयंत्र और मशीनरी पर विनिर्दिष्ट पूंजी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिवार्य पंक्ति के किसी अधिकारी की राय में, तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है; और (ii) उत्पादन के कारखाने में अन्यत्र ऐसे कांच के राइ और कांच के ट्यूबों के ऐसे प्रयोग की बाबत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
12.	(4) कांच का सामान जिसके अंतर्गत ऐसे बर्तन हैं जिनका उत्पादन अर्द्धस्वचालित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, अर्थात् जहाँ पिछला हुआ कांच पहले सांचे में हाथ से से साया जाता है और जहाँ संपिंडित वायु या यंत्र-चालित प्रेस का प्रयोग किया जाता है।	मूल्य का पञ्चीस प्रतिशत		—
13.	(4) बर्तन और सजावट का सामान जिसका केवल फूँकने की प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है।	मूल्य का पञ्चीस प्रतिशत		—
14.	(4) उपरोक्त क्रम सं० 13 में निर्दिष्ट से भिन्न (ऐसा कांच का सामान जिसका फूँकने की प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है और ऐसा कांच का सामान जिसका उत्पादन हस्तचालित प्रेस द्वारा ऐसे विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है जिनके पास टंकी भट्ठी है।	मूल्य का बीस प्रतिशत		—
15.	(4) ऐसा कांच का सामान जिसका उत्पादन हस्तचालित प्रेस द्वारा ऐसे विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। जिनके पास घरभट्ठी है और जो ऐसे कांच के सामान के विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में या उसके संबंध में विद्युत् का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।	मूल्य का प्रत्यक्ष प्रतिशत		—
16.	(4) इजेक्शन योग्य वस्तुओं के लिए कांच के ऐम्प्यूल और कांच के कूपिक	कुछ नहीं		यदि, यथास्थिति, ऐसे कांच के ऐम्प्यूल या कांच के कूपिक उक्त मंत्र के अंतर्गत आने वाले किसी प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं और जिन पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन अतिरिक्त शुल्क की समुचित रकम का भंडार कर दिया गया है।

New Delhi, the 18th March, 1984

## No. 36/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the corresponding

entry in column (2) of the said Table, of Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof.

TABLE

Sl. No.	Sub-item No.	Description	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1)	Flat glass, not tinted and not laminated.	Ten per cent. ad valorem plus two rupees and thirty paise per millimetre thickness per square metre.	..
2.	(1)	Flat glass, tinted but not laminated.	Ten per cent. ad valorem plus two rupees and fifty paise per millimetre thickness per square metre.	..
3.	(1)	Flat glass, not tinted but laminated.	Ten per cent. ad valorem plus three rupees and forty paise per millimetre thickness per square metre.	..
4.	(1)	Flat glass, tinted and laminated.	Ten per cent. ad valorem plus three rupees and eighty paise per millimetre thickness per square metre.	..
5.	(2)	Laboratory glassware.	Nil	..
6.	(3)	Glass shells, designed for use in the manufacture of electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes.	Nil	..
7.	(3)	Glass shells and glass globes for lamps and lanterns.	Ten per cent. ad valorem.	..
8.	(3)	Glass Chimneys for lamps and lanterns.	Five per cent. ad valorem.	..
9.	(4)	Glass bangles and glass beads.	Nil	..
10.	(4)	Unfinished glass inners.	Nil	..
If—				
(i) such unfinished glass inners are intended to be used in the manufacture of glass inners for vacuum flask and other vacuum vessels falling under sub-item (2) of Item No. 55 of the said First Schedule; and				
(ii) in respect of such use elsewhere than the factory of production of such unfinished glass inners, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.				
If—				
(i) such glass rods and glass tubes are used in the manufacture of electric lighting bulbs by any industrial unit where the capital invested on the plant and machinery installed in such unit does not, in the opinion of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise, exceed three lakhs of rupees; and				
(ii) in respect of such use elsewhere than in the factory of production of such				
11.	(4)	Glass rods and glass tubes designed for use in the manufacture of electric lighting bulbs.	Nil	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				glass rods and glass tubes, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
12.	(4)	Glass ware including tableware produced by semi-automatic process, that is to say, where molten glass is taken to the first mould manually and where either compressed air or mechanically operated press is used.	Twenty five per cent. ad valorem.	..
13.	(4)	Tableware and articles for decoration, as are produced by the mouth blown process only.	Twenty five per cent. ad valorem.	..
14.	(4)	Glassware [other than that referred to in S. No. 13 above] which is produced by the mouth blown process and glassware produced by manually operated press by manufacturers having tank furnaces.	Twenty per cent. ad valorem.	..
15.	(4)	Glassware produced by manually operated press by manufactures having pot furnaces and not using power in or in relation to any process of the manufacture of such glassware.	Fifteen per cent. ad valorem.	..
16.	(4)	Glass ampoules and glass vials, for Nil injectibles.		If such glass ampoules or glass vials, as the case may be, are made from glass in any form falling under the said Item and on which the appropriate amount of duty of excise under section 3 of the said Act or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has been paid.

## सं० 37/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 119(अ):— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 23 ख की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले बर्तनों को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

## No. 37/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tableware, falling under sub-item (1) of Item No. 23B of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of fifteen per cent. ad valorem.

## सं० 38/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 120(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 208/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तंभ (2) में, “(3) (i)” कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर “(3) (i), (3) (ii)” कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

## No. 38/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 208/83-Central Excises, dated the 1st August, 1983, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (2) against serial No. 1, for the brackets, figure and letter “(3)(i)”, the brackets, figures and letters “(3)(i), (3)(ii)” shall be substituted.

सं० 39/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 121 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 209/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 5 से सामने स्तंभ (3) में, "स्पंज लोहा या इस्पात" शब्दों के स्थान पर "लोह या इस्पात चूर्ण; स्पंज लोहा या इस्पात" शब्द रखे जाएंगे।

#### No. 39/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 209/83-Central Excises, dated the 1st August, 1983, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in column (3) against serial No. 5, for the words "Sponge iron or steel", the words "iron or steel powders; sponge iron or steel" shall be substituted.

सं० 40/84- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 122 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 276/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "तांबा" शब्द के स्थान पर "तांबा (तार की छड़ों से भिन्न)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

#### No. 40/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Ex-

सं० 42/84 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 124(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची मद सं० 29 क की ऐसी उपमदों के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अंतर्गत आने वाले मात्र को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

#### सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	वर्णन	दर
1	2	3	4
1. (i) प्रशीतक			
	(i) थरेलू प्रशीतक जिनकी क्षमता 165 लीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत।	
	(ii) अन्य प्रशीतक	मूल्य का पचास प्रतिशत।	
2. (1) डीप फीजर		मूल्य का पचास प्रतिशत।	
3. (3) सभी प्रकार के प्रशीतन और बातामुकुलन साधितों और मशीनरी के पुर्जे।		मूल्य का अस्सी प्रतिशत।	

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रस्तुत रहेगी।

cise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 276/82-Central Excises, dated the 16th November, 1982, namely :—

In the said notification, for the word "copper", the words and brackets

"copper (other than wire rods)" shall be substituted.

सं० 41/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 123(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची का मद सं० 26क की उपमद (1क) के अन्तर्गत आने वाली तार की छड़ों को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना चार हजार तीन सौ रुपये प्रति मीटरी टन की दर से संगणित रकम से अधिक है।

#### No. 41/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts wire rods, falling under sub-item (1a) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of four thousand and three hundred rupees per metric tonne.

## No. 42/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-item specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

Serial No.	Sub-item No.	Description	Rate
1	2	3	4
1.	(1)	Refrigerators—	
	(i)	Domestic refrigerators of a capacity not exceeding 165 litres.	Twenty five per cent. <i>ad valorem</i>
		Other refrigerators.	Fifty per cent. <i>ad valorem</i>
2.	(1)	Deep freezers.	Fifty per cent. <i>ad valorem</i>
3.	(3)	Parts of refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts.	Eighth per cent. <i>ad valorem</i>

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 28th day of February, 1985.

सं० 43/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० आ० नि० 125 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 88/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 28क की उपमद (2) के अंतर्गत आने वाले वाष्पनिक प्रकार के कूलरों को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उनमें उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जिनका मुख्य के लोस प्रविष्टत की दर पर संगणित रकम में अधिक है।

## No. 43/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 88/71-Central Excises dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts evaporative type of coolers, falling under sub-item

(2) of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty per cent. *ad valorem*.

सं० 44/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० आ० नि० 126 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 66/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाध्याय मारणी में, क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रावधानों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"6. डी०सी०माईक्रो मोटर, स्टेटर, रोटर और ड्राई-कास्ट रोटर।	यदि ऐसी माईक्रो मोटरें, स्टेटर, रोटर और ड्राई-कास्ट रोटर उत्पादन के कारखाने के भीतर—	
	(i) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले टेप डेक यांत्रिकत्व; या	
	(ii) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 37क के अंतर्गत आने वाले टेप रिकार्डर (जिसके अंतर्गत कैसेट रिकार्डर और टेप डेक हैं) और टेप प्लेयर (जिसके अंतर्गत कैसेट प्लेयर हैं,	
	के विनिर्माण में संघटक भागों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क, चाहे पूर्णतः या भागतः, उद्ग्रहणीय है।"	

## No. 44/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 126(E).—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 66/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the table annexed to the said notification, after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3
"6. D.C. micro motors, stators, rotors and die cast rotors.	If such micro motors, stators, rotors and die-cast rotors are used within the factory of production as component parts in the manufacture of—	

1	2	3
		(i) tape deck mechanism falling under Item No. 68 of the said First Schedule; or
		(ii) tape recorders (including cassette recorders and tape decks) and tape players (including cassette players), falling under Item No. 37AA of the said First Schedule, on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part."

सं० 45/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 127 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 31 की उपमद (2) के अंतर्गत आने वाली विद्युत स्टोरेज बैटरियों को, उक्त पहली अनुसूची

में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्घाटनीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

### No. 45/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric storage batteries, falling under sub-item (2) of Item No. 31 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of fifteen per cent. ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 28th day of February, 1985.

सं० 46/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 128 (अ):—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपावृद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के अधीर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 33 की ऐसी उपमदों के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अंतर्गत आने वाले माल को उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्घाटनीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

### सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1)	बिजली के पंखे जिसका व्यास (ब्लेड स्वीप) 40.6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है और उनके रेगुलेटर—	मूल्य का पांच प्रतिशत।
		(क) टेबल पंखे	
		(ख) केबिन कीरिज पेंडेंटल और वायु चालक पंखे और उनके रेगुलेटर	मूल्य का दस प्रतिशत।
2.	(3)	बिजली के पंखे जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है:—	
		(क) छत के पंखे जिसका व्यास (ब्लेड स्वीप) 107 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का आठ सान प्रतिशत।
		(ख) अन्य	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।
3.	(3)	बिजली के पंखे के लिए रेगुलेटर।	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।

### No. 46/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 33

of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S. Sub- No. item No.	Description	Rate	1 2	3	4
			(b) cabin, carriage, pedestal and air circulator fans, and regulators therefore		Ten per cent <i>ad valorem</i>
1	2	3	4	2 (3) Electric fans not otherwise specified —	
1.	(1) Electric fans of a diameter (blade sweep) not exceeding 40.6centimetres and regulators therefor—			(a) Ceiling fans of a diameter (blade sweep) not ex- ceeding 107 centimetres.	Seven and a half per cent. <i>ad valorem</i>
	(a) Table fans.	Five per cent. <i>ad valorem</i>		(b) Others.	Fifteen per cent. <i>ad valorem</i>
				3 (3) Regulators for electric fans.	Fifteen per cent. <i>ad valorem</i>

सं० 47/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 129 (अ) :—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 33ख की उन उप मदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं अस्तर्गन आने वाले बिद्युत तार और केबल को उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्घर्णीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकतम शर्तों के अधीन रहने हुए, यदि कोई हो उसके स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं०	उपमद	वर्णन	दर	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. (1)	तांबे से बने कुंडलन तार	मूल्य का पांच प्रतिशत	यदि ऐसे तार उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 26क की उपमद (1क) के अन्तर्गत आने वाले उन तांबे के तार की छड़ों से बने हैं जिन पर, उक्त अधिनियम के अधीन उद्घर्णीय यथास्थिति उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्घर्णीय अनिश्चित उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम पहले ही संवत कर दी गई है।	
				स्पष्टीकरण :—उपरोक्त शर्त के लिए, देश में तांबे के तार की छड़ों को, ऐसे तार की छड़ों को छोड़कर जो असंदत शुल्क के रूप में स्पष्टतः संशोध हैं, तांबे की ऐसी तार की छड़ें माना जाएगा जिन पर शुल्क पहले ही संवत कर दिया गया है।
2. (1)	तांबे या एलुमीनियम से बने कुंडलन तार	मूल्य का दस प्रतिशत		
3. (2)	एलुमिनियम के नग्न तार	कुछ नहीं		यदि ऐसे तार उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले किसी रूप या आकार की एलुमिनियम पट्टियों के विनिर्माण में उसी कारखाने में उपयोग किए जाते हैं जहाँ ऐसे तार विनिर्मित किए जाते हैं।
4. (2)	2.00 मिलीमीटर या अधिक की मोटाई के तांबे के नग्न तार	कुछ नहीं		यदि सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसे तार उत्पादन कारखाने में 2.00 मिलीमीटर से पतले नग्न तांबे के तार के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
5. (2)	3.25 मिलीमीटर या अधिक की मोटाई के एलुमिनियम के नग्न तार	कुछ नहीं		यदि सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसे तार उत्पादन कारखाने में 3.25 मिलीमीटर से पतले नग्न एलुमिनियम के तार के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं।

## No. 47/84-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric wires and cables of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said

Table, of Item No. 33B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof.

TABLE

Sl. No.	Sub-item No.	Description	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(i)	Winding wires made of copper.	Five per cent. ad valorem.	If such wires are made from wire rods of copper, falling under sub-item (fa) of Item No. 26A of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise leviable under the said Act or the additional duty of excise leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid Explanation :—For the aforesaid condition, all wire rods of copper in the country, except such wire rods as are clearly recognisable as being non-duty paid, shall be deemed to be wire rods of copper on which such duty has already been paid.
2.	(i)	Winding wires made of copper or aluminium.	Ten per cent. ad valorem.	
3.	(ii)	Bare aluminium wire.	Nil	If such wires are used in the manufacture of aluminium strips in any form or size, falling under Item No. 27 of the said First Schedule in the same factory where such wires are manufactured.
4.	(ii)	Bare copper wires of thickness 2.00 mm or more.	Nil	If the Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such wires are used in the factory of production for the manufacture of bare copper wires finer than 2.00 mm.
5.	(ii)	Bare aluminium wires of thickness 3.25 mm or more.	Nil	If the Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such wires are used in the factory of production for the manufacture of bare aluminium wires finer than 3.25 mm.

सं 48/84—सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 130 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 33 के अंतर्गत आने वाले घरेलू विद्युत साधनों को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्ते उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के बीस प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

## No. 48/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts domestic electrical appliances, falling under Item No. 33C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty per cent. ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 28th day of February, 1985.

सं. 49/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.निं. 131 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपायय सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 34 की उपमद I (3) के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों को उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्ते उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, उसके स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्तों को, यदि कोई हों अधीन रहते हुए छूट देती है।



## सारणी

क्रम सं०	मोटरयानों का वर्णन	दर	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मोटरयान जो निम्नलिखित में भिन्न है : (i) सैलून कारें (ii) भारत सरकार के विपणन मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 68/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1983 में उपाखण्ड सारणी के क्रम सं० 15 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन मोटरयान ।	मूल्य का दस प्रतिशत	यदि भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग (उद्योग मंत्रालय) के उप सचिव से अनिम्न पत्रित के किसी अधिकारी द्वारा अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संगम द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे मोटरयानों का सकल यान भार 5625 किलोग्राम से अधिक है ।
2.	बंधित यान में सिद्ध तीन एकसय वाले मोटरयान ।	मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत ।	

गप्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोक्तृओं के लिए,—

(क) "सकल यान भार" से चेसी, कैब, बाडी और पेंडोड का जिसके अंतर्गत पानी, इंधन, तेल, टायर, पिक-अप-बॉक्स और चालक हैं, कुल भार अभिप्रेत है;

(ख) "बंधित यान" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिससे कोई ट्रैक्टर इस प्रकार संलग्न है कि ट्रैक्टर का एक भाग मोटरयान पर अव्यारोपित है और ट्रैक्टर के भार का एक भाग मोटरयान द्वारा वहन किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

## No. 49/84CENTRAL EXCISES

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor vehicles of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item I(3) of Item 34 of the First

Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (4) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Description of motor vehicles	Rate	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Motor vehicles, other than— (i) saloon cars (ii) motor vehicles of description specified in column I(3) against S. No. 15 of the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 68/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.	Ten per cent. ad valorem.	If it is certified by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industry (Ministry of Industry), based upon tests conducted by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra) or the Automotive Research Association of India Pune (Maharashtra) that such motor vehicles are of gross vehicle weight above 5625 kilograms.
2.	Three-axled motor vehicles other than articulated vehicles.	Seven and a half per cent. ad valorem.	

Explanation.—For the purposes of this notification—

(a) "gross vehicle weight" means the total weight of chassis, cab, body and payload including water, fuel, oil, tyres, pickup box and driver;

(b) "articulated vehicle" means a motor vehicle to which a trailer is attached in such a manner that a part of the trailer is superimposed on, and part of the weight of the trailer is borne by, the motor vehicle.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 28th day of February, 1985.

सं० 50/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 132(म) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 68/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतर्स्थापित किया जाए, अर्थात् —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"14	1(3)	सैलून कारों में मिश्र मोटरगायन।	सूख का पन्द्रह प्रतिशत।	—"

## No. 50/84-CENTRAL EXCISES

Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 68/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the

In the said notification, in the Table, after Serial Number 13 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"14.	1(3)	Motor vehicles other than saloon cars.	Fifteen per cent ad valorem.	—"

सं० 51/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 133(घ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपायुक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तन्मध्य अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 37क की तैयी उपमदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अंतर्गत आने वाले माल को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्योगहीन उतने उत्पाद-शुल्क से, जिसका उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, उसके स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिव्यक्त शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहने हुए, छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	माल का वर्णन	दर	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1)	मशीन से चलाए जाने वाले ग्रामोफोन	कुछ नहीं	—
2.	(1)	ग्रामोफोन (जो मशीन से चलाए जाने वाले ग्रामोफोन से भिन्न हैं), रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेइंग डेक या रिकार्ड वेल्जर डेक।	सूख का बीस प्रतिशत	—
3.	(2)	ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेइंग डेक या रिकार्ड वेल्जर डेक के पुर्जे और उपयुक्त।	कुछ नहीं	—
4.	(3)	सभी ग्रामोफोन, रिकार्ड या उनसे भिन्न हैं जो साधारणतया "एल० पी०" या शीर्ष प्लेइंग रिकार्ड और "ई०पी०" या विस्तारित प्लेइंग रिकार्ड के नाम से जाते हैं।	कुछ नहीं	—
5.	(4)	रिकार्डों के लिए मैट्रिक्स, दाबित	कुछ नहीं	यदि—

(क) रिकार्डों के लिए ऐन मैट्रिक्स, दाबित जो ग्रामोफोन रिकार्डों के विनिर्माण में स्वयं उत्पादन के कारखाने में प्रयोग किए जाते हैं, और

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) रिफार्शों के लिए ऐसे मैट्रिक्स, दाबित, जिनका एक कारखाने में उत्पादन किया जाता है और उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में ग्रामोफोन रिफार्शों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
6	(3)(क) पूर्णतया इस्पात की बनी ग्रामोफोन की सुप्टा		कुछ नहीं	---

## No. 51/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 37A

of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof.

TABLE

Sl. No.	Sub-item No.	Description	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(i)	Mechanically driven gramophones.	Nil	—
2.	(i)	Gramophones, (other than mechanically driven gramophones), record players, record playing decks or record changer decks.	Twenty per cent. ad-valorem.	—
3.	(ii)	Parts and accessories of gramophones, record players, record playing decks or record changer decks.	Nil	—
4.	(iii)	All gramophone records, other than those commonly known as "L.P." or long playing records and "E.P." or extended playing records	Nil	—
5.	(iv)	Matrices for records, impressed	Nil	If— (a) such matrices for records, impressed, are used in the factory of production itself in the manufacture of gramophone records; and (b) such matrices for records, impressed, which are produced in one factory and used in any other factory belonging to the same manufacturer in the manufacture of gramophone records, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
6.	(v)	(a) Gramophone needles wholly made of steel.	Nil	

सं० 52/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० सं० नि० 134 (अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 223/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 अगस्त

1983 को अधिग्रहण करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1941 का 1) की पहली अनुसूची की मध्य सं० 59 की उपमध्य (4) के अंतर्गत आने वाले छवि अभिलिखित कासेट टेपों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

## No. 52/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/83-Central Excises, dated the 18th August, 1983, the Central Government hereby exempts sound recorded cassette tapes, falling under sub-item (4) of Item No. 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

सं० 53/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 135 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

## अनुसूची

1. अगरबत्ती और धूप बत्ती,
2. साईकिलों के लिए डायनमो और डायनमो लैम्प।
3. नकली आभूषण।
4. 25 लीटर से अधिक धारिता की बाल्टियाँ।
5. स्टेनलेस इस्पात के वर्तन।
6. हुरिकेन लालटेन।
7. छाते।
8. सैक्रोन।
9. ईंधन-दक्ष लकड़ी जलाने के स्टोव।

स्पष्टीकरण. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, लकड़ी जलाने का स्टोव सभी ईंधन दक्ष समझा जाएगा यदि उसकी ऊष्मीय दक्षता 25 प्रतिशत से अधिक है और केन्द्रीय सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (शक्ति विभाग) में उप सचिव की पत्र से अनिवार्य रूप से किसी अधिकारी द्वारा तदनुसार प्रमाणित किया जाता है।

## No. 53/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in the Schedule hereto annexed and falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of five per cent. ad valorem.

## The Schedule

1. Agarbatius and dhoop sticks.
2. Dynamos, and dynamo lamps, for cycles.
3. Imitation jewellery.

4. Buckets of capacity not exceeding 25 litres
5. Stainless steel utensils.
6. Hurricane lanterns
7. Umbrellas.
8. Saccharin.
9. Fuel efficient wood burning stoves.

Explanation.—For the purpose of this notification, a wood burning stove shall be deemed to fuel efficient if it has a thermal efficiency of over 25% and certified accordingly by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Power).

सं० 54/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 136 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 234/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 46 और उसमें सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

- “47 कगाम की पुनियाँ और पालिस्टर कगाम मिश्रित पुनियाँ।  
48 नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण के मन अधिकारान्वयन संयंत्र में अभिप्राप्त आर्षक।  
49 सिन्डर।”

## No. 54/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 234/82-Central Excises dated the 1st November, 1982, namely :—

In the said notification after S. No. 46, and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

- “47. Cotton slivers and polyester cotton blended slivers.
48. Sludge obtained in the sewage treatment plant belonging to a municipal corporation or local authority.
49. Cinder.”

सं० 55/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 137 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अनिश्चित उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाईल और टैक्सटाईल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक 1984 के खंड 52 के उपखंड (4), जो खंड अंतर्गत कर मसौदा अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 56 कक के उपनियम (1) के अनुसरण में यह निर्देश देती है कि इससे उपावद्ध सारणी क और सारणी ख के नमूने (1) में विनिर्दिष्ट

वर्ष के उत्पाद-शुल्क माल की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट माल" कहा गया है) जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम" कहा गया है) पहली अनुसूची का ऐसी मद संख्या के अधीन आता है, जो उक्त सारणियों के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, और जिसकी किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए 1 मार्च, 1984 से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रोत्साहित अवधि" कहा गया है), आधारिक निकासी से अधिक निकासी की गई है,—

- (क) किसी मामले में जहां विनिर्दिष्ट माल पर शुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन मूल्य के प्रति निर्देश में उद्वेगणीय है और ऐसे विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन प्रसार्य शुल्क की प्रभावों पर मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है यहाँ,—
- (i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की ऐसी निकासी पर मदत सीमाशुल्क के 30 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा; और
- (ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की ऐसी निकासी पर मदत उत्पाद-शुल्क के बराबर रकम का मुजरा,
- (ख) किसी अन्य मामले में,—
- (i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर मदत उत्पाद-शुल्क के 15 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा, और
- (ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर मदत उत्पाद-शुल्क के 20 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा,

उक्त सारणियों के स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नहीं, यदि कोई हो, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जा सकता—

- (i) उक्त सारणियों के स्तम्भ (3) में वर्णित माल की निकासी (जिसके अंतर्गत आधारिक निकासी है), उक्त सारणियों के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सारणियों के प्रत्येक क्रम संख्या की बाबत उक्त सारणियों के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संगणना के लिए शुल्क के अनुसार पृथक् संगणित की जाएगी और प्रत्येक ऐसे क्रम संख्या की बाबत, उक्त क्रम संख्या के सामने उक्त सारणियों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सभी माल की निकासी का कुल योग संगणना में लिया जाएगा।
- (ii) विनिर्दिष्ट माल की निकासियों का (जिनके अंतर्गत आधारिक निकासी है) अवधारण करने में उक्त सभी या किसी अधिनियम के अधीन उद्वेगणीय संयुक्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी और निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी भी संगणना में ली जाएगी।
- (iii) किसी भी विनिर्माण को 1 अप्रैल, 1985 के पूर्व मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (iv) किसी ऐसे कारखाने की बाबत जिसमें विनिर्दिष्ट माल की निकासी—
- (क) 1 अप्रैल 1981 को या उसके पश्चात् पहली बार की गई थी; या

(ख) वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान नहीं की गई थी, मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

- (v) आधारिक निकासी के 160 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर मदत उत्पाद-शुल्क की बाबत मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (vi) आधारिक अवधि या प्रोत्साहित अवधि की बाबत उक्त सारणी क के क्रम संख्या 23, 24, 25 और 26 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल की (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् "उक्त विनिर्दिष्ट माल" कहा गया है) निकासी का अवधारण करने के लिए, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए आधारिक अवधि या प्रोत्साहित अवधि के दौरान बाहर से कारखाने में प्राप्त उक्त विनिर्दिष्ट माल की मात्रा आधारिक अवधि या प्रोत्साहित अवधि के दौरान की गई उक्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी से क्रमशः घटा दी जाएगी।

(vii) उपरोक्त खंड (ii) में किसी बात के होने हुए भी, आधारिक अवधि या प्रोत्साहित अवधि की बाबत उक्त सारणी क के क्रम संख्या 23, 24, 25 और 26 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल का (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् "उक्त विनिर्दिष्ट माल" कहा गया है) अवधारण करने के लिए उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए ऐसी अवधियों के दौरान उत्पादन कारखाने के भीतर की विनिर्दिष्ट माल की निकासी संगणना में नहीं ली जाएगी।

सम्प्लिकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(1) "आधारिक निकासी" से—

(क) ऐसे कारखाने के मामले जो किसी कारण से आधारिक अवधि के दौरान किसी एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए बन्द नहीं रहा था—

(i) उक्त सारणी क के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधारिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने में ऐसे माल की निकासी का 110 प्रतिशत अभिप्रेत है, और

(ii) उक्त सारणी ख के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधारिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने से ऐसे माल की निकासी का 120 प्रतिशत अभिप्रेत है;

(ख) ऐसे कारखाने के मामले में, जो किसी कारण से आधारिक अवधि के दौरान एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए बंद रहा था, उपरोक्त खंड (क) के, यथास्थिति, उपखंड (i) के अधीन या गुणनखंड 365/365-य द्वारा गुणा करके उपखंड (ii) के अधीन अवधारित निकासी अभिप्रेत है जहां यह, यथास्थिति, अवधि या अवधियों में समाविष्ट कुल दिन की राशियाँ ना शून्यक करता है जिसके दौरान कारखाना इस प्रकार बंद रहा था।

(2) "आधारिक अवधि" ऐसी अवधि होगी जिसमें 1 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाली और 29 फरवरी, 1983 को समाप्त होने वाली या 1 मार्च, 1983 को प्रारम्भ होने वाली और 29 फरवरी, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट माल की निकासी का योग उच्चतर है।

(3) "सदस्य उत्पाद-शुल्क" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और वित्त विधेयक 1981 के खंड 52, जो खंड अंतिम पर मद्रास प्रांतियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में वापस घोषणा के आधार पर वित्त का बिल रखा है, के अधीन मदत उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, का कुल योग अभिप्रेत है।

(4) "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्घाटनीय शुल्क की प्रभावी दर" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधिम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित, जो तत्पक्ष प्रवृत्त है (जो उस अधिसूचना से भिन्न है जिसमें ऐसे माल पर ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण या उपयोग किए गए कच्चे माल या संघटक पुर्जों पर पहले से ही मध्यम किसी उत्पाद शुल्क की बाधित मुद्रा देने का उपाय बराबर कटौती करने के लिए किसी छूट के लिए उपबंध है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की पृथ्वी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर अभिप्रेत है।

(5) "मूल्य" से--

(क) उक्त सारणी ख के क्रम सं० 1 से 17 के सामने विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार अधिधारित मूल्य अभिप्रेत है।  
(ख) उक्त सारणी ख के क्रम संख्या 18 से 23 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाधित, यथास्थिति, उपरोक्त खंड (क) के अधीन या भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचना सं० 120/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 के उपबंधों के अनुसार अधिधारित मूल्य अभिप्रेत है।

#### सारणी—क

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पृथ्वी अनुसूची की सूचकांक	माल का वर्णन	समाप्ति के लिए, छूट	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14क	सोडा क्षार	भार	---
2.	14कक (1)	कैल्शियम कार्बाइड, ब्लोबिंग पैस्ट और ब्लोबिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडा वाइकरोनॉट, पोटेशियम या सोडियम का बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन पराक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट।	भार	---
3.	14ख	कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटैश	भार	---
4.	14ग	ग्लिसरीन	भार	---
5.	14घ	सफ़िलेड कार्बनिक उत्पादन	भार	---
6.	14छ	हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल	भार	---
7.	14ज (i)	अतिमीश्रित	आयतन	---
8.	14ज (ii), (iii), (iv) और (vi)	फ्लोरिन अमोनिया, कार्बनिक अम्ल (कार्बन डाई आक्साइड) और एसिटिलीन	भार	---
9.	15(क) (1)	कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री तथा अन्य सामग्री	भार	---
10.	15कक	कार्बनिक सारकेंग-एक्टिव एजेंट (साबुन से भिन्न) सरफैस-एक्टिव निमित्तियाँ और धुलाई निमित्तियाँ	भार	---
11.	16I(1)(क)(i)	दो पहियों वाले मोटरयानों, अर्थात् स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड और आटो साइकिल के लिए टायर।	संख्या	परन्तु यह कि कारखाने से निकासी किए गए टायरों की बाधित विनिर्माता ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 107/81--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 अप्रैल, 1981 द्वारा दी गई छूट का उपभाग नहीं किया है या वह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 263/82--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 नवम्बर, 1982 द्वारा दी गई छूट का उपभाग नहीं करता है।
12.	16I(1)(ख)(i)	इस सारणी के क्रम सं० 11 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटरयानों के लिए टायर	संख्या	--- (रोक) ---
13.	16I(2)(क), 16I(3)(क)(i) और 16I(3)(ख)(i)	ट्रैक्टरों के लिए टायर जिसके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टरों के लिए टायर	संख्या	--- यथावत ---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	17(1)	अविलेपित और विलेपित मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज में भिन्न)	भार	परन्तु यह कि कारखाने से निकासी किया गया अविलेपित और विलेपित मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज में भिन्न) की वास्तविक विनिर्माणा न वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 108/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल 1981 द्वारा दी गई छूट का उपभाग नहीं किया गया है या नहीं करता है परन्तु यह और भी कि ऐसे कागज का उत्पादन मुगदी में किया गया है।
15	17(1)	कागज बोर्ड और अन्य सभी प्रकार का कागज	भार	परन्तु यह कि ऐसे कागज बोर्ड या कागज का उत्पादन मुगदी में किया गया है।
16	मद सं० 18 की उपमद I	स्टेपल फाइबर और सेल्युलोजिक मूल का टो	भार	---
17	---यथोक्त---	स्टेपल फाइबर और सेल्युलोजिक मूल का टो-प्राकृतिक फाइबर	भार	---
18	---यथोक्त---	स्टेपल फाइबर और सेल्युलोजिक मूल का टो-पॉलिएस्टर फाइबर	भार	---
19	---यथोक्त---	क्रम सं० 17 या सं० 18 के अन्तर्गत आने वाला स्टेपल फाइबर और सेल्युलोजिक मूल का टो	भार	---
20	मद सं० 18 की उपमद II	कृत्रिम फिलामेंट सूत जो पूर्णतः सेल्युलोजिक के उत्पादों या सम्पोषित सेल्युलोज या दोनों से मिलकर बना है	भार	---
21.	---यथोक्त---	नार्डान फिलामेंट सूत, टैक्सचरीकृत से भिन्न	भार	---
22.	---यथोक्त---	पॉलिएस्टर फिलामेंट सूत, टैक्सचरीकृत से भिन्न	भार	---
23	25	हस्तात की गिनतिया, डनाक, लम्पन और छरपात के घेमे ही रूप, और हस्तात के अपशिष्ट और स्कैप	भार	---
24	26क	तांबा	भार	परन्तु यह कि ऐसे तांबे का एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
25	25	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आने वाले माल जो निम्नलिखित में भिन्न हैं --- (i) इस सारणी के क्रम सं० 23 और 27 के सामने विनिर्दिष्ट मान, और (ii) उक्त मद सं० 25 की उपमद (2) और (5) के अन्तर्गत आने वाले माल।	भार	परन्तु यह कि ऐसे माल का किसी एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में या किसी कारखाने में विद्युत् भट्टी की सहायता से विनिर्माण किया जाता है।
26		जस्ता	भार	परन्तु यह कि ऐसे जस्ते का एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
27.	25	टिनेप्लेट और टिन की चादर	भार	---
28.	30क	मोटर स्टार्टर	संख्या	---
29	31(1)	विद्युत् बैटरिया (शुष्क किस्म की-धातु आवरण से ढकी हुई बैटरियों में भिन्न)	संख्या	---
30	31(1)	विद्युत् बैटरिया (शुष्क किस्म की-आवरण से ढकी हुई बैटरिया)	संख्या	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	31(2)	विद्युत् वैद्युता (स्टोरेज फ़िल्म की)	संख्या	---
32.	32(1)	छोटे भौमों और दृश्य भूचक बल्बों से, जिनका उपयोग टेलीफोन और तार के स्विच बोर्डों और मलबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मिश्र निर्माण और गैर गैर विद्युत् बल्ब	संख्या	---
33.	32(1)	छोटे विद्युत् बल्ब और दृश्य भूचक बल्ब जिनका उपयोग टेलीफोन और तार स्विच बोर्डों और मलबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है।	संख्या	---
34.	32(2)	फ्लोरोसेन्ट प्रकाश ट्यूब	संख्या	---
35.	32(3)	सोडियम और पारावाष्प डिमर्शन लैम्प	संख्या	---
36.	34 I (1)	दो पहियों वाले मोटरयान जिनका इंजन क्षमता 100 घन सेन्टीमीटर से अधिक नहीं है।	संख्या	---
37.	34 I (1)	क्रम सं० 36 के अन्तर्गत आने वाले दो पहियों वाले मोटर यान।	संख्या	---
38.	34 I (1)	तीन पहियों वाले मोटर यान	संख्या	---
39.	34 I (2)	सैन्य कारों से निम्न मोटर यान	संख्या	---
40.	34 I (3)	सैन्य कारों से निम्न मोटर यान	संख्या	---
41.	34 II	ट्रैक्टर जिनके अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर हैं	संख्या	---
42.	34थ	संकर्मद्रक	संख्या	---
43.	63	तार के रस्से	भार	---
44.	64	कार्बन काजल	भार	---
45.	65	रज्जु प्रसंस्करण स्थापना	भार	---
46.	68	कृषि मिश्रक	संख्या	---
47.	68	मैडम, उत्प्रेक्षित्र, दृष्टिदात्र और मिट्टी छटाने वाले अन्य उपस्कर	संख्या	---
48.	68	लोकोमोटिव	संख्या	---
49.	68	रेल डिब्बे	संख्या	---

## गारणी-सूच

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद सं०	साल का वर्णन	संगणना के लिए इकाई	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14	वर्णक, रंग, पेंट, इमेम, वार्निश, कानिख और सेलुलोज लेकर	मूल्य	
2.	मद सं० 16 की उपमद III और IV	टायर (दुयों और फ्लैपो से भिन्न)	मूल्य	परन्तु, यह कि कारखाने से निकाली किए गए टायरों की वाहन विनिर्माता ने जित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 107/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1981 द्वारा दी गई छूट का उपयोग नहीं किया है या वह किन् मन्त्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 268/82—केन्द्रीय



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				उत्पाद-शुल्क, सारीख 13 नवम्बर, 1982 द्वारा दी गई छूट का उपभोग नहीं करना है।
3	16	दूध	मूल्य	—
4	16	फल	मूल्य	—
5	16क(4)	पारेषण पट्टे, प्रवर्ण पट्टे या एंलाबेटर पट्टे या बल्बनीकृत रबड़ का पट्टा लागता	मूल्य	—
6	16कक	संश्लिष्ट रबर जिसके अंतर्गत संश्लिष्ट रबड़ सेटेक्स और पूर्व-बल्बनीकृत संश्लिष्ट रबर सेटेक्स है।	मूल्य	—
7	29	अंतर्वहन इञ्जन	मूल्य	—
8	मद 30 की उपमद क, ख और ग	विद्युत् मोटर	मूल्य	—
9	30क	शक्ति से चलने वाले पम्प	मूल्य	—
10	30ख	बिजली के तार और केबल	मूल्य	—
11	45	बजत [अवधारित करने की मशीनरी और उपकरण	मूल्य	—
12	49	रॉलिंग बेयरिंग	मूल्य	—
13	50	सभी प्रकार के वैनिशग एलेक्ट्रोड	मूल्य	—
14	51	विलेपित अपघर्षक और घर्षणचक्र	मूल्य	—
15	51क	ओजार	मूल्य	—
16	62	ओजारों के अग्रभाग	मूल्य	—
17	67	ग्रेफाइट एलेक्ट्रोड और एनोड	मूल्य	—
18	68	मशीन औजार	मूल्य	—
19	68	वायु और गैस संपीडक	मूल्य	—
20	68	बायलर	मूल्य	—
21	68	फ्रैन	मूल्य	—
22	68	औद्योगिक चूल्हे और भट्टियाँ	मूल्य	—
23	68	उत्प्रेक्षापत्र ईट	मूल्य	—

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्दिष्ट मान को लागू नहीं होगी जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्दिष्ट विनिर्मित किया जाता है और भारत में किसी म्यान पर लाया जाता है।

#### No. 55/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 137(E) —In pursuance of sub-rule (1) of rule 56AA of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-clause (4) of clause 52 of the Finance Bill, 1984 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that in respect of excisable goods of the description specified in column (3) of Table A and Table B hereto annexed [hereinafter referred to as the specified goods] and falling under such item number of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the Central Excises Act], as is specified in the corres-

ponding entry in column (2) of the said Tables and cleared from a factory for home consumption during the period commencing on and from the 1st day of March, 1984 and ending with the 28th day of February, 1985 [hereinafter referred to as the incentive period], in excess of the base clearances,—

(A) in a case where duty of excise on specified goods is chargeable under the Central Excises Act with reference to value and the effective rate of duty leviable under the Central Excises Act on such specified goods is not more than 20 per cent. ad valorem,—

(i) a credit of an amount equal to 30 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding the base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and

- (ii) a credit of an amount equal to 40 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances;

(B) in any other case,—

- (i) a credit of an amount to 15 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and
- (ii) a credit of an amount equal to 20 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances.

may be granted subject to the conditions, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the said Tables and the conditions specified below :—

- (i) The clearances (including the base clearances) of the specified goods mentioned in column (3) of the said Tables shall be computed separately in respect of each serial number of the Tables specified in the corresponding entry in column (1) of the said Tables in terms of the unit for calculation specified in the corresponding entry in column (4) of the said Tables and in respect of each such serial number, the aggregate of the clearances of all the goods specified in column (3) of the said Tables against the said serial number shall be taken into account.
- (ii) In determining the clearances (including the base clearances) of the specified goods, the clearances of the specified goods exempted from the whole of the duties of excise leviable thereon under any or all of the said Acts and the clearances of the specified goods for export shall also be taken into account.
- (iii) No credit shall be allowed to any manufacturer before the 1st day of April, 1985.
- (iv) No credit shall be allowed in respect of a factory from which clearances of the specified goods—
  - (a) were effected for the first time on or after the 1st day of April, 1981; or
  - (b) were not effected during the financial years 1981-82, 1982-83 and 1983-84;
- (v) No credit shall be allowed in respect of the duties of excise paid on the clearances of the specified goods in excess of 160 per cent of the base clearances.

- (vi) For determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 23, 24, 25 and 26 of the said Table A (hereafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the quantity of the said specified goods received in the factory from outside during the base period or the incentive period for the manufacture of the said specified goods shall respectively be deducted from the clearances of the said specified goods effected during the base period or the incentive period

- (vii) Notwithstanding anything contained in clause (ii) above, for determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 23, 24, 25 and 26 of the said Table A (hereafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the clearances of the said specified goods effected within the factory of production during such periods for use in the manufacture of the said specified goods shall not be taken into account.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (1) “base clearances” —

- (a) in the case of a factory which had not remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason—

- (i) in respect of goods specified in column (3) of the said Table A means 110 per cent of the clearances of such goods from such factory during the base period; and

- (ii) in respect of goods specified in column (3) of the said Table B, means 120 per cent of the clearances of such goods from such factory during the base period;

- (b) in the case of a factory which had remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason, means the clearances as determined under sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii) of clause (a) above multiplied by the factor  $\frac{365}{365-X}$ , where X denotes the

365-X

total number of days comprised in the period or, as the case may be, periods

during which the factory was so closed.  
ed.

(2) "base period" shall be the year in which the aggregate of the clearances of specified goods during the period, commencing on and from the 1st day of March, 1982 and ending with the 28th day of February, 1983, or the period commencing on and from the 1st day of March, 1983 and ending with the 29th day of February, 1984, whichever was higher :

(3) "duties of excise paid" means the sum total of the duties of excise, if any, paid under the Central Excises Act, the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and clause 52 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law.

(4) "effective rate of duty leviable under the Central Excises Act" means the rate of duty specified in the First Schedule to the Central Excises Act, read with any notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for

the time being in force (other than a notification providing for any exemption for giving credit with respect to, or reduction of duty of excise on such goods equal to, any duty of excise already paid on the raw material or component parts used in the production or manufacture of such goods).

(5) "value",—

(a) in relation to the goods specified against serial numbers 1 to 17 of the said Table B, means value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act;

(b) in respect of the goods specified against serial numbers 18 to 23 of the said Table B, means value as determined under clause (a) above or, as the case may be, in accordance with the provisions of the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No. 120/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.

TABLE A

Sl. Item No. of the No. First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 14A	Soda Ash	Weight	--
2. 14AA(i)	Calcium carbide, bleaching paste and bleaching powder, sodium hydrosulphite, bicarbonate of soda, bichromates of potassium or sodium hydrogen peroxide and potassium permanganate.	Weight	—
3. 14B	Caustic soda and caustic potash	Weight	—
4. 14C	Glycerine	Weight	—
5. 14DD	Synthetic Organic products	Weight	—
6. 14G	Hydrochloric and Sulphuric Acids	Weights	—
7. 14H(i)	Oxygen	Volume	—
8. 14H(ii), (iii) (iv) and (vi)	Chlorine, Ammonia, Carbonic Acid (carbon dioxide) and Acetylene.	Weight	—
9. 15A(1)	Artificial or synthetic resins and plastic materials and other materials.	Weight	—
10. 15AA	Organic surface active agents (other than soap); surface-active preparations and washing preparations.	Weight	—
11. 16I(1)(a)(i)	Tyres for 2-wheeled motor vehicles namely, scooter, motor-cycles mopeds and auto-cycles.	Number	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 107/81-Central Excises, dated the 24th April 1981, or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) noti-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				fication No. 268/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982.
12. 16I(1)(b)(i)	Tyres from motor vehicles other than those specified against S. No. 11 of this Table.	Number		-do-
13. 16I(2)(a), 16I(3)(a)(i) and 16I(3)(b)(i)	Tyres for tractors including agricultural tractors and tyres for trailers.	Number		-do-
14. 17(1)	Uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper).	Weight		Provided that in respect of uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper) cleared from the factory, the manufacturer has not availed of and does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 108/81-Central Excises, dated the 24th April 1981; Provided also that such paper has been produced out of pulp.
15. 17(1)	Paper board and all other kinds of paper.	Weight		Provided that such paper board or paper has been produced out of pulp.
16. Sub-item I of Item No. 18.	Staple fibre and tow of cellulosic origin.	Weight		—
17. -do-	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin—acrylic fibre.	Weight		—
18. -do-	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin—Polyester fibre.	Weight		—
19. -do-	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin, not falling under S. No. 17 or S.No. 18.	Weight		—
20. Sub-item II of Item No. 18.	Man-made filament yarn consisting entirely of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both.	Weight		—
21. -do-	Nylon filament yarn, other than textured.	Weight		—
22. -do-	Polyster filament yarn, other than textured.	Weight		—
23. 25	Ingots, blocks, lumps and similar forms of steel; and waste and scrap of steel.	Weight		—
24. 26A	Copper	Weight		Provided that such copper is manufactured in an integrated ore-based plant.
25. 25	Goods falling under Item No. 25 of the said First Schedule, other than— (i) goods specified against S. Nos. 23 and 27 of this Table; and (ii) goods falling under sub-items (2) and (5) of the said Item No. 25.	Weight		Provided that such goods are manufactured in an integrated ore-based steel plant or in a factory with the aid of electric furnace.
26. 26B	Zinc	Weight		Provided that such zinc is manufactured in an integrated ore-based plant.
27. 25	Tin plates and tinned sheets	Weight		—
28. 30B	Motor starters	Number		—
29. 31(1)	Electric batteries (Dry type—other than metal jacketed batteries).	Number		—
30. 31(1)	Electric batteries (Dry type—metal jacketed batteries).	Number		—
31. 31(2)	Electric batteries (storage type)	Number		—
32. 32(1)	Vacuum and gas filled electric bulbs other than miniature lamps and visual indicator bulbs used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number		—
33. 32(1)	Miniature electric bulbs and visual indicator lamps used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number		—
34. 32(2)	Fluorescent lighting tubes.	Number		—

1	2	3	4	5
35.	32(3)	Sodium and Mercury vapour discharge lamps.	Number	—
36.	34I(1)	Two-wheeled motor vehicles of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres.	Number	—
37.	34I(1)	Two-wheeled motor vehicles not falling under S. No. 36.	Number	—
38.	34I(1)	Three-wheeled motor vehicles.	Number	—
39.	34I(2)	Motor vehicles other than saloon cars.	Number	—
40.	34I(3)	Motor vehicles other than saloon cars.	Number	—
41.	34II	Tractors, including agricultural tractors.	Number	—
42.	34B	Work trucks.	Number	—
43.	63	Wire ropes	Weight	—
44.	64	Carbon black	Weight	—
45.	65	Rubber processing chemicals	Weight	—
46.	68	Concrete Mixers	Number	—
47.	68	Graders, Excavators, Bulldozers and other earth moving equipments.	Number	—
48.	68	Locomotives.	Number	—
49.	68	Railway wagons.	Number	—

TABLE B

Sl. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers.	Value	—
2.	Sub-items III and IV of Item No. 16.	Tyres (other than tubes and flaps).	Value	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 107/81-Central Excises, dated the 24th April, 1981, or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 268/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982.
3.	16	Tubes	Value	—
4.	16	Flaps	Value	—
5.	16A(4)	Transmission, conveyor or elevator belts or belting of vulcanised rubber.	Value	—
6.	16AA	Synthetic rubber, including synthetic rubber latex and pre-vulcanised synthetic rubber latex.	Value	—
7.	29	Internal Combustion Engines	Value	—
8.	Sub-items (A), (B) & (C) of Item 30.	Electric Motors	Value	—
9.	30A	Power Driven pumps.	Value	—
10.	33B	Electric wires and cables.	Value	—
11.	45	Machinery and appliances for determination of weight.	Value	—
12.	49	Rolling bearings.	Value	—
13.	50	Welding electrodes, all sorts.	Value	—
14.	51	Coated abrasives and grinding wheels.	Value	—
15.	51A	Tool.	Value	—
16.	62	Tool tips.	Value	—

1	2	3	4	5
17. 67	Graphite electrodes and anodes.	Value	-	-
18. 68	Machine tools	Value	-	-
19. 68	Air and gas compressors.	Value	-	-
20. 68	Boilers	Value	-	-
21. 68	Cranes	Value	-	-
22. 68	Industrial ovens and furnaces.	Value	-	-
23. 68	Refractory bricks.	Value	-	-

2. Nothing contained in this notification shall apply to the specified goods which are produced and manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India.

ग० 56/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

ग० का० नि० 138(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1941 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करने दृष्ट, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, यथास्थिति, (राजस्व विभाग) या (राजस्व और बीमा विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, आ हमारे उपाय के स्वयं (2) में विनिर्दिष्ट है उक्त मांगी के स्वयं (3) में की तत्कालीन प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में आर सजाधित की जायगी।

मांगी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	24/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965	उक्त अधिसूचना में, मांगी में, वम सं० 14 और उसमें संशोधित प्रविष्टियाँ का नाप किया जाएगा।
2	145/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971	उक्त अधिसूचना में, मांगी में, वम सं० 7 और उसमें संशोधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
	(1) (2) (3)	(1)
	"b. (ii) क्लोरीन	यदि उसका उत्पादन के कारखाने के भीतर, उक्त गृहीत अनुसूची की मद सं० 145 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है जिस पर उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, पूर्णतः या भागतः उद्घाटनीय है।"
3	35/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक पैरा में,— 'उपमद (i), (ii) और (v) के अन्तर्गत आने वाले,— (क) ग्रामोफोन रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेयर डैक या रिकार्ड चेंचर डैक; (ख) ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेयर डैक या रिकार्ड चेंचर डैक के पुर्त और उपपुर्त; (ग) ग्रामोफोन की मुद्रया या स्टैडली, कोष्ठको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर— 'उपमद (i) और (v) के अन्तर्गत आने वाले— (क) ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेयर डैक या रिकार्ड चेंचर डैक; और (ख) ग्रामोफोन की मुद्रया, या स्टैडली," कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे।
4	77/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983	उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्— "(3) किसी ऐसे विनिर्माता का जो भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 55/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 के अधीन दिए गए सूत्रों का उक्त किसी साल के लिए, वर्ष 1985-86 के लिए लागू नहीं होगा यदि ऐसा विनिर्माता इस अधिसूचना के अधीन उक्त ऐसे साल के लिए, वर्ष 1984-85 के दौरान छूट का पात्र था।"
5	83/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983	उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्— "(iii) वर्ष 1985-86 के लिए, किसी विनिर्माता को, जो भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 55/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 के अधीन किसी विनिर्दिष्ट साल के लिए दिए गए सूत्रों का उपयोग करने का पात्र है, लागू होगी यदि ऐसा विनिर्माता इस अधिसूचना के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट साल के लिए, वर्ष 1984-85 के दौरान छूट का पात्र था।"

No. 56/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Govern-

ment of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or (Department of Revenue and Insurance), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment								
(1)	(2)	(3)								
1.	24/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965.	In the said notification, in the Table, S. No. 14 and the entries relating there to shall be omitted								
2.	145/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.	In the said notification, in the Table (after S. No. 7 and the entries relating there to the following shall be inserted, namely :— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>"8.</td><td>(ii)</td><td>Chlorine</td><td>If used within the factory of production in the manufacture of hydrochloric acid falling under Item No. 14G of the said First Schedule on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part."</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	"8.	(ii)	Chlorine	If used within the factory of production in the manufacture of hydrochloric acid falling under Item No. 14G of the said First Schedule on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part."
(1)	(2)	(3)	(4)							
"8.	(ii)	Chlorine	If used within the factory of production in the manufacture of hydrochloric acid falling under Item No. 14G of the said First Schedule on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part."							
3.	38/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.	In the said notification in the opening paragraph for the brackets, letters and words “(a) gramophones, record players, record playing decks or record changer decks; (b) Parts and accessories of gramophones, record players, record playing decks or record changer decks; and (c) gramophone needles or styli, falling under sub-items (i), (ii) and (v) respectively”, the brackets, letters and words “(a) gramophones, record players, record playing decks or record changer decks; and (b) gramophone needles or styli, falling under sub-item (i) and (v) respectively” shall be substituted.								
4.	77/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983	In the said notification, in paragraph 4, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely : - “(iii) for the year 1985-86 to a manufacturer who is eligible for availing the credit granted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 55/84 Central Excises, dated the 1st March 1984, for any of the said goods if, such manufacturer was eligible for exemption under this notification during the year 1984-85 for such of the said goods”.								
5.	83/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.	In the said notification, in paragraph 5, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely : - “(iii) for the year 1985-86 to a manufacturer who is eligible for availing the credit granted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 55/84-Central Excises, dated the 1st March, 1983, for any specified goods if, such manufacturer was eligible for exemption under this notification during the year 1984-85 for such specified goods”.								

सं. 57/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

शां. कां. वि. 110(अ) —केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 95/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 ता. निम्नलिखित और संशोधन करने के अर्थान् —

उक्त अधिसूचना में उपाय 5 माहगी में अम सं. 21 और उसमें संशोधन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तर्धान किया जाएगा अर्थात् —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
122	30	डी० सी० माहगी मॉटर स्टेट मॉटर और चार-व्हाइल मॉटर।	68	टैप ड्रेडर यांत्रिक।
23	30	डी० सी० माहगी माहगी स्टेट मॉटर और चार-व्हाइल मॉटर।	37कक	टैप रिक्वार्टर (शिवो अतर्गत कमीट रिक्वार्टर और टैप रिक ह) और टैप प्लेयर (निम्न अतर्गत कमीट प्लेयर के)।

## No. 57/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 95/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after S. No. 21 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5
22.	30	D.C. micro motors, stators, rotors and die cast rotors.	68	Tape deck mechanism.
23.	30	D.C. micro motors, stators, rotors and die cast rotors.	37AA	Tape recorders (including cassette recorders and tape decks) and tape players (including cassette players)".

• सं० 58/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 140 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) या (राजस्व और कंपनी विधि विभाग) या (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और वैकीय विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात्—

- 1 सं० 67/57-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1957
- 2 सं० 114/58-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 अक्टूबर, 1958
- 3 सं० 70/59-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1959
- 4 सं० 9/60-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 फरवरी, 1960
- 5 सं० 99/60-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1960
- 6 सं० 50/61-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1961
- 7 सं० 72/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962
- 8 सं० 33/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963
- 9 सं० 150/64-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 1964

- 10 सं० 122/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 अगस्त, 1965
- 11 सं० 112/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 1966
- 12 सं० 25/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
- 13 सं० 167/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जून, 1969
- 14 सं० 111/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
- 15 सं० 20/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 मार्च, 1972
- 16 सं० 144/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 अक्टूबर, 1974
- 17 सं० 50/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975
- 18 सं० 131/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मार्च, 1976
- 19 सं० 118/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977
- 20 सं० 119/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977
- 21 सं० 156/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977
- 22 सं० 329/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 नवम्बर, 1977
- 23 सं० 47/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
- 24 सं० 51-79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
- 25 सं० 63/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
- 26 सं० 70/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
- 27 सं० 80/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
- 28 सं० 175/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1979
- 29 सं० 195/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मई, 1979
- 30 सं० 145/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 सितम्बर, 1980
- 31 सं० 144/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जुलाई, 1981
- 32 सं० 82/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982



- 33 सं० 83/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
- 34 सं० 136/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982
- 35 सं० 137/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982
- 36 सं० 138/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982
- 37 सं० 97/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
- 38 सं० 98/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
- 39 सं० 103/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
- 40 सं० 222/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 अगस्त, 1983
- 41 सं० 247/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1983
- 42 सं० 248/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1983

[फा० सं० 334/1/83-टी० आर० यू०]  
के० एस० बैकटगिरि, अवसर सचिव

#### No. 58/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or (Department of Revenue and Company Law) or (Department of Revenue and Insurance) or in the (Department of Revenue and Banking), as the case may be, namely:—

1. No. 67/57-Central Excises, dated the 28th August, 1957.
2. No. 114/57-Central Excises, dated the 18th October, 1958.
3. No. 70/59-Central Excises, dated the 20th July, 1959.
4. No. 9/60-Central Excises, dated the 20th February, 1960.
5. No. 99/60-Central Excises, dated the 23rd July, 1960.
6. No. 50/61-Central Excises, dated the 1st March, 1961.
7. No. 72/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962.
8. No. 33/63-Central Excises, dated the 1st March, 1963.
9. No. 150/64-Central Excises, dated the 19th September, 1964.

1507 GI/83-7.

10. No. 122/66-Central Excises, dated the 7th August, 1965.
11. No. 112/66-Central Excises, dated the 9th July, 1966.
12. No. 25/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
13. No. 167/69-Central Excises, dated the 21st June, 1969.
14. No. 111/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
15. No. 20/72-Central Excises, dated the 4th March, 1972.
16. No. 144/74-Central Excises, dated the 12th October, 1974.
17. No. 50/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
18. No. 131/76-Central Excises, dated the 27th March, 1976.
19. No. 118/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.
20. No. 119/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.
21. No. 156/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.
22. No. 329/77-Central Excises, dated the 26th November, 1977.
23. No. 47/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
24. No. 51/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
25. No. 63/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
26. No. 70/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
27. No. 80/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
28. No. 175/79-Central Excises, dated the 24th April, 1979.
29. No. 195/79-Central Excises, dated the 31st May, 1979.
30. No. 145/80-Central Excises, dated the 27th September, 1980.
31. No. 144/81-Central Excises, dated the 18th July, 1981.
32. No. 82/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
33. No. 83/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
34. No. 136/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.
35. No. 137/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

36. No. 138/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.
37. No. 97/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
38. No. 98/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
39. No. 103/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
40. No. 222/83-Central Excises, dated the 18th August, 1983.
41. No. 247/83-Central Excises, dated the 24th September, 1983.
42. No. 248/83-Central Excises, dated the 24th September, 1983.

[F. No. 334/1/83-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

सं० 59/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 141(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 55 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी माल को, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से, 1 मार्च, 1984 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट देती है।

## No. 59/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub section (4) of section 55 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government hereby exempts all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section for the period commencing on the 1st day of March, 1984 and ending on the 31st day of March, 1984.

सं० 60/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 142 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1984 के खंड 52 के उपखंड (4), जो खंड, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम" कहा गया है)

पहली अनुसूची की ऐसी मद सं० के, जो इससे उपाखंड सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना इस प्रकार प्रभाय उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की सत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं० माल का वर्णन		विशेष उत्पाद-शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1. उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 1(1), 4 II(2), 6, 7, 8, 9, 11 कक (1), 11 ड, 13, 23 (1), 33क, 33घ, 33च, 37 (क) (1), 37 कक, 38 और 68 के अंतर्गत आने वाला माल।		कुछ नहीं
2. उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 1(3), 1क, 1ख, 1ग, 1घ, 1ड, 2(2), 4 II(1), 4 II(3), 4 II(4), 4 II(5), 4 II(6), 4 II(7), 10, 11, 11क, 11कक (2), 12, 14, 14क, 14कक, 14 ख, 14खख, 14ग, 14घ, 14 घघ, 14ङ, 14च, 14चघ, 14छ, 14ज, 15, 15क, 15 कक, 15ग, 15घ, 16क, 16ख, 17, 22ग, 22ङ, 22छ, 23क, 23ख, 23ग, 28क, 29, 29क, 30, 30क, 30ख, 31, 32, 33, 33ख, 33ग, 33घ, 33ड, 34, 34क, 34ख, 36, 37क (ii), 37क(iii), 37क (iv), 37क(v), 37ख, 37खख, 37ग, 37गग, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51क, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59(1), 59(2), 59(3), 59(5), 59(6), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67 के अंतर्गत आने वाला माल।		केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर प्रभाय उत्पाद-शुल्क की रकम का पांच प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री या संघटक भागों पर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन पहले ही संदत्त किसी उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन पहले ही संदत्त अतिरिक्त शुल्क की बाबत मुजरा देने के लिए किसी छूट के लिए अपवा ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क में उक्त उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के बराबर कमी करने के लिए उपबंध करने वाली कोई अधिसूचना, ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन प्रभायें उत्पाद-शुल्क की रकम का अवधारण करने के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

### No. 60/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 52 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill, under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts the goods, falling under the Item Nos. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), [hereinafter referred to as the Central Excises Act, specified in column (2) of the Table hereby annexed, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, read with any notification for the time being in force issued by the Central Government in relation to the duty of excise so chargeable.

TABLE

S.No.	Description of the goods	Rate of special excise duty
1	2	3
1.	Goods falling under Item Nos. 1(1), 4II(2), 6, 7, 8, 9, 11AA(1), 11E, 13, 23(1), 33A, 33DD, 33F, 37A, (i) 37AA, 38, and 68 of the said First Schedule.	Nil
2.	Goods falling under Item Nos. 1(3), 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2(2), 4II(1), 4II(3), 4II(4), 4II(5), 4II(6), 4II(7), 10, 11, 11A, 11AA(2), 12, 14, 14A, 14AA, 14B, 14BB, 14C, 14D, 14DD, 14E, 14F, 14FF, 14G, 14H, 15, 15A, 15AA, 15CC, 15D, 16A, 16B, 17, 22C, 22E, 22G, 23A, 23B, 23C, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 32, 33, 33B, 33C, 33D, 33E, 34, 34A, 34B, 36, 37A(ii), 37A(iii), 37A(iv), 37A(v), 37B, 37BB, 37C, 37CC, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59(1), 59(2), 59(3), 59(5), 59(6), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 and 67 of the said First Schedule.	Five per cent. of the amount of duty of excise chargeable on such goods under the Central Excise Act.

Explanation.—For the purposes of this notification, any notification providing for any exemption for giving credit with respect to or reduction of duty of excise under the Central Excises Act on such goods equal to, any duty of excise under the Central Excises Act, or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), already paid on the raw material or component parts used in the production or manufacture of such goods, shall not be taken into account for determining the amount of duty of excise chargeable on such goods under the Central Excises Act.

[सं० 61/ 84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क]

सा०का०नि० 143 (अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1984 के खंड 52, जा खंड, अन्तिम कर सग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया है और जहां ऐसे माल का भारत के बाहर, किसी देश या राज्यक्षेत्र को जो नेपाल और भूटान से भिन्न है, निर्यात करने पर यथास्थिति केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 या 12क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191क के अधीन घोषणा द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिए गए-उत्पाद शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने की अनुज्ञा दी है वहां विशेष उत्पाद शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा जो शर्तें उक्त उत्पाद शुल्क के रिबेट की लागू हैं।

### No. 61/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with III clause 52— of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods to any country or territory outside India, other than Nepal and Bhutan, the Central Government, by a notification under the said rule 12 or rule 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under rule 191A of the Central Excise Rules, 1944, as the case may be, has allowed a rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of special duty of excise shall also be allowed subject to the same conditions as govern the rebate of the said excise duty.

सं० 62/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1984 के खंड 52, जो खंड, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क के दायित्वाधीन है, और जहां केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 191 ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा ऐसे माल से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के बंधपत्राधीन विनिर्माण की अनुज्ञा दी है वहां ऐसे माल से ऐसी वस्तुओं का बंधपत्राधीन विनिर्माण भी पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा जो शर्तें उक्त नियम 191 ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू हैं।

#### No. 62/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191B of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 52 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191 B, permitted the manufacture of specified articles in bond from such goods, manufacture of such articles, in bond, from such goods shall also be permissible for the purpose of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the said rule 191 B.

सं० 63/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1984 के खंड 52 के उपखंड (4), जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस माल को जो पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य उत्पाद शुल्क माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात "मध्यवर्ती उत्पाद" कहा गया है), पहले ही संदत्त विशेष उत्पाद शुल्क के समतुल्य है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट केवल उसी माल को लागू होगी जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क

से छूट देते हुए, जितना संबंधित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती माल पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन पहले ही संदत्त उत्पाद शुल्क के समतुल्य है, पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) अधीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

#### No. 63/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 52 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts goods which have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as the intermediate products) used in the manufacture of the said goods :

Provided that the exemption contained in this notification shall be applicable only to those goods, in respect of which notifications under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid Rules have been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is equivalent to the duty of excise under the said Central Excises and Salt Act already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

सं० 64/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 146(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1984 के खंड 52 के उपखंड (4), जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद शुल्क माल को, उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

#### No. 64/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 52 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts all excisable goods

produced or manufactured in a free trade zone from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause.

#### सं० 65/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 147 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1984 के खंड 52 के उपखंड (4), जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

- (1) कार्बन काजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए आशयित सी० बी० एफ० (फीनाल निष्कर्ष) "500" और "1300" को, चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 या मद सं० 11 के अंतर्गत आता है; और
- (2) कार्बन काजल के विनिर्माण के कार्बन काजल फीड स्टॉक सं० 72 और बर्मा-शैल कार्बन काजल फील स्टॉक एस० एल० को, चाहे वे उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 के अंतर्गत आते हैं,

उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

#### No. 65/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 52 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts—

- (i) C.B.F. (Phenol Extract) '500' and '1300', whether it falls under Item No. 9 or Item No. 10 or Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black; and
- (ii) Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burma Shell Carbon Black Feed Stock SL, whether they fall under Item No. 9 or Item No. 10 of the said First Schedule intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black, from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause.

#### सं० 66/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 148 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 55 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. 141/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 मई, 1983
2. 142/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 1983
3. 147/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 1983

#### No. 66/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 55 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. 141/83-Central Excises, dated the 13th May, 1983.
2. 142/83-Central Excises, dated the 13th May, 1983.
3. 147/83-Central Excises, dated the 13th May, 1983.

#### सं० 67/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 149 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पहला संशोधन नियम, 1984 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु, जब तक कि इस उपनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध न किया जाए तब तक, इसमें अंतर्विष्ट कोई छूट ऐसे उत्पाद शुल्क माल को लागू नहीं होगी जो किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्मित

किया जाता है और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है।”

[फा० सं० 334/1/83 टी० आर० यू०]  
गौतम रे, अवसर सचिव

### No. 67/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (1st Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. To sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that, unless specifically provided in any notification issued under this sub-rule, any exemption therein shall not apply to excisable goods produced or manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India.”.

[F. No 334/1/83-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

सं० 68/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मार्ग का० नि० 150(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपावृद्ध सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अंतिम उत्पाद” कहा गया है), जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की ऐसी मद सं० के अंतर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय ऐसे उत्पाद-शुल्क के समगुल्य है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वर्णन के ऐसे माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निवेश” कहा गया है) पहले ही गंवत कर दिया गया है जो उक्त पहली अनुसूची की ऐसी मद सं० के अंतर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु यह कि—

- (i) उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में किसी विनिर्दिष्ट क्रम संख्या के सामने उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निवेश का प्रयोग उक्त क्रम संख्या के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में किया जाना है; और
- (ii) इस अधिसूचना के अधीन छूट के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नियमों के नियम 56क में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

सारणी

क्रम सं०	उक्त पहली अनुसूची की मद सं०	निवेश का वर्णन	उक्त पहली अनुसूची की मद सं०	अंतिम उत्पाद का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	12	वनस्पति अबाष्पशील तेल	13	वनस्पति उत्पाद।
2.	12	वनस्पति अबाष्पशील तेल	14	वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वार्निश, कालिख और सैलुलोसी लेकर।
3.	12	वनस्पति अबाष्पशील तेल	15	साबुन।
4.	12	वनस्पति अबाष्पशील तेल	15क	कृत्रिम या मशिलेट रेजिन।
5.	15क(1)	क्लोरीनीकृत रबर	14	वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वार्निश, कालिख और सैलुलोसी लेकर।
6.	15क(1)	नाइट्रो सैलुलोस	14	वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वार्निश, कालिख और सैलुलोसी लेकर।
7.	15क(1)	एस्टरगम	14	वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वार्निश, कालिख और सैलुलोसी लेकर।
8.	12	कास्टर आइल	14क	श्रीषधीय ग्रेड कास्टर आइल।
9.	14ग	ग्लिसरीन	14क	श्रीषधीय ग्रेड ग्लिसरीन।
10.	14ई	जस्ता आक्साईड	14क	श्रीषधीय ग्रेड जस्ता आक्साईड।
11.	14 ज	क्लोरीन	14 छ	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
12.	14 घष	ऐसे किस्म के उत्पाद जो प्रकाश-विरंजन कारकों के रूप में ज्ञात हैं और फाइबर के लिए मुख्य होते हैं।	15 क क	पुष्टमश्रिय निमित्तियां और धुलाई के लिए निमित्तियां चाहे उनमें साबुन हो या नहीं।
13.	15 क (2)	नम्य पालीविनाइल क्लोराइड शीटिंग, शीट और फिल्म जिनमें टैक्सटाइल सामग्री अंतर्निहित नहीं है।	19, 22 या 22 ख सूची क्रमिक जो सैलुलोस व्युत्पत्तियों की या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निमित्तियों से संश्लेषित या वेपित हैं।	

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “नम्य” शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 149/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982 में है।

## No. 68/84 CENTRAL EXCISES

G.S.R. 150(E).—Is exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts excisable goods of the description specified in column (5) of the Table hereto annexed (such goods being hereinafter referred to as “final products”) and falling under such Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, as is equivalent to the duty of excise leviable under the said Act already paid on the goods of the description specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table (such goods being hereinafter referred to as “in-

puts”) and falling under such Item No. of the said First Schedule as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :

Provided that—

- (i) the inputs specified in column (3) of the said Table against a particular Serial Number in column (1) thereof are used in the manufacture of the final products specified in the corresponding entry in col. (5) of the said Table against the said Serial Number; and
- (ii) in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the aforesaid Rules is followed.

THE TABLE

S. No.	Item No. of the said First Schedule	Description of inputs	Item No. of the said First Schedule	Description of final products
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	12	Vegetable non-essential oils.	13	Vegetable product.
2.	12	Vegetable non-essential oils.	14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulosic lacquers.
3.	12	Vegetable non-essential oils.	15	Soap.
4.	12	Vegetable non-essential oils.	15 A	Artificial or synthetic resins.
5.	15 A(1)	Chlorinated rubber	14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulosic lacquers.
6.	15 A(1)	Nitro cellulose	14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulosic lacquers.
7.	15 A(1)	Estergum	14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulosic lacquers
8.	12	Castor Oil	14 E	Medical grade castor oil.
9.	14 C	Glycerine	14 E	Medicinal grade glycerine.
10.	14 I	Zinc oxide	14 E	Medicinal grade zinc oxide.
11.	14	Chlorine	14 G	Hydrochloric acid.
12.	14 DD	Products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre.	15 AA	Surface active preparations and washing preparations whether or not containing soap.
13.	15 A(2)	Flexible polyvinyl chloride sheets and films not containing any textile material.	19, 22 or 22B	Textile fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression “flexible” has the meaning assigned to it in the Explanation to the notification

of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 149/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

सं० 69/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की सब सं० 12 के अंतर्गत आने वाले माल को, उक्त पहली अनुची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय छत्ते उत्पाद शुल्क से जितना उक्त

सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, उसके स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित बातों या निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, छूट देती है।

## सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	दर	शर्त/निर्बन्धन
(1)	(2)	3	4
1.	बिनीला तेल	कुछ नहीं	—
2.	भीम का तेल करंज तेल और सिल्क बिनीला तेल	कुछ नहीं	—
3.	धान की भूसी का तेल	कुछ नहीं	—
4.	खजान तेल	कुछ नहीं	—
5.	ताड़ का तेल	कुछ नहीं	—
6.	सभी प्रकार के वनस्पति अबाष्पशील तेल जिनका उत्पादन जलमयित की सहायता से किया जाता है	कुछ नहीं	—
7.	वनस्पति अबाष्पशील तेल जो प्रसंस्कृत वनस्पति अबाष्पशील तेलों से भिन्न हैं।	कुछ नहीं	—
8.	प्रसंस्कृत वनस्पति अबाष्पशील तेल	कुछ नहीं	—

यदि ऐसे प्रसंस्कृत वनस्पति अबाष्पशील तेलों का उत्पादन के कारखाने के भीतर—

(i) उक्त पहली अनुसूची की मद संख्या 13, 14 और 15 के अंतर्गत आने वाले ऐसे माल; या

(ii) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15 के अंतर्गत आने वाले ऐसे कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन, के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागत उद्ग्रहणीय है।

9. प्रसंस्कृत मूंगफली का तेल, खोपरा तेल और करंजी तेल जिनका उत्पादन विलायक निष्कर्षण पद्धति द्वारा किया जाता है : कुछ नहीं

ऐसी छूट, तेल की ऐसी सम तुल्य मात्रा तक सीमित होगी जो किसी विनिर्माता द्वारा विलायक निष्कर्षण संयंत्र से प्राप्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर के समाधान प्रद रूप में भारत से बाहर निर्यातित वितरित खसों के भार के छह प्रतिशत से अधिक न हो।

10. वनस्पति अबाष्पशील तेल जिसका उक्त पहली अनुसूची की मद संख्या 13 के अंतर्गत आने वाले वनस्पति उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं

यदि उक्त वनस्पति उत्पाद की निकासी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 171/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सारणी 21 मन्वर, 1970 से उपाबद्ध सारणी के क्रम सं० 4 के अधीन नमूनों के रूप में की जाती है।



(1)	(2)	(3)	(4)
11.	प्रसंस्कृत अलसी का तेल जिसका उत्पादन विलायक निष्कर्षण पद्धति द्वारा किया जाता है।	अड़मठ रुपय नब्बे पैसे प्रति मीटरी टन	ऐसी छूट, तेल की ऐसी सम-तुल्य मात्रा तक सीमित होगी जो किसी विनिर्माता द्वारा विलायक निष्कर्षण संयंत्र में प्राप्त और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधान प्रव-रूप में भारत से बाहर निर्यातित विनिर्मित अलसी के भार के छह प्रतिशत से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "प्रसंस्कृत तेल" या "प्रसंस्कृत बनस्पति आवागमनीय तेल" से ऐसा बनस्पति आवागमनीय तेल अभिप्रेत है जिसके संबंध में, उसके निष्कर्षण के परचान, निम्नलिखित कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की गई हैं, अर्थात्—

- (i) कार या अम्ल से अभिक्रियान्वयन
- (ii) विरंजन
- (iii) निर्गन्धीकरण

[फा० सं० 334/1/84-टी०आर० यू०]  
क० एम० बेंकटगिरि, अवर सचिव

#### No. 69/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 12 of the First Schedule to

the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions or limitations, if any, laid down in the corresponding entry in column (4) thereof.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate	Conditions/limitations
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cotton seed oil	Nil	—
2.	Neem Seed oil, Karanj oil and Silk cotton seed oil.	Nil	—
3.	Rice bran oil.	Nil	—
4.	Khakhan oil.	Nil	—
5.	Palm oil.	Nil	—
6.	Vegetable non-essential oils all sorts produced with the aid of water power.	Nil	—
7.	Vegetable non-essential oils other than processed vegetable non-essential oils.	Nil	—
8.	Processed vegetable non-essential oils.	Nil	If such processed vegetable non-essential oils are used within the factory of production in the manufacture of— (i) goods falling under Item Nos. 13, 14 and 15 of the said First Schedule; or (ii) artificial or synthetic resins falling under Item No. 15 A of the said First Schedule, on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole, or in part.

1	2	3	4
9.	Processed Groundnut oil, Copra oil and Kardi seed oil, Nil produced by the solvent extraction method.		The exemption shall be limited to an equivalent quantity of oil not exceeding six per cent of the weight of de-oiled cake obtained by a manufacturer from the solvent extraction plant and exported out of India subject to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise.
10.	Vegetable non-essential oils used in the manufacture of vegetable product falling under Item No. 13 of the said First Schedule.	Nil	If the said vegetable product is cleared as samples under S. No. 4 of the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 171/70-Central Excises, dated the 21st November, 1970.
11.	Processed linseed oil produced by the solvent extraction method.	Sixty-eight rupees and ninety paise per metric tonne.	The exemption shall be limited to an equivalent quantity of oil not exceeding six per cent. of the weight of de-oiled cake obtained by a manufacturer from the solvent extraction plant and exported out of India subject to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise.

Explanation :—For the purposes of this notification "processed oil" or "processed vegetable non-essential oil" means a vegetable non-essential oil which has undergone, subsequent to its extraction, any one or more of the following processes, namely :—

- (i) Treatment with an alkali or acid.
- (ii) Bleaching.
- (iii) Deodorisation.

[F. No. 334/1/83—TRU]  
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

सं० 70/84-केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

सां०का०नि० 152 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाधत्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मंत्र सं० 15क की उपमंत्र (1) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम या सश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री और अन्य सामग्री को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्घाटनीय उम्मेद उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की सम्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित राशि से अधिक है, उसके स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रखते हुए, छूट देती है।

#### सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	निम्नलिखित के स्क्रैप या अपशिष्ट से पुनः संसाधित या उत्पादित कुछ नहीं सभी प्लास्टिक सामग्री :— (i) प्लास्टिक सामग्री, (ii) प्लास्टिक की वस्तुएँ।	कुछ नहीं	—
2.	पॉलिएस्टर पालीमर चिप्स	कुछ नहीं	—
3.	प्लास्टिक सामग्री जो सामान्यतया पालीविनाइल क्लोराइड मिश्रण (पीवीसी मिश्रण) के नाम से जाना है।	कुछ नहीं	—
4.	अप्लास्टिक सेल्युलोज नाइट्रेट	मूल्य का 10 %	—
5.	सेक्सटन	मूल्य का 10 %	—
6.	क्लोरोसिलिकोन रबर	मूल्य का 10 %	—
7.	पालीविनाइल क्लोराइड	मूल्य का 35 %	—
8.	पालीप्रोपिलीन	मूल्य का 27 %	—

(1)	(2)	(3)	(4)
9. सेलुलोज एसीटेट	कुछ नहीं	यदि— (i) उसका ऐसीटेट सूत के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और (ii) ऐसा प्रयोग उत्पादन कारखाने से अन्यत्र किया जाता है तो कन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।	
10. पालिएमिडाइड फाइबर	कुछ नहीं	यदि— (i) उसका उत्पादन सूत के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, और (ii) ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है तो कन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।	
11. उच्च दहनत्व पालिएथिलीन	मूल्य का 35 %	यदि उसका कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न किसी ऐसे रसायन से विनिर्माण किया जाता है जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पादन-शुल्क की समुचित रकम वापस की जाय तो विषय बाट दिया गया है।	
12. ऐल्किड रेजिन और बैल्केक रेजिन जिसके अन्तर्गत प्लुमरिक रेजिन है चाहे वह उपोत्तरित हो या नहीं (किन्तु उसके अन्तर्गत क्लार्क के पाउडर और किसी भी रूप के मिश्रण नहीं है)	कुछ नहीं	---	
13. फिनालिक रेजिन	मूल्य का 20 %	---	
14. छीन फिनालिक रेजिन	मूल्य का 20 %	---	
15. निम्न दहनत्व पालिएथिलीन	मूल्य का 30 %	यदि उसका किसी ऐसे औद्योगिक उपकरण में विनिर्माण किया जाता है जिसकी ऐसे निम्न दहनत्व पालिएथिलीन के विनिर्माण के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन वार्षिक अनुज्ञाप्य क्षमता एक लाख टन से कम है।	
16. निम्न दहनत्व पालिएथिलीन	कुछ नहीं	यदि— (i) कन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिवार्य रूप से किसी अधिकारी के समाधानपूर्वक रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा निम्न दहनत्व पालिएथिलीन ऐसे पटलित कागज के, जिसका वृक्ष के पौकेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विनिर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित है, और (ii) कन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।	
17. लिनोक्सीन	कुछ नहीं	यदि उसका उत्पादन के कारखाने में लिनोक्सीन के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है।	
18. एस्टर गम	मूल्य का 10 %	---	
19. एस्टर-गम	कुछ नहीं	यदि उसका उत्पादन के कारखाने में उक्त पहली अनुसूची की मद 14 के अन्तर्गत आने वाले माद के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है।	
20. सेलुलोज जैन्थेट	कुछ नहीं	यदि— (i) उसका उत्पादन के कारखाने में सेलोफेन या बिस्कोम फिनामेट सूत के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है; और	

1	2	3	4
			(ii) ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने में अन्यत्र किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
21. डाइ-एलिल ध्वेजित रेजिन (जिसमें अंतर्गत उसका डबार्ड का पाउडर कुछ नहीं है)।		कुछ नहीं	यदि— (i) उसका कनेक्टरों या स्विचों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है; और (ii) ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने में अन्यत्र किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
22. ऐक्सिनाइट्राइल का सह-पॉलीमर		कुछ नहीं	यदि उसका उत्पादन के कारखाने में एनालिटिक फाइबर के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है।
23. रिमासिनाल फॉर्मोडीहाइड्रड मोनूशन (डिप सोल्यूशन)		कुछ नहीं	यदि उसका उत्पादन के कारखाने में, उक्त पड़ोसी असूक्ष्म की मद में 16 के अंतर्गत आने वाले टायरों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है।
24. कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन		कुछ नहीं	यदि उसका पाटिकल बोर्ड के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है परन्तु यह तब जब कि— (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिवार्य पंक्ति के किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा माल पाटिकल बोर्ड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित है; (2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का ऐसे मामलों की बाबत अनुसरण किया जाता है; (3) विनिर्माता, ऐसे पाटिकल बोर्ड के विनिर्माण में उक्त रेजिन के प्रयोग के लिए सूत्र की ओर उसमें किसी परिवर्तन की, ऐसा परिवर्तन करने से पहले, घोषणा करता है; और (4) जहाँ विनिर्माता, पाटिकल बोर्ड के अतिरिक्त, उसी कारखाने में किसी अन्य माल का विनिर्माण करता है वहाँ विनिर्माता रेजिन और अंतिम उत्पादों के लिए ऐसे प्रम्प में अलग अलग लेखे रखता है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिवार्य पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा विहित किया जाए।
25. सेलुलोज ट्राइएमीटेड		कुछ नहीं	यदि— (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसे ट्राइएमीटेड का सिनेमा फिल्मों, ऐक्सेरे फिल्मों या फोटोग्राफिक फिल्मों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, और (ii) ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने में अन्यत्र किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

- (i) "ऐल्किड रेजिन" पद से बहु संश्लिष्ट रेजिन अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण बहु आर की अम्लों और/या एनहाइड्राइडों, पोलिहाइड्रिक ऐल्कोहॉलों और एक आर की बसा अम्लों की पारस्परिक क्रिया से होता है तथा उसके अंतर्गत रासायनिक रूप से उपांतरित ऐल्किड रेजिन और अब ऐल्किड रेजिन है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐल्किड रेजिन के अन्य कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन के साथ के सम्मिश्र या मिश्रण नहीं है;

- (ii) "मैलेइक रेजिन" जिसके अन्तर्गत पर्यावरिक रेजिन है" पद से वह संश्लिष्ट रेजिन अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण मैलेइक अम्ल और/या मैलेइक डाइहाइड्रॉइड और/या पर्यावरिक अम्ल या उसके दो या अधिक संयोजन का निम्नलिखित एक या अधिक संघटकों, अर्थात् पोगीहाइड्रिक ऐल्कोहल, रेजिन मृदाते वाले तेल, टर्पीन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करने से होता है और जिसके अन्तर्गत रासायनिक रूप से उपान्वित मैलेइक रेजिन है, किन्तु इसके अन्तर्गत मैलेइक रेजिन के अन्य कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन के साथ के सम्मिश्र नहीं है;
- (iii) "फिनालिक रेजिन" पद से वह संश्लिष्ट रेजिन अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण, किसी भी फिनोल का एलिडहाइड के साथ प्रतिक्रिया करने से होता है और जिसके अन्तर्गत रासायनिक रूप से उपान्वित टर्पीन फिनालिक रेजिन और द्रव फिनालिक रेजिन है किन्तु इसके अन्तर्गत फिनालिक रेजिन के अन्य कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन के साथ के सम्मिश्र नहीं है, और
- (iv) "टर्पीन फिनालिक रेजिन" पद से वह संश्लिष्ट रेजिन अभिप्रेत है, जिसका विनिर्माण किसी भी फिनोल का टर्पीन या टर्पीन ऐल्कोहल से के साथ प्रतिक्रिया करने होता है, और जिसके अन्तर्गत रासायनिक रूप से उपान्वित टर्पीन फिनालिक रेजिन और द्रव टर्पीन फिनालिक रेजिन है किन्तु इसके अन्तर्गत टर्पीन फिनालिक रेजिन के अन्य कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन के साथ सम्मिश्र नहीं है।

## NO. 70-84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts artificial or synthetic resins and plastic materials and other materials, of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No.

15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (4) thereof.

TABLE

S.No.	Description of goods	Rate	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All plastic materials repurposed from or produced out of the scrap or waste of :— (i) plastic materials; (ii) articles of plastics,	Nil	—
2.	Polyester polymer chips	Nil	—
3.	Plastic materials commonly known as polyvinyl chloride compounds (PVC compound).	Nil	—
4.	Non-plasticised cellulose nitrate	10% ad valorem	—
5.	Dextran	10% ad valorem	—
6.	Chlorinated rubber	10% ad valorem	—
7.	Polyvinyl chloride	35% ad valorem	—
8.	Polypropylene	27% ad valorem	—
9.	Cellulose acetate	Nil	If— (i) used in the manufacture of acetate yarn; and (ii) such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
10.	polyamide chip	Nil	If— (i) used in the manufacture of nylon yarn; and (ii) such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.
11.	High density polyethylene	35% ad valorem	If manufactured from raw naphtha or any chemical derived therefrom on which the appropriate amount of duty of excise under the said Act has already been paid.
12.	Alkyd resins and maleic resins including fumeric resins whether or not modified (but excluding moulding powders or compounds in any form).	Nil	—
13.	Phenolic resins	20% ad valorem	—
14.	Terpene phenolic resins	20% ad valorem	—

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Low density polyethylene	30 % ad valorem	If manufacture in any industrial undertaking whose annual licensed capacity under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for manufacturing such low density polyethylene is less than one lakh tonnes.
16.	Low density polyethylene	Nil	If— (i) it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such low density polyethylene is required for use in the manufacture of laminated paper to be used for packaging of milk; and (ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
17.	Linnoxyn	Nil	If used in the factory of production for the manufacture of linoleum.
18.	Ester-gum	10 % ad valorem	
19.	Ester-gum	Nil	If used in the factory of production for the manufacture of goods falling under Item No. 14 of the said First Schedule.
20.	Cellulose Xanthate	Nil	If— (i) used in the factory of production for manufacture of cellophane or viscose filament yarn; and (ii) such use is elsewhere than in the factory of production the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
21.	Diallyl phthalate resins (including moulding powders thereof).	Nil	If— (i) used in the manufacture of connectors or switches; and (ii) such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
22.	Co-polymers of acrylonitrile	Nil	If used in the factory of production for the manufacture of acrylic fibre.
23.	Resorcinol formaldehyde solution (dip solution).	Nil	If used in the factory of production for the manufacture of tyres, falling under Item No. 16 of the said First Schedule.
24.	Artificial or synthetic resins	Nil	If used in the manufacture of particle boards : Provided that— (1) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such goods are intended for use in the manufacture of particle boards; (2) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed in respect of such goods; (3) the manufacturer declares the formula for using the said resins in the manufacture of particle boards and any changes therein before such changes are effected, and (4) where, in addition to the particle boards, the manufacturer manufactures other goods in the same factory, the manufacturer maintains separate accounts for the resin and the end products in such form as may be prescribed by an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise.

(1)	(2)	(3)	(4)
25. Cellulose tri-acetate	Nil	If—	(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such cellulose tri-acetate is used in the manufacture of cine films, X-ray films or photographic films; and (ii) such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

Explanation—For the purposes of this notification—

- (i) the expression “alkyd resins” means synthetic resins manufactured by the interaction of polybasic acids and/or anhydrides, polyhydric alcohols and mono-basic fatty acids and includes chemically modified alkyd resins and liquid alkyd resins, but does not include blends or mixtures of alkyd resins with other artificial or synthetic resins;
- (ii) the expression “maleic resins including fumeric resins” means synthetic resins manufactured by reacting maleic acid and/or maleic anhydride and/or fumeric acid with one or more of the following components, namely, polyhydric alcohol, resins drying oils, terpenes and unsaturated hydrocarbons and includes chemically modified maleic resins but does not include blends of maleic resins with other artificial or synthetic resins;
- (iii) the expression “phenolic resins” means synthetic resins manufactured by reacting any of the phenols with an aldehyde and includes chemically modified phenolic resins and liquid phenolic resins but does not include blends of the phenolic resins with other artificial or synthetic resins; and
- (iv) the expression “terpene phenolic resins” means synthetic resins manufactured by reacting any of the phenols with terpenes or terpene alcohols and includes chemically modified terpene phenolic resins and liquid terpene phenolic resins but does not include blends of the terpene phenolic resins with other artificial or synthetic resins.

सं० 71/84 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 153 (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) के अंतर्गत

आने वाले कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और अन्य सामग्री को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के चालीस प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

#### NO. 71/84 CENTRAL EXCISES

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts artificial or synthetic resins and other materials, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of forty per cent ad valorem.

सं० 72/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 154 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में, —

- (क) क्रम सं० 1, 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं०	वर्णन	शर्त
(1)	(2)	(3)

“5. सेलुलोज ट्राइ-एसीटेट फिल्म

यदि—

- (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समन्वय प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि

1	2	3
		ऐसी सेलूलोस ट्राइ-एसीटेट फिल्मों का सिनेमा फिल्मों, एक्स-रे फिल्मों या फोटोग्राफिक फिल्मों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाना है; और
		(ii) ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।”।

### NO. 72/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 38/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(a) S. Nos. 1, 2 and 3 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

S.No.	Description	Conditions
1	2	3
"5.	Cellulose tri-acetate films.	If— (i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such cellulose tri-acetate films are to be used in the manufacture of cine films, X-ray films or photographic films; and (ii) such use is elsewhere than in the factory of production the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, shall be followed.”.

सं० 73/34-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 155 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) या

राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिमूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात् —

1. सं० 158/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 अगस्त, 1970।
2. सं० 23/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 फरवरी, 1973।
3. सं० 151/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मई, 1975।
4. सं० 206/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 जून, 1977।
5. सं० 302/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 दिसम्बर, 1979।
6. सं० 152/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1981।
7. सं० 190/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1981।
8. सं० 46/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982।
9. सं० 48/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982।
10. सं० 139/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982।
11. सं० 140/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982।
12. सं० 141/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982।
13. सं० 142/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982।
14. सं० 237/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982।
15. सं० 265/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982।
16. सं० 41/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983।
17. सं० 125/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अप्रैल, 1983।
18. सं० 158/33-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 मई, 1983।

### NO. 73/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance



the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, namely :—

1. No. 158/70-Central Excises, dated the 5th August, 1970.
2. No. 23/73-Central Excises, dated the 12th February, 1973.
3. No. 151/75-Central Excises, dated the 31st May, 1975.
4. No. 206/77-Central Excises, dated the 29th June, 1977.
5. No. 302/79-Central Excises, dated the 4th December, 1979.
6. No. 157/81-Central Excises, dated the 29th August, 1981.
7. No. 190/81-Central Excises, dated the 13th November, 1981.
8. No. 46/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
9. No. 48/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
10. No. 139/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.
11. No. 140/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.
12. No. 141/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.
13. No. 142/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.
14. No. 237/82-Central Excises, dated the 1st November, 1982.
15. No. 265/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982.
16. No. 41/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
17. No. 125/83-Central Excises, dated the 15th April, 1983.
18. No. 158/83-Central Excises, dated the 21st May, 1983.

सं० 74/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 156 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त सीमाशुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 82/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 GI/83—9

1983, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—  
उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

#### NO. 74/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rule, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 82/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, Sl. No. 2 and the entry relating thereto shall be omitted.

सं० 75/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० के, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उसने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकृत आशयित उपयोग या शर्त के अधीन रहते हुए, यदि कोई को, उसके स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है ;

परन्तु यह कि जहाँ ऐसी छूट ऐसे आशयित उपयोग के अधीन रहते हुए है, उस दशा में छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से अभिन्न पंक्ति के किसी अधिकारी के समाधान-प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा माल उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट आशयित उपयोग के लिए उपयोग किया गया है ; और

(ii) जहाँ ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र है वहाँ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

## सारणी

निर्देश सं०	मद सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर	आशयित उपयोग शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01	6	नोटर रिफ्ट	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2253.88 रुपए प्रति किलोमीटर	कुछ नहीं।
6.02	6	कच्चा नेप्था	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.40 रुपए प्रति किलोमीटर	उर्बरकों और अमोनिया के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित परन्तु यह कि जहाँ आशयित उपयोग अमोनिया के विनिर्माण के लिए है वहाँ ऐसा अमोनिया उर्बरकों के विनिर्माण में अन्यत्र उपयोग किया जाता है और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
6.03	6	कच्चा नेप्था	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 26.25 रुपए प्रति किलोमीटर	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उपनियम (2) के अधीन परिकरणी के रूप में बोधित परिस्थितियों में और निम्न-लिखित उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित; अर्थात्:— 1. एबीसीन, 2. प्रोपीलीन, 3. ब्यूटाडीन, 4. आइसोप्रीन, 5. सामास्य ब्यूटाडीन, 6. ब्रैन्जीन, 7. टॉल्युईन, 8. पैराक्साइलीन, 9. आर्थोक्साइलीन, 10. मिथिल-क्साइलीन, 11. मेथानोल, 12. एमिडिलीन, 13. एथिल ब्रैन्जीन, 14. स्ट्राइलीन, 15. माइ-क्लो-प्रीटाडीन, 16. बिनाइल क्लोराइड, 17. 2-एथिल हेक्सागैस, 18. ब्यूटानोल, 19. हाइड्रोजन, 20. सिन्थेटिक गैस। स्पष्टीकरण—ऐसे कच्चे नेप्था का, जिस पर छूट दी जाती है, अबधारण करने के प्रयोजन के लिए, यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 140 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार बोधित किसी परिकरणी द्वारा प्राप्त कच्चे नेप्था को मात्रा में से कोई मात्रा ऐसे उपयोग के पश्चात् ऐसी परिकरणी को बाधित कर दी जाती है जिससे कच्चा नेप्था उक्त पहली अनुसूची की सब 6 से 11 के अन्तर्गत आने वाले परिकरणी शुल्क माल के उत्पादन के लिए और प्रसंस्करण और, या मिश्रण के लिए प्राप्त किया गया था, ऐसी मात्रा को छोड़ दिया जाएगा।
6.04	6	कच्चा नेप्था	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर	अमोनिया के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित।
6.05	6	कच्चा नेप्था	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.40 रुपए प्रति किलोमीटर	(i) बड़ोदा या तूनीकोरिन स्थित भारी जल संयंत्र के क्षीयर सिन्थे-निय गैस या अमोनिया या दोनों के, जो ऐसे संयंत्रों में भारी जल के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, विनिर्माण के लिए ; (ii) गुजरात राज्य उर्बरक निगम, बड़ोदा या वल्लिण देडोलियम औद्योगिक निगम, तूनीकोरिन द्वारा सिन्थेटिक गैस या अमोनिया या दोनों के विनिर्माण के लिए और यदि इस प्रकार विनिर्मित सिन्थेटिक गैस या अमोनिया या दोनों, बड़ोदा या तूनीकोरिन स्थित भारी जल संयंत्रों को ऐसे संयंत्रों में भारी जल के विनिर्माण के लिए प्रसार किए जाते हैं, उपयोग के लिए आशयित।
6.06	6	कच्चा नेप्था	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20.25 रुपए प्रति किलोमीटर	जल प्रदूषण का निगमण करने के लिए बहि-स्त्राव का अभिक्रियान्वयन करने के लिए उपयोग के लिए आशयित।
6.07	6	हल्का तेल, अर्थात्, कोक ओवन संयंत्र में उत्पादित कोकलांतर आमयन उत्पाद।	कुछ नहीं	बिस्तर, विलायकों और विलायक नेप्था के विनिर्माण में फोड-स्ट्राक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।
6.08	6	विशेष कवचनांक रिफ्ट, जिनमें (ब्रैन्जीन वैजोल, टॉल्युईन और टॉल्युओल से भिन्न) नियत कवचनांक रेंज के डेटोलियम से व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन हैं—	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)	55-115 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2025.00 रुपए प्रति किलोलीटर	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1850.00 रुपए प्रति किलोलीटर	
	(ख)	63-70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1995.00 रुपए प्रति किलोलीटर		
	(ग)	अन्य 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1050.00 रुपए प्रति किलोलीटर		
6.09	विशेष मयबनांक स्ट्रिप्ट जिनमें (बैजीन, बैजोल, टोल्म्युईन और टोल्म्युजोल से शिष्ट) नियत मयबनांक रेंज 63-70 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज के पैट्रोलियम से व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन हैं।	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1050.00 रुपए प्रति किलोलीटर		विलायक-निष्कषित घनस्पति अवाष्पशील तेलों या रेशमी कीड़ों के प्यूआ से घमा निष्कर्षण के लिए विनिर्माण में उपयोग के आशयित।
6.10	6 बैजीन, एथिल, बैजीन, बैजोल, टोल्म्युईन, टोल्म्युजोल, विलायक नेपथा और मिश्रित कसाइलीन जिनमें आर्बो-कसाइलीन, मेटा-कसाइलीन प-रा-कसाइलीन और एथिल बैजीन हैं।	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 472.50 रुपए प्रति किलोलीटर		(i) निर्जलित एल्कोहल के उत्पादन में संग्रहीत तरल के रूप में ; (ii) पेस्ट के विनिर्माण के लिए विलायक तनुकारक या विनर के रूप में; यांत्रिक, लेकर और महबूब सामग्री या पंगविलों में उपयोग के लिए प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ और सफाई के लिए आसंजकों, रबड़ धोलों, जल-मह कारक संयोजनों और जैसे ही उत्पादों के विनिर्माण के लिए ; (iii) वनस्पति और ज्ञानव उत्पाद के अल्कोलीयड्स या अन्य स्क्रिप अवयव निकालने के लिए विलायक के रूप में ; (iv) रसायन औषधि रंजक, विस्फोटक या संश्लिष्ट रबड़ या उनके मध्य में रासायनिक परिवर्तन के लिए ; (v) माप-कपड़ा में प्रयुक्त मिश्रण के लिए रंजक के रूप में ; (vi) औषधि, रसायन, सुगंधित रसायन और माप, रंजक, संश्लिष्ट रेजिन, संश्लिष्ट में उत्पादन विस्फोटक, भागत. संश्लिष्ट या उनके उत्पादन में अन्य रसायन क्रिया को जैसी वस्तुओं के निकालने, अलग करने या शुद्धीकरण के लिए विलायक, विनर या तनुकारक के रूप में ; (vii) कपूर के उत्पादन में माध्यम और हाइड्रोजनगृहीता के रूप में ; (viii) स्नेहक तेल और हल्के डीजल तेल के उत्पादन के लिए फोड-स्टाक के शुद्धीकरण की प्रक्रिया में अमोनी धोलक के रूप में ; उपयोग के लिए आशयित।
6.11	6 बैजोल,	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500.00 रुपए प्रति किलोलीटर		इस्पात के विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए कोक-ओवन गैस में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए आशयित।
6.12	6 बैजीन और टोल्म्युईन	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30.00 रुपए प्रति किलोलीटर		स्टाइरीन मोनोमर या विनाइल क्लोराइड मोनोमर या धातों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने के लिए परिशोधित स्ट्रिप्ट के विद्रुतिकरण के लिए आशयित।
6.13	6 बैजीन, एथिल बैजीन, बैजोल, टोल्म्युईन, टोल्म्युजोल और विलायक नेपथा,	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35.00 रुपए प्रति किलोलीटर		पेस्टीमाइड्स घोल, स्प्रे और सस्पेंशन के बनाने में विलायकों के रूप में उपयोग के लिए या डी डी टी (तकनीकी), डी एच टी (तकनीकी), मलेथियन (तकनीकी) और इन्डोसल्फान (तकनीकी) के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित।
6.14	6 पावर अल्कोहल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35.00 रुपए प्रति किलोलीटर		(i) (1) पटलित उत्पादों ; (2) नाइट्रो सेलुलोज फिनिश, लेकर या विनर , (3) ऐसिटिक अम्ल या एथिल ऐसिटेट ; (4) सेलुलोज ऐसिटेट ; (5) एथिलोन या एथिलोन आधारित उत्पाद ; (6) मिश्रित संघारित ; (7) व्युदाहीन या संश्लिष्ट रबड़ ; (8) डी डी टी या कपड़ा ; (9) सामान्य व्युदाहीन एल्कोहल या सामान्य व्युदाहीन ऐसिटेट ; (10) औषध या रंजक द्रव ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(11) मलेषियन या पैराषियन तकनीकी ;</p> <p>(12) एनैमल या वार्निश ;</p> <p>(13) औषधियों या औषधियों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित आशयित रसायन ;</p> <p>(14) मुद्रण, प्रतिलिपिकरण या स्टैम्पिंग स्पाही या स्टेसिन पेपर या कार्बन या टाइपराइटर रिबन , या</p> <p>(15) बाइ-एथिल कैथोड, के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित ; और</p> <p>(ii) मिश्रणों से निकाले गए विलेय के प्रयोजन के लिए आशयित , परन्तु यह कि केन्द्रों उपाय-शुल्क सहायक क्लस्टर को पंक्ति से अतिरिक्त पंक्ति के किसी अधिकारी का समाधान हो जाना है कि पावर एंजिन का उपयोग किसी प्रकार के मोटरयान या विमान के लिए गतिवादी शक्ति देने के लिए या अन्तर्गत इंजनों के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाएगा।</p>
6 15	कुर्वा अमोनीकरण मिश्रण	कुछ नहीं		शर्त : यदि इसका प्रयोग तेल कुए के अमोनीकरण के लिए किया जाता है।
7.01	7 मिट्टी का तेल और बिना मान टरबाइन ईंधन	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 338.19 रुपए प्रति किलोलीटर	कुछ नहीं	
8.01	8 उच्च गति डीजल तेल के नाम से ज्ञात के प्रकार का परिष्कृत डीजल तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 334.04 रुपए प्रति किलोलीटर	कुछ नहीं	
8.02	8 परिष्कृत डीजल तेल (उच्च गति डीजल तेल और ट्रांसफार्मर तेल से भिन्न)	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450.00 रुपए प्रति किलोलीटर	कुछ नहीं	
8.03	8 वाक्साइट विनायक तेल	कुछ नहीं		शर्त :— यदि इसका उपयोग किसी परिष्करण में मोम का परिष्करण करने के लिए विनायक के रूप में किया जाता है।
8.04	8 ट्रांसफार्मर तेल	कुछ नहीं		शर्त :—यदि इसका विनिर्माण ट्रांसफार्मर तेल आधारीक स्टाक या ट्रांसफार्मर तेल फीड स्टाक में, जिस पर, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्योगीय अतिरिक्त शुल्क पहले ही सवत कर दिया गया है।
8.05	8 ब्रह्म पैराफिन और श्वेत तेल	कुछ नहीं		शर्त :—यदि उसका ऐसे स्पिडल एच बी आइ तेल से विनिर्माण किया जाता है जिस पर, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्योगीय अतिरिक्त शुल्क पहले ही सवत कर दिया गया है।
8.06	8 कुर्वा अमोनीकरण मिश्रण	कुछ नहीं		शर्त :— यदि इसका प्रयोग तेल के कुर्वा के अमोनीकरण के लिए किया जाता है।
8.07	8 एरोमैक्स या बायोमैक्स के नाम से ज्ञात परिष्कृत डीजल तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.00 रुपए प्रति किलोलीटर		कार्बन फाजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टाक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।
8.08	8 खनिज तेल जिसका— (क) प्रज्वलन ताप 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है ; (ख) घूम बिन्दु 10 मिली मोटर से कम का है ; (ग) कार्बन अपशिष्ट क्षार में 0.25 प्रतिशत से कम का है ; (घ) 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडवुड। ध्यास्तामापी	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.00 रुपए प्रति किलोलीटर		मिनकीनी छाल से एक्लाइड से निष्कर्षण के लिए विनायक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		द्वारा रखा जाता 40 सेकण्ड या अधिक है ; (ड०) उपयोग समायत्तया बाह्य ईंधन या अस्तव्यस्त इंजनों के लिए ईंधन या प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है ।		
9.01	9	डीजल तेल जो अन्यथा बिनिर्दिष्ट नहीं है	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 155.72 रुपए प्रति किलोमीटर	कुछ नहीं
9.02	9	अन्य राज्य या बिहार राज्य में उत्पादित कोई खनिज तेल जो निम्न- लिखित बिनिर्देशों को पूरा करता है— (क) जिसका प्रचलन ताप 150 डिग्री फारेन- हाइट या उससे अधिक है; और (ख) जिसकी ज्वाला की ऊँचाई 10 मिलीमीटर से कम है . परन्तु यह कि (क) उक्त खनिज तेल का बहाव बिन्दु जिसका पेट्रोसियम संस्थान, लखनौ द्वारा विहित आई० टी० 15, 60 पद्धति द्वारा अवधारण किया जाए, पचास डिग्री फारेनहाइट पर या उससे अधिक हो, जिसकी विस्फोसिता एक नौ डिग्री फारेनहाइट पर रेडबुड 1 बिस्कोमीटर द्वारा 35 सेकण्ड से अधिक हो और जिसमें बिटुमेनी पदार्थ वजन के अनुसार 0.75 प्रतिशत से अधिक हो, या (ख) जिसकी विस्फोसिता एक सौ डिग्री फारेनहाइट पर रेडबुड 1 बिस्कोमीटर द्वारा पचास सेकण्ड से अधिक हो और जिसमें बिटु- मेनी पदार्थ वजन के अनु- सार दो प्रतिशत से अधिक हो ।	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 127.10 रुपए प्रति किलोमीटर	कुछ नहीं
9.03	9	सी० बी० एफ (कैमोल सार) "500" और "1300"	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.00 रुपए प्रति किलोमीटर	कार्बन काजल के बिनिर्माण में औद्योगिक फीडस्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित ।
9.04	9	कार्बन काजल फीड स्टॉक सं० 72 और बर्मा-गैल कार्बन काजल फीड स्टॉक एस एस	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.00 रुपए प्रति किलोमीटर	कार्बन काजल के बिनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित ।
10.01	10	भट्टी तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 121.05 रुपए प्रति किलोमीटर	कुछ नहीं

1	2	3	4	5
10.02	10 भट्टी तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.95 रुपए प्रति किलोलीटर	शर्त :- ऐसा भट्टी तेल ऐसी प्रक्रिया के पालन और ऐसी शर्त के अनुपालन के, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा इस निमित्त विहित की गई हो या की जाए, अधीन रहने हुए, बंकर तटीय जलयानों को प्रदान किया जाता है।	
10.03	10 भट्टी तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21.05 रुपए प्रति किलोलीटर	सौहृद अम्लक पैलेट के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित परन्तु यह कि उससे उत्पादित पैलेट भारत से बाहर निर्यात किए जाते हैं।	
10.04	10 भट्टी तेल	कुछ नहीं	उर्वरकों के विनिर्माण में फीड स्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित	
10.05	10 भट्टी तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 61.05 रुपए प्रति किलोलीटर	उर्वरकों के विनिर्माण में फीड स्टॉक के अन्यथा उपयोग के लिए आशयित।	
10.06	10 भट्टी तेल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 61.05 रुपए प्रति किलोलीटर	दक्षिण पेट्रोएसोसियन औद्योगिक निगम, तृतीकोरन द्वारा सिन्थेसिस गैस या अमोनिया या वाष्प या उन सभी या उनमें से किसी के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित और सिन्थेसिस गैस या अमोनिया या वाष्प या उनमें से सभी या उनमें से कोई, जो इस प्रकार विनिर्मित किए गए हैं, भारी जल के विनिर्माण के लिए तृतीकोरन स्थित भारी जल संयंत्र को प्रदान किए जाते हैं।	
10.07	10 सी०बी०एफ० (कैनोससार) "500" और "1300"	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.00 रुपए प्रति किलोलीटर	कार्बन काजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।	
10.08	10 कार्बन काजल फीड स्टॉक सं० 72 और अर्मा शील कार्बन. काजल फीड स्टॉक एस एल	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.00 रुपए प्रति किलोलीटर	कार्बन काजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।	
11.01	11(1) कोयला और कोक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
11.02	11 पेट्रोलियम कोक, निस्तापित पेट्रोलियम कोक से भिन्न	मूल्य का 20 प्रतिशत	कुछ नहीं	
11.03	11 स्ट्रेट ग्रेड बिटुमन/एस्फाल्ट (क) ड्रमों में पैक किया हुआ (ख) प्रपंज में	150.05 रुपए प्रति मीटरी टन 105.05 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं कुछ नहीं	
11.04	11 कट-बैक बिटुमन/एस्फाल्ट (क) ड्रमों में पैक किया हुआ (ख) प्रपंज में	149.80 रुपए प्रति मीटरी टन 104.80 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं कुछ नहीं	
11.05	11 कोलतार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
11क.01	11क खनिज कोल्जा तेल	मूल्य का 20 प्रतिशत	कुछ नहीं	
11क.02	11क मोम	मूल्य का 20 प्रतिशत घन 475 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं	
11क.03	11क अपशिष्ट ईंधन तेल	147.10 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं	
11क.04	11क फलशन तेल	600.00 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं	
11क.05	11क घरेलू तेल	590.70 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं	
11क.06	11क खनिज कोल्जा तेल से भिन्न, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1 की पहली अनुसूची की मद सं० 11क की उप मद (4) के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पाद	मूल्य का 20 प्रतिशत घन 190.00 रुपए प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं	

1	2	3	4	5
11क.07	11क	कोई खनिज तेल (क) जिसका प्रज्वलन ताप 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है (ख) जिसका घूम बिन्दु 15 मिलीमीटर से अधिक नहीं है (ग) जिसमें कार्बन अपशिष्ट भार में 0.25 प्रतिशत से कम है। (घ) जिसकी भ्यामता 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडबुड 1 स्थानतामापी के अनुसार 50 सेकण्ड या उससे अधिक है (ङ) जो बाह्य ईंधन के रूप में या अन्तर्दहन इंजनों के लिए ईंधन के रूप में सामूचीतीर पर उपयोग नहीं किया जाता है।	110.00 रुपये प्रति मीटरी टन	कृषि स्त्रोत के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्राणयित।
11क.08	11क	मद सं० 11क के अन्तर्गत आने वाला खनिज तेल	13.85 रुपये प्रति मीटरी टन	नार्न: ऐसे खनिज तेल का उपयोग, पटसन या बिमलीपट्टम पबसन या मेस्ता रेजों या इनमें से किसी दो या अधिक के मिश्रण पटसन मिलों में बैचिक के लिए किया जाना है : परन्तु यह सब जब (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर से अनिमित्त पंक्ति के किसी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उक्त खनिज तेल का उपयोग इस प्रकार किया गया है। (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा समय समय पर इस निमित्त विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।
11क.09	11क	सी०बी०एफ० (फैनोल सार) मूल्य का 10 प्रतिशत (फैनोल सार) "500" और "1300"		कार्बन काजल के विनिर्माण में फीब स्टार्क के रूप में उपयोग के प्राणयित।
11क.10	11क	निम्न सल्फर हैवी स्टार्क	147.10 रुपये प्रति मीटरी टन	कुछ नहीं
11क.11	11क	निम्न सल्फर हैवी स्टार्क	136.71 रुपये प्रति मीटरी टन	इस्पात संयंत्र में उपयोग के लिए प्राणयित।
11क.12	11क	निम्न सल्फर हैवी स्टार्क	कुछ नहीं	किसी परिष्करण में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए प्राणयित। स्पष्टीकरण "परिष्करण" से ऐसी परिष्करण अभिप्रेत है जिसमें कच्चे पेट्रोलियम या शेल का परिष्करण या असंशुद्ध शुल्क पेट्रोलियम उत्पादों का सम्मिश्रण किया जाता है।
11क.13	11क	किसी परिष्करण से जिसका अर्धवार्षिक आधार पर संवेण प्रवाह, चाहे पूर्णतया देशी कच्चे तेल या आयात : आयातित कच्चे तेल का है, जिसमें से कुल संवेण प्रवाह का साठ प्रतिशत से अधून संवेण प्रवाह देशी कच्चे तेल का है, निर्यात किया गया निम्न सल्फर हैवी स्टार्क।	कुछ नहीं	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य विद्युत बोर्ड या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में विद्युत उपक्रमों द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रजनन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग के, या भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 का 9) के भाग 2 के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करने या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 28 के अधीन, विद्युत ऊर्जा के प्रदाय करने के कारबार में लगने की संजूरी अधिप्राप्त कर ली है, सिवाय उनके जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन विनियम के लिए नहीं किन्तु अपने उपयोग के लिए या अपने उपक्रमों को प्रदाय के लिए करते हैं, लिए प्राणयित।

1	2	3	4	5
		स्पष्टीकरण—“अर्ध-वार्षिक” पद से किसी वर्ष में 1 जनवरी से प्रारम्भ होने वाली और 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि या 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली 6 मास की अवधि अभिप्रेत है।		परन्तु यह कि भागतः देशी कच्चे तेल से और भागतः आयातित कच्चे तेल से उक्त निम्न मन्कर द्वैवी स्टॉक का उत्पादन करने वाली कोई परिष्करण श्रम प्रभाव की घोषणा फाईल करेगी कि अर्ध-वार्षिक आधार पर संशोधन प्रवाह 60 प्रतिशत से अल्पतः देशी कच्चे तेल का है, और जहाँ देशी कच्चे तेल की वास्तविकता संशोधन प्रवाह उक्त सीमा से कम हो जाए वह परिष्करण उस पर उद्योगीय शुल्क का संदाय करेगी।
11क.14	11	अपचित अपरिष्कृत यदिष्ट तन्वा देशी कच्चे तेल से उत्पादित किया जाए	कुछ नहीं	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य विद्युत बोर्ड या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियमन में विद्युत उपकरणों द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रजनन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग के, या भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 का 9) के भाग 2 के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करने या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 28 के अधीन विद्युत ऊर्जा के प्रदान करने के कारबार में लगने की मंजूरी अभिप्राय करनी है, सिवाय उनके जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन विक्रय के लिए नहीं, किन्तु अपने उपयोग के लिए या अपने उपकरणों को प्रदान के लिए करने हैं, लिए आशयित। कार्बन काजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।
11क.15	11क	डिपोलीन “क” और “ख”	मूल्य का 5 प्रतिशत	ईंधन के रूप में अथवा उच्च दहन की पालीस्थिलीन के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित।
11क.16	11क	एन पी चैमिस्स-330	मूल्य का 5 प्रतिशत	वैट्रोलियम सल्फोनेट या कृषि स्प्रैटेल या औद्योगिक तेल या प्लास्टिफाईज तेल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित।
11क.17	11क	स्पिडल एच बी वाई तेल के नाम से सामान्यतया ज्ञात खनिज तेल	1149 50 रुपये प्रति मीटरी टन	स्वैत तेल या द्रव पैराफिन के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित।
11क.18	11क	स्पिडल एच बी वाई तेल के नाम से सामान्यतया ज्ञात खनिज तेल	1440 00 रुपये प्रति मीटरी टन	
11क.19	11क	ट्रांसफार्मर तेल आधार स्टॉक 1580.00 रुपये प्रति मीटरी टन या ट्रांसफार्मर तेल फीड स्टॉक के नाम से सामान्यतया ज्ञात खनिज तेल जो निम्नलिखित अवस्थाओं को पूरा करता है, अर्थात्— (क) जिसकी ज्वाला की ऊंचाई 10 मिलीमीटर से कम है ; (ख) जिसका फलगत बिन्दु फोरनहाईट थर्मामीटर की दो सौ डिग्री या उससे अधिक है ; (ग) इसमें 0.25 प्रतिशत से कम बिटुमनी पदार्थ है। (घ) इसकी ध्यानता फोरनहाईट थर्मामीटर की एक सौ डिग्री पर रेड-बुड 1 ध्यानतामापी के अनुसार 50 सेकेट या उससे अधिक है ;	1580.00 रुपये प्रति मीटरी टन	ट्रांसफार्मर तेल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित।



1	2	3	4	5
	(क) इसका वाह्य ईंधन के रूप में या अन्तर्दहन इंजिनो में ईंधन के रूप में या प्रवीपक के रूप में मामूली तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है।			
11क. 20	11क प्रक्षालन तेल 'ब' प्रक्षालन तेल 'ग' या प्रक्षालन तेल "65"	110.00 रुपए प्रति मोटरी टन		डीजेल, वैजोल, डायबुईन, बमईलीन, हक्का विनायक नेप्वा और नेप्वालीन के विनिर्माण या निष्कण में बिलायक का अवशेषक के रूप में उपयोग के लिए आशयित।
11क. 21	11क भारी पेट्रोलियम स्टार्क	कुछ नहीं		उर्वरकों के विनिर्माण में फोस् स्टार्क के रूप में उपयोग के लिए आशयित।
11क. 22	11क परिष्करणियों में उद्भासित मध्यम पेट्रोलियम उत्पाद	कुछ नहीं		यहां, यदि परिष्करणियों में, अन्य वैधर पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन या विनिर्माण के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
11कक. 01	11कक (1) वैजित पेट्रोलियम गैस	252 50 रुपए प्रति मोटरी टन		कुछ नहीं
11कक. 0. 2	11कक (2) पेट्रोलियम गैस और कच्चे पेट्रोलियम या शेल के परिष्करण में व्युत्पन्न गैसीय हाइड्रोकार्बन	मूल्य का 20 प्रतिशत		कुछ नहीं
11कक. 03	11कक परिष्करणी गैस	कुछ नहीं		यहां यदि परिष्करणी में ईंधन के रूप में या परिष्करणीय उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या तेल क्षेत्रों में बायलनों, गैस इंजिनो के चलाने या तेल के कुवों के नपोंडन के लिए उपयोग किया जाए।
11ख. 01	11ख मिश्रित या योगिक स्लेहक तेल और द्रव	कुछ नहीं		कुछ नहीं

## NO. 75/84-CENTRAL EXCISES

GSR. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under Item Nos. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the intended use, or the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof :

Provided that where any such exemption is subject to the intended use, the exemption in such case shall be subject to the following conditions, namely :—

(i) that it is proved to the satisfaction of an Officer not below the rank of the Assistant Collector of Central Excise that such goods are used for the intended use specified in column (5) of the said Table: and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

TABLE

Ref. No.	Item No.	Description of goods	Rate of duty	Intended use/condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01	6	Motor spirit	Rs. 2253.88 per kl. at 15°C	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.02	6	Raw naphtha	Rs. 4.40 per kl at 15°C	Intended for use in the manufacture of fertilisers ammonia : Provided that where the intended use is in the manufacture of ammonia such ammonia is used elsewhere in the manufacture of fertilisers and the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
6.03	6	Raw naphtha	Rs. 26.25 per kl at 15°C	Intended for use in the premises declared under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944 to be a refinery and in the manufacture of the following products, namely :— 1. Ethylene. 2. Propylene. 3. Butadiene. 4. Iso-Butylene. 5. Normal Butylene. 6. Benzene. 7. Toluene. 8. Para-Xylene. 9. Ortho Xylene. 10. Mixed-Xylene. 11. Methanol. 12. Acetylene. 13. Ethyl Benzene. 14. Styrene. 15. Cyclopentadiene. 16. Vinyl Chloride. 17. 2-Ethyl Hexanol. 18. Butanol. 19. Hydrogen. 20. Synthesis Gas. Explanation :— For the purposes of determining the quantity of raw naphtha entitled to the exemption if out of the quantity of raw naphtha received by any refinery declared as such under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, any quantity is returned after such use to the refinery from which the raw naphtha was received for further processing and/or blending for production of finished excisable goods falling under Items 6 to 11A of the said First Schedule, such quantity shall be excluded.
6.04	6	Raw Naphtha	Rs. 100.00 per kl at 15°C	Intended for use in the manufacture of Ammonia.
6.05	6	Raw Naphtha	Rs. 4.40 per Kl at 15°C	Intended for use :— (i) within the Heavy water plant at Baroda or Tuticorin for the manufacture of synthesis gas or ammonia or both which are to be utilised in the manufacture of heavy water in such plants; (ii) by M/s Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin, for manufacture of synthesis gas or ammonia or both and if the synthesis or ammonia or both so manufactured is supplied respectively to the Heavy Water Plants at Baroda or Tuticorin for the manufacture of Heavy Water in such Plants.
6.06	6	Raw Naphtha	Rs. 26.25 per kl at 15°C	Intended for use for effluent treatment to control water pollution.
6.07	6	Light oil, that is, to say, a coal-tar distillation product produced in any coke oven plant.	Nil	Intended for use as feed stock in the manufacture of thinners, solvents and solvent naphthas.
6.08	6	Special boiling point spirits consisting of hydro carbons deprived from petroleum (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol (with nominal boiling point ranges— (a) 55—115°C (b) 63—70°C. (c) Others	Rs. 2025.00 per kl. at 15°C. Rs. 1830.00 per kl. at 15°C. Rs. 1995.00 per kl. at 15°C.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.09	6	Special boiling point spirits, consisting of hydrocarbons derived from petroleum (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol) with nominal boiling point range 63—70°C	Rs. 1050.00 per Kl. at 15°C	Intended for use in the manufacture of solvent, extracted vegetable non-essential oils or for extracting fat from silk worm pupae.
6.10		Benzene, ethyl benzene, benzol, toluene toluol, solvent naphtha and mixed xylenes consisting of Orthoxylene, Meta-xylene, para-xylene and Ethyl Benzene.	Rs. 472.50 per kl. at 15°C	Intended for use— (i) as an entraining fluid in the production of dehydrated alcohol; (ii) as solvent or diluent or thinner for the manufacture of paints; varnishes, lacquers and allied materials or for use in painting, for the manufacture of adhesives, rubber solutions, water-proofing compositions and similar products, in the production of plastics for degreasing or cleaning; (iii) as solvent for the extraction of alkaloids or other active principles from plant and animal products; (iv) for chemical conversion into chemicals, drugs, dyes, explosives or synthetic rubbers or for intermediates therefor; (v) as preservative for compositions used in sizing textiles; (vi) as solvent, thinner or diluent for the extraction, isolation or purification of articles of the nature of drugs, chemicals, perfumery chemicals and concentrates, dyes, synthetic resins, explosives produced in synthetic resins, partly synthetic or other chemical processes of manufacturing them; (vii) as a medium and hydrogen-accepter in the manufacture of camphor; or (viii) as a dewaxing solvent in the process of purification of feedstock for manufacture of lubricating oils and light diesel oil.
6.11	6	Benzol	Rs. 500.00 per kl at 15°C	Intended for use with coke oven gas as fuel for the manufacture or processing of steel.
6.12	6	Benzene and Toluene	Rs. 30.00 per kl. at 15°C	Intended for denaturation of rectified spirit to be used in the manufacture of styrene monomer or vinyl chloride monomer or both.
6.13	6	Benzene, Ethyl Benzene, Benzol, toluene, Toluol and solvent naphtha	Rs. 35.00 per kl. at 15°C	Intended for use as solvents in the formulation of pesticidal solutions, sprays and suspensions or for use in the manufacture of DDT (Technical), B.H.C. (Technical), Malathion (Technical) and Endosulfan (Technical).
6.14	6	Power alcohol	Rs. 35.00 per kl. at 15°C	Intended (i) for use in the manufacture of :— (1) Laminated products; (2) Nitrocellulose finished, lacquers or thinners; (3) Acetic acid or ethylacetate; (4) Cellulose acetate; (5) Ethylene or ethylene based products; (6) Ceramic Capacitors; (7) Butadine or synthetic rubbers; (8) D.D.T. or Shellac; (9) Normal butyl alcohol or normal butyl acetate; (10) pharmaceuticals or dye stuffs; (11) Malathion or Parathion technical; (12) Enamels or Varnishes;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(13) Base chemicals intended for use in the manufacture of drugs or medicines;</p> <p>(14) Printing, Duplicating or Stamp and ink or Stencil paper or Carbon paper or type-writing ribbons; or</p> <p>(15) Diethyl phthalate; and</p> <p>(ii) intended for the purpose of analysis of nickel from alloy :</p> <p>Provided that an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the power alcohol shall not be used for providing motive power for any form of motor vehicle or air-craft or as fuel for internal combustion engines.</p>
6.15	6	Well dewaxing mixture	Nil	Condition : If it is used for dewaxing of oil wells.
701	7	Kerosene and aviation turbine fuel	Rs. 338.19 per kl. at 15°C	Nil
801	8	Refined Diesel oil of the type known as High Speed Diesel oil	Rs. 334.04 per kl. at 15°C	Nil
8.02	8	Refined Diesel oil (other than High Speed Diesel oil and Transfer oil)	Rs. 450.00 per kl at 15°C	Nil
8.03	8	Bauxite solvent oil	Nil	Condition : If it is used within a refinery as solvent for purifying waxes.
8.04	8	Transformer oil	Nil	Condition : If manufactured from transformer oil base stock or transformer oil feedstock on which the appropriate duty of excise, or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.
8.05	8	Liquid paraffins and white oils	Nil	Condition : If manufactured from spindle HVI oil on which the appropriate duty of excise, or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.
8.06	8	Well dewaxing mixture	Nil	Condition : If it is utilised for dewaxing of oil wells.
8.07	8	Refined diesel oil known as aromex or lomex	Rs. 100.00 per kl. at 15°C	Intended for use as industrial feedstock in the manufacture of carbon black.
8.08	8	The mineral oil which—	Rs. 100.00 per kl. at 15°C	Intended for use as solvent for extraction of alkaloids from cinchona bark.
		(a) has its flash point at or above 93.3° Centigrade;		
		(b) has its smoke point of less than 10 millimetres;		
		(c) contains carbon residue less than 0.25% by weight;		
		(d) has a viscosity of 40 seconds or more by Redwood I Viscometer at 37.8° Centigrade;		
		(e) is not ordinarily used as external fuel, or as fuel for internal combustion engines, or as an illuminant.		
9.01	9	Diesel oil, not otherwise specified	Rs. 155.72 per kl at 15°C	Nil
9.02	9	Any mineral oil produced in the State of Assam or the State of Bihar, and which satisfies the following specifications :	Rs. 127.10 per Kl. at 15°C	Nil
		(a) has its flashing point at or above 150°F, and		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(b) has flame height of less than 10 mm.; Provided that the said mineral oil – (a) has pour point as determined by the method I.P. 15/60 prescribed by the Institute of Petroleum, London, at or above 50°F, has a viscosity of over 35 seconds by Redwood I Viscometer at 100°F and contains more than 0.75 per cent. by weight of any bituminous substance; or (b) has a viscosity of over 50 seconds by Redwood I Viscometer at 100°F, and contains more than 2% by weight of any bituminous substance.		
9.03	9	C.B.F. (phenol Extract) "500" and "1300"	Rs. 100.00 per kl. at 15°C	Intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black.
9.04	9	Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Carbon Black Feed Stock SL.	Rs. 100.00 per kl. at 15°C	Intended for use as industrial feedstock in the manufacture of carbon black.
10.01	10	Furnace oil	Rs. 121.05 per kl. at 15°C	nil
10.02	10	Furnace Oil	Rs. 4.95 per kl. at 15°C	Condition : Such furnace oil is supplied to bunker coastal vessels subject to the observance of such procedure and compliance with such conditions were, or as may be prescribed in this behalf by the Central Board of Excise & Customs.
10.03	10	Furnace Oil	Rs. 21.05 per kl. at 15°C	Intended for use in the manufacture of iron ore pellets; Provided that the pellets produced therefrom are exported out of India.
10.04	10	Furnace Oil	Nil	Intended for use as feedstock in the manufacture of fertilisers.
10.05	10	Furnace oil	Rs. 61.05 kl. at 15°C	Intended for use otherwise than as feedstock in the manufacture of fertilisers.
10.06	10	Furnace oil	Rs. 61.05 per kl. at 15°C	Intended for use by M/s. Southern Petro Chemicals Industrial Corporation Tuticorin in the manufacture of synthesis gas or ammonia or steam or all or any of them and the synthesis gas or ammonia or steam or all of any of them so manufactured supplied to Heavy Water Plant at Tuticorin for manufacture of Heavy Water.
10.07	10	C.B.F. (Phenol Extract) '500' and '1300'	Rs. 100.00 per kl. at 15°C	Intended for use as industrial feedstock in the manufacture of Carbon black.
10.08	10	Carbon black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Carbon Black Feed Stock SL.	Rs. 100.00 per kl. at 15°C	Intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black.
11.01	11(1)	Coal and coke, not elsewhere specified	Nil	Nil
11.02	11	petroleum coke, other than calcined petroleum coke	2 % ad valorem	Nil
11.03	11	Straight grade Bitumen/ Asphalt— (a) Packed in drums	Rs. 150.05 per metric tonne	Nil
		(b) in bulk	Rs. 105.05 per metric tonne	Nil
11.04	11	Cut-back Bitumen/Asphalt (a) Packed in drums	Rs. 149.80 Per metric tonne	Nil
		(b) in bulk	104.80 Rs. per metric tonne	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.05	11	Tar	Nil	Nil
11A.01	11A	Mineral Colza oil	20 per cent. ad valorem.	Nil
11A.02	11A	Waxes	20 per cent. ad valorem. plus Rs. 475 per metric tonne	Nil
11A.03	11A	Residual Fuel oil	Rs. 147.10 per metric tonne	Nil
11A.04	11A	Flushing oil	Rs. 600.00 per metric tonne	Nil
11A.05	11A	Household oil	Rs. 590.70 per metric tonne	Nil
11A.06	11A	All products falling under sub-item (4) of Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises & Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than mineral colza oil.	20 per cent. ad valorem. plus Rs. 190 per metric tonne	Nil
11A.07	11A	Any mineral oil which— (a) has its flashing point at or above 93.3°C (b) has a smoke point of not more than 15 mm; (c) contains carbon residue less than 0.25% by weight (d) has a viscosity of 50 seconds or more by Redwood I Viscometer at 37.8 °C; (e) is not ordinarily used as an external fuel, or as fuel for internal combustion engines, or as an illuminant.	Rs. 110.00 per metric tonne	Intended for use in the manufacture of agriculture spray oil.
11A.08	11A	Mineral oil falling under Item No. 11A.	Rs. 13.85 per metric tonne	Condition : Such mineral oil is to be used for the batching of jute, Bimlipatam Jute or Mesta fibre or a combination of any two or more thereof in jute mills : Provided that (i) it is proved to the satisfaction of an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that the said mineral oil is to be used; and (ii) the procedure prescribed in this behalf by the Central Board of Excise & Customs from time to time is followed.
11A.09	11A	C.B.F. (Phenol Extract) '500' and '1300'	10 per cent. ad valorem.	Intended for use as feed stock in the manufacture of carbon black.
11A.10	11A	Low Sulphur Heavy Stock (LSHS)	Rs. 147.10 per metric tonne	Nil
11A.11	11A	Low Sulphur Heavy Stock	Rs. 136.71 per metric tonne	Intended for use in a steel plant.
11A.12	11A	Low Sulphur Heavy Stock	Nil	Intended for use as fuel in a refinery. Explanation :—"Refinery" means a refinery wherein refining of crude petroleum or shall or blending of non-duty paid petroleum products is carried on.
11A.13	11A	Low Sulphur Heavy Stock cleared from a refinery having a throughput on a half yearly basis whether wholly or indigenous crude oil or partly of indigenous crude oil and partly of	Nil	Intended for use as fuel for the generation of electrical energy by electricity undertakings owned or controlled by the Central Government or any State Government or any State Electricity Board or any local authority or a person licensed under

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		imported crude oil in which not less than sixty per cent. of the total throughput consists of indigenous crude oil.		Part II of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) to supply electrical energy or a person who has obtained sanction under section 28 of the Indian Electricity Act, 1910, to engage in the business of supplying electrical energy except those who produce electrical energy not for sale but produce it for their own consumption or for supply to their own undertakings ;
		Explanation—The expression “half yearly” means a period of 6 months commencing on the 1st day of January and ending with the 30th day of June or a period of 6 months commencing from the 1st day of July and ending with the 31st day of December, in a year.		Provided that any refinery producing the said Low Sulphur Heavy Stock partly from indigenous crude oil and partly from imported crude oil shall file a declaration to the effect that the throughput on a half yearly basis consists of not less than 60% of indigenous crude oil and where such throughput in respect of indigenous crude oil falls below the said limit, the refinery shall pay the duty leviable thereon.
11A.14	11A	Reduced crude if produced wholly from indigenous crude oil.	Nil	Intended for use as fuel for generation of electrical energy by electricity undertakings owned or controlled by the Central Government or any State Government or any State Electricity Board or any local authority or a person licensed under Part II of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) to supply electrical energy or a person who has obtained sanction under section 28 of the Indian Electricity Act, 1910, to engage in the business of supplying electrical energy except those who produce electrical energy not for sale but produce it for their own consumption or for supply to their own undertakings.
11A.15	11A	Dripolene ‘A’ and ‘B’	5 per cent. ad valorem.	Intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black.
11A.16	11A	HP Chemisperse-330	5 per cent. ad valorem	Intended for use in the manufacture of high density polyethylene otherwise than as fuel.
11A.17	11A	Mineral oil commonly known as spindle HVI oil	Rs. 1149.50 per metric tonne	Intended for use in the manufacture of petroleum sulphonates for agricultural spray oils or pharmaceutical oils or plasticizer oils.
11A.18	11A	Mineral oil commonly known as spindle HVI oil	Rs. 1440.00 per metric tonne	Intended for use in the manufacture of white oils or liquid paraffins.
11A.19	11A	Mineral oil, commonly known as Transformer Oil Base Stock (TOBS), or Transformer Oil Feed Stock (TOFS) and having the following requirements namely :— (a) it has a flame height of less than 10 mm; (b) it has its flashing point at or above two hundred degrees of Fahrenheit’s thermometer; (c) it contains less than 0.25 per cent. of bituminous substance; (d) it has a viscosity of fifty seconds or more by Rodwood I Viscemeter at one hundred degrees of Fahrenheit’s thermometer; (e) it is not ordinarily used as an external fuel; or as fuel for internal combustion engines; or as an illuminant ;	Rs. 1580.00 per metric tonne	Intended for use in the manufacture of transformer-oil.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11A.20	11A	Wash oil 'B', Wash oil 'C' or Wash oil '65'	Rs. 110.00 per metric tonne.	Intended for use as solvent or absorbent in the manufacture or extraction of Benzol, Benzene, toluene, Xylene, light solvent naphtha and naphthalene.
11A.21	11A	Heavy Petroleum Stock	nil	Intended for use as feed stock in the manufacture of fertilizers.
11A.22	11A	Intermediate petroleum products produced in refineries.	nil	Condition: If used as fuel within the refineries for the production or manufacture of other finished petroleum products.
11AA.01	11AA (1)	Liquified Petroleum Gas	Rs. 262.50 per metric tonne	nil
11AA.02	11AA(2)	Petroleum gases and gaseous hydrocarbons derived from refining of crude petroleum or shale.	20 per cent. ad valorem.	nil
11AA.03	11AA	Refinery gas	nil	Condition : If used within the refinery as fuel or as raw material for the production of refinery products or in oil fields for running of boilers, gas engines or for pressurizing of oil wells.
11B.01	11B	Blended or compounded lubricating oils and greases.	nil	nil

## सं० 76/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 158 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि के रूप में, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

## सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	72/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1977	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
2.	177/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 में से प्रत्येक के सामने स्तम्भ (2) में "8 या" अक्षर और शब्द का लोप किया जाएगा।

Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

## THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	72/77-Central Excises dated the 29th April, 1977.	In the Table annexed to the said Serial Nos. 1 and 2 and the entries relating thereto shall be omitted.
2.	177/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.	In the Table annexed to the said notification, in column (2) against each of the Serial Nos. 1 and 2, the figure and word "8 or" shall be omitted.

## सं० 77/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 159 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, राजस्व और कंपनी विधि विभाग, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 187/61-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1961

## No. 76/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central



2. सं० 121/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जून, 1962
3. सं० 168/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 सितम्बर, 1962
4. सं० 194/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962
5. सं० 74/63—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 मई, 1963
6. सं० 4/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1964
7. सं० 102/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 अप्रैल, 1964
8. सं० 124/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 जुलाई, 1964
9. सं० 5/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जनवरी, 1966
10. सं० 192/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 दिसम्बर, 1966
11. सं० 46/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 मार्च, 1967
12. सं० 191/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 अगस्त, 1967
13. सं० 246/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1967
14. सं० 113/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 अप्रैल, 1969
15. सं० 44/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 अप्रैल, 1971
16. सं० 37/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972
17. सं० 18/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1973
18. सं० 34/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
19. सं० 35/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
20. सं० 9/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जनवरी, 1974
21. सं० 21/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
22. सं० 138/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 1974
23. सं० 147/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अक्टूबर, 1974
24. सं० 190/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1975
25. सं० 60/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
26. सं० 195/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जून, 1976
27. सं० 345/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977
28. सं० 350/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977
29. सं० 351/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977
30. सं० 44/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
31. सं० 45/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
32. सं० 45/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
33. सं० 115/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1979
34. सं० 117/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1979
35. सं० 219/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 1979
36. सं० 231/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1979
37. सं० 250/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 अगस्त, 1979
38. सं० 287/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1979
39. सं० 128/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 जून, 1981
40. सं० 38/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
41. सं० 39/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
42. सं० 176/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982
43. सं० 230/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 अक्तूबर, 1982
44. सं० 160/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 मई, 1983
45. सं० 2/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1984

[फा० सं० 334/1/83—टी आर यू]  
गौतम रे, अव्वर सचिव

## No. 77/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of Revenue and Company Law, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely :—

1. No. 187/61-Central Excises, dated the 23rd September, 1961
2. No. 121/62-Central Excises, dated the 13th June, 1962
3. No. 168/62-Central Excises, dated the 15th September, 1962
4. No. 194/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962
5. No. 74/63-Central Excises, dated the 18th May, 1963
6. No. 4/64-Central Excises, dated the 18th January, 1964
7. No. 102/64-Central Excises, dated the 25th April, 1964
8. No. 124/64-Central Excises, dated the 4th July, 1964
9. No. 5/66-Central Excises, dated the 15th January, 1966
10. No. 192/66-Central Excises, dated the 7th December, 1966
11. No. 46/67-Central Excises, dated the 23rd March, 1967
12. No. 191/67-Central Excises, dated the 8th August, 1967.
13. No. 246/67-Central Excises, dated the 11th November, 1967
14. No. 113/69-Central Excises, dated the 26th April, 1967
15. No. 44/71-Central Excises, dated the 7th April, 1971
16. No. 37/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972
17. No. 18/73-Central Excises, dated the 1st February, 1973
18. No. 34/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973
19. No. 35/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973
20. No. 9/74-Central Excises, dated the 26th January, 1974
21. No. 21/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974
22. No. 138/74-Central Excises, dated the 14th September, 1974
23. No. 147/74-Central Excises, dated the 30th October, 1974
24. No. 190/75-Central Excises, dated the 30th August, 1975
25. No. 60/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976
26. No. 195/76-Central Excises, dated the 10th June, 1976.
27. No. 345/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977
28. No. 350/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977
29. No. 351/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977
30. No. 44/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978
31. No. 45/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978
32. No. 45/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979
33. No. 115/79-Central Excises, dated the 16th March, 1979
34. No. 117/79-Central Excises, dated the 16th March, 1979
35. No. 219/79-Central Excises, dated the 30th June, 1979
36. No. 231/79-Central Excises, dated the 1st July, 1979
37. No. 250/79-Central Excises, dated the 17th November, 1979
38. No. 287/79-Central Excises, dated the 17th November, 1979
39. No. 128/81-Central Excises, dated the 27th June, 1981
40. No. 38/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982
41. No. 39/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982
42. No. 176/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982
43. No. 230/82-Central Excises, dated the 23rd October, 1982
44. No. 160/83-Central Excises, dated the 24th May, 1983
45. No. 2/84-Central Excises, dated the 1st January, 1984

[F. No. 334/1/83-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.